

प्रकाशक :  
विद्वान्मर 'मानव'  
बनधटा,  
मु रा दा घा दृ ।

|                 |         |
|-----------------|---------|
| प्रथम संस्करण   | १६४३ ई० |
| द्वितीय संस्करण | १६४४ ई० |
| तृतीय संस्करण   | १६४७ ई० |

मुद्रक :  
गणपति शर्मा  
शर्मा मैशीन प्रिटिंग प्रेस,  
मु रा दा घा दृ.

## क्रम

### नाटक

#### प्रसाद

|                          |    |
|--------------------------|----|
| अजातशत्रु                | १  |
| स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य | १८ |
| चन्द्रगुप्त              | ५४ |

#### उपन्यास

#### प्रेमचन्द्र

|            |     |
|------------|-----|
| सेवासद्दन  | ८७  |
| गव्यन      | ९५  |
| गोदान      | ११० |
| प्रेमाश्रम | १२४ |

#### प्रबन्ध - काव्य

#### अयोध्यासिंह उपाध्याय

|                     |     |
|---------------------|-----|
| प्रिय-प्रवास        | १३६ |
| मैथिलीशरण गुप्त     |     |
| साकेत               | १६२ |
| जयशङ्कर      प्रसाद |     |
| कामायनी             | १८८ |

## पुस्तक के संबंध में

अपने अध्यापन-काल में 'प्रसाद' जी के नाटकों प्रेमचंद जी के उपन्यासों और गुप्त जी, उपाध्यायजी तथा कामायनीकार के प्रबंध-काव्यों पर कुछ न कुछ कहना पड़ा है। वे ही शब्द व्यवस्थित रूप में इन पृष्ठों पर उभर आये हैं। विद्यार्थियों की आवश्यकता को सामने रख कर ही मैंने ये लेख लिखे हैं। अतः मैं यह सोच भी नहीं सकता कि इस ग्रन्थ की गणना आलोचना-ग्रंथों में होगी।

इसकी माँग से मैं हस परिणाम पर अवश्य पहुँचा हूँ कि यह पुस्तक उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। कारण यह है कि ये ही पुस्तकें घुमा-फिरा कर सभी कहीं पाठ्य-क्रम में नियत हैं। कई परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों में मैंने देखा है कि इसके बाक्यों को ही प्रश्न बनाकर पूछ लिया है। इधर पिछले कई वर्षों से यह पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय की बी० ए० कक्षा में विशेष अध्ययन के लिए व्योकृत है।

आलोचना की दिशा में इसके उपरांत प्रकाशित होने वाली मेरी दूसरी पुस्तक 'महादेवी की रहस्य-साधना' है। पर इन दोनों के बीच मेरे हाथ के लिखे हुए और बहुत से लेख हैं जो अंथ का रूप धारण कर सकते हैं। सुविधा किलते ही उन्हे प्रस्तुत करूँगा।

मैं इस सत्य से अवगत हूँ कि आलोचना के द्वेष में मेरे पास गर्व करने को कभी कुछ नहीं है। आलोचना मेरा रबभाव नहीं। उसमें मेरे प्राण नहीं बसते।

बनबटा,  
सुरादावाह.

विश्वविद्यालय 'मानव'

# खस्मर्ण

## अपने विद्यार्थियों को

तुम शिक्षालय के उपयन से —

द्रुम - गुरुओं के ज्ञान - सुभन से,

से पराग तथ्यों के कन से,

बढ़ जाते हो भन्द पवन से ।

सुरभित करते बाहर अन्तर;

निज यश भरते धरणी अम्बर;

ध्यापक बनते नील गगन से ।

फिर कब झूला उपयन हग में !

फिर कब आते द्रुम स्मृति - मग में !

सायं - सग तुम मुड़ न देखते

छूट शोम - कंचन - कानन से ।

मैं शब्दों का खारा सगर

तुम अपनी भर रसमय गोगर

पार करो भू, तम, गिरि, अम्बर

बरसो फिर सापन के धन से ।

---



## अजातशत्रु

मौर्य-काल से पूर्व की ऐतिहासिक घटनाओं का सङ्कलन हुत कुछ जैन और बौद्ध-सा हित्य तथा पुराणों के आधार पर हुआ है। २० पूर्व छठी शताब्दी प्रारम्भ में उचर भारत में १६ स्वतन्त्र राज्य अथवा महाजनपद थे। अजातशत्रु नाटक में उनमें से तीन का वर्णन आया है—

(१)-मगध उस काल का उन्नतिशील राज्य था। इसकी राजधानी राजगृह थी।

(२) कौश स्वी-यह “वत्स” राज्य के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी आधुनिक इलाहाबाद के निकट ‘कौशाम्बी’ थी।

(३) कौशल--इसका आधिपत्य आधुनिक लखनऊ और फैजाबाद के ज़िलों की भूमि पर समिक्षिए। यहाँ का राजा ‘प्रसेनजित’ था। उसके पुत्र विरुद्धक को इतिहास दुर्बल और अत्याचारी बतलाता है। इसकी राजधानी ‘श्रावस्ती’ थी।

मलिका के मुख से ‘मल्ल’ राज्य का वर्णन भी हम सुनते हैं। इसे आधुनिक गोरखपुर ज़िले की सीमा के अन्तर्गत लेना चाहिए।

महाभारत काल से मगध पर जरासन्ध का कुल राज्य करता था, इसा से छठी शताब्दी पूर्व में वहाँ ‘शिशुनाग’ वंश का आधि-

पत्य हुआ । महावीर और गौतम का समकालीन विम्बसार ( ५८२ ई० पू० से ५५४ ई० पू० ) जो इस कुल का पाँचवों राजा था, प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति है । उसने अङ्ग को विजय किया । उसकी दो रानियों थीं—एक कोशल राज्य की कुमारी जिसे दहेज में काशी का राज्य मिला और दूसरी वैशाली ( वृजि ) राज्य की लिच्छवी वंश की राजकुमारी । वौद्ध-ग्रन्थों के आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि उसके पुत्र अजातशत्रु ( ५५४-५२७ ई० पू० ) ने उसे बन्दी बनाया और भूखा रखकर मार डाला ।

अजातशत्रु शेशुनाग वंश में स्वसे प्रभावशाली राजा सिद्ध हुआ । उसकी माँ लिच्छवी वंश की और पत्नी कोशल वंश की थी । कोशलके राजा प्रसेनने अजात के आचरणपर अप्रसन्न होकर काशी से उसे कर मिलना बन्द करा दिया । इस पर दोनों राज्यों में युद्ध हुआ । अजात अन्त में विजयी हुआ । यह अजात-शत्रु ही था, जिसने गंगा और सोन के संगम पर एक गढ़ बनवाया जो आगे चलकर पाटलीपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अजातशत्रु नाटक को समझने के लिए इतने ऐतिहासिक तथ्य पर्याप्त हैं ।

नाटकमें 'प्रसाद' ने तीन राज्यों—मगध, कोशल, कौशाम्बी की राजनीतिक घटनाओं का गठबन्धन बड़े कौशल से किया है । कौशाम्बी का राजा उदयन मगध-सम्राट विम्बसार का जामाता है, विम्बसार कोशल के राजा प्रसेन का बहनोई है । उसका पुत्र अजात इसी प्रसेन का जामाता बनता है ।

विम्बसार, अजातशत्रु, जीवक, प्रसेनजित, विरुद्धक, गौतम, देवदत्त और आनन्द का नाम तो स्पष्टतः प्रत्येक इतिहास-ग्रन्थ

में मिलता है। अन्य नाम 'प्रसाद' ने वौद्ध-जातकों, कथा सरित्सागर और स्वप्नवासवदत्ता आदि कई संस्कृत के साहित्य-ग्रन्थों से लिए हैं। प्रसेनजित की पत्नी दासी-पुत्री शक्तिमती का नाम कल्पित है। उदयन की रानी मागन्धी को 'अस्वा-पाली' मानना असङ्गत अथवा साहित्यिक-स्वच्छन्दता है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। समुद्रदत्ता, सुदत्ता वसन्तक, लुब्धक और रानियों की सेविकाओं के नाम तो कल्पित रहेंगे ही। भूमिका में एक छोटी-सी भूल 'प्रसाद' जी से यह हो गई है कि वासवीको प्रसेन की भगिनी मानते हुए भी वे एक स्थान पर उसे प्रसेन की पुत्री लिख गये हैं। देखिये-

"अजानशत्रु जब अपने पिता के जीवन में ही राज्याधिकार का भोग कर रहा था और जब उसकी विमाता कोशलकुमारी वासवी अजात के द्वारा एक प्रकार उपेक्षिता सी हो रही थी, उस समय उसके पिता ( कोशल नरेश ) प्रसेनजित ने उद्योग किया कि मेरे दिये हुये कारी-प्रान्त का आय कर वासवी को हो मिले ।"

अजातशत्रु ऐतिहासिक नाटक होते हुए भी एक 'विचार-प्रधान' नाटक है। यह सत्य है कि यह वाणी-सङ्घर्ष से परिपूर्ण है, पर वाणी-सङ्घर्ष चरित्रों के आन्तरिक विचारों का परिणाम मात्र है। इसमें विचार हैं कारण, आचरण है काये। यह नाटक एक धार्मिक आनंदोलन का सजीव चित्र है। बाहर से जैसे यह पिता पुत्र पत्नी-पति, मौत-सौन, भिजु-भिजु का संघर्ष है, भीतर से उसी प्रकार करुणा-क्रूरता, महत्वाकांक्षा-अधिकार, डाह-अनुकम्पा और पाखण्ड-पुण्य का युद्ध है। इस आधार पर हम पात्रों को दो स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं-सत् और असत्। एक ओर वासवी, विन्द्वसार, मलितका, गौनम और पद्मावती हैं,

दूसरी ओर छलना, अजात, प्रसेन, विरुद्धक, देवदत्त, समुद्रत्थ और मागन्धी हैं। 'अजातशत्रु' सत् और असत् का महर्ष है। असत् पहले प्रवल होना, सत् को आच्छादित करता दिखाई देता है, किरथकर सत् के चरणों को शरण में आता है। सत् असत् को अपने बन्ध से बिटाना है और उसके शीश पर अभय का कर रखता है। सर्वर्ष रुक जाना है मङ्गल छा जाता है।

नाटक के आरम्भ में ही दण्ड देने को उद्यन अजान के हाथ को उसकी भगिनी पद्मा थामती है। वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पौरुष की अति को नारी की कोमलता रोकती है, मानो क्रूरता का करुणा वर्जन करती है, मानो हिंसा को अहिंसा टोकती है। समस्त नाटक इसी वर्जन से भरा हुआ है, इसी स्नेह से परिप्लावित है। नाटक के असत् पात्र अपराध करने पर तुले हुए हैं और धीरे-धीरे सुधार की ओर जा रहे हैं, प्रारम्भ में अपराध करते हैं और अन्त में पश्चात्ताप करते हुए क्षमा मांग लेते हैं। दुष्टता का अन्त किसी न किसी आघात से होता है। छलना पति और सपत्नी के प्रति अपराध करती है, पर जब उसका पुत्र अजात बन्दी होता है तब उसके हृदय में मातृ-प्रेम उमड़ता है। यह मातृ-प्रेम उसके हृदय की क्रूरता को शान्त करता है और डाह तथा अधिरार-भावना की कीच को धो देता है। प्रसेनजित और विरुद्धक मलिका का अनिष्ट करते हैं—प्रसेन इसलिए कि मलिका के पति सेनापति बन्धुल से वह शक्ति रहता है और विरुद्धक इसलिए कि मलिका का विवाह उससे न होकर बन्धुल से क्यों हुआ। यही मलिका प्रतिशोध की भावना को दूर फेंककर धायल प्रसेन और विरुद्धक की सेवा करती हुई उन्हे जीवन-दान देती है। उसका देवत्व इनकी क्रूरता को भस्म कर डालता है। मागन्धी का पतन हुआ है रूप और

योवन के गर्व के कारण तथा वासना की अतृप्ति से । अपने रूप की शक्ति से वह गौतम जैसे बीतराग को भी परास्त करना चाहती थी । पतिरूप में गौतम को प्राप्त करने की उसकी बड़ी आकांक्षा थी । गौतम ने उसे स्वीकार नहीं किया, परं जब वह जगत से तिरस्कृत होती है, मार्ग चलते बालक उसपर ढेले फेंकते हैं, तब गौतम की अगाध करुणा उसके पाप को अपने क्रोड में लेकर पुण्य कर देती है । भगवान् बुद्ध से अकारण द्वेष करने वाले पाखण्डी देवदत्त और समुद्रदत्त अपने पाप की ज्वाला में ही मर मिटते हैं । अजात कुछ अधिक दुष्ट है, अतः उसके हृदय पर कई आघात लगते हैं तब उसकी मति ठिकाने आती है । मलिलका की कुटी में अजात प्रसंन की हत्या करने जाता है । वहाँ मलिलका की शीतल वाणी के छीटे उसकी हिंसा वृत्ति के उफान को नीचे बिठा देते हैं । फिर वाजिरा के प्रति आकर्षण उसके हृदय को कठोर भूमि को रससिक्क करता है । वासवी का मातृत्व उसे और कोमल बनाता है और पुत्रोत्पत्ति पर उसके अन्तर का वात्सल्य तो करुणा से विगतित करके उसे पूर्ण मनुष्यता प्रदान करता है । क्रूर पात्रों के हृदय-परिवर्तन पर पद्मावती की यह धारणा अन्त में सत्य प्रभागित होती है—

“मनुष्य होना राजा होने से अच्छा है ।”

विस्वसार दार्शनिक वृत्तिका एक सात्त्विक गुण सम्पन्न प्राणी है । उसने जहाँ कहीं मुख खोला है वहीं अपनी गम्भीर विचार-शीलता का परिचय दिया है । कुछ उसके स्वभाव, कुछ भगवान् अमिताभ के प्रभाव और कुछ जीवन के कदु अनुभवों ने उसे वस्तुओं के सत्य ज्ञान का परिचय कराया है । जीवन की क्षण-भंगुरता, मनुष्य की महत्वाकांक्षा, नियति के विषेम व्यवहार,

जगत के उत्थान-पतन, प्रकृति की उच्छृङ्खलता, मनोभावों की अस्थिरता एवं मनुष्य की प्रवृत्तियों पर वह वरावर विचार करता पाया जाता है। उसकी विचारधारा किसी अनुभवी विचारक के परिणामों से कम सारगमित नहीं। उसके विचार से मानव ने अपने चतुर्दिक जटिलताओं का जाल ऐसा फैला रखा है कि उस उलझन में ग्रस्त वह कभी वास्तविक शान्ति को प्राप्त न कर सकेगा। सृष्टि में आनन्द के व्याघात को विम्बसार किस व्यापक दृष्टि से देखता हुआ स्पष्ट करता है—

“सच तो यह है कि विश्वभर में स्थान-स्थान पर वात्याचक्र है; जल में उसे भैंवर कहते हैं, स्थल पर उसे बर्बंडर कहते हैं, राज्य में विष्णु, समाज में उच्छृङ्खलता और धर्म में पाप कहते हैं।”

दार्शनिक होते हुए भी वह शासन करना जानता था, शासन करना चाहता था। गौतम जब अजात को राज्य-भार सौंपने का परामर्श देते हैं तब विम्बसार कुछ ज्ञान के लिए आनाकानी करता है। इस आनाकानी को बुद्ध ने यद्यपि ‘राज्याधिकारकी आकांक्षा’ कहा है पर विम्बसार के सामने अजात की अयोग्यता भी थी। वासवी से उसने स्वीकार किया है, “इस कुण्ठीक के व्यवहार से अपने अधिकार का ध्यान हो जाता है। तुम्हे विश्वास हो या न हो, किन्तु कभी कभी याचकों का लौट जाना मेरी वेदना का कारण होता है।” उसे खोटे खरे की पहचान थी, इसी से छलना से वह त्रिकृत रहता था। पर वासवी को सम्बोधन भी सम्मान-पूर्वक करता है। विम्बसार में ‘सम्राट्’ से भी मनुष्य प्रबल है और न्यायाधीश से भी पिता। जीवक के ‘सम्राट्’ कहने पर वह झुँध होकर कहता है “चुप! यदि मेरा नाम न जानते हो तो मनुष्य कहकर पुकारो। यह भयानक सम्बोधन मुझे न चाहिए।”

जिस पुत्र ने उसके साथ शत्रु का सा दुर्व्यवहार किया, उसे वह अन्त में क्षमा कर देता है। बिम्बसार शान्ति-प्रिय व्यक्ति था। उसकी इस अभिलाषाको चाहे हम कोरी भावुकता कहें पर इससे लोक के प्रति उसकी मङ्गल-कामना और सच्ची शान्ति का गता घोटने वाले सांसारिक वैभव की निष्पारता टपकती है—

”यदि मैं सम्राट् न होकर किसी विनम्र लताके कोमल किसलयों के झुरमुट में एक अधसिला फूल होता और संसार की दृष्टि मुझपर न पड़ती, पवन की किसी लहर को सुरभिन करके धीरे से उस थाले में चूपड़ता, तो इतना भीषण चीत्कार इस विश्व में न मंचता ।”

अजात शत्रु एक क्रूर राजकुमार था और एक उच्छ्रुत्त्व-शासक। लुब्धक के मृगछौना न लाने पर वह उसे कशाधात करने को तैयार होता है। राज्य-लोलुपता ने उसे ऐसा अन्धा किया कि औरङ्गज़ेब की भाँति उसने पिता को उसके जीवनकाल में ही सिहासन से च्युत कर दिया और उस पर ऐसा नियन्त्रण रखा जैसा एक बन्दी पर रखा जाता है। विमाता वासवी पर भी वह आकारण सन्देह करता है। प्रसेनजित की आज्ञा से काशी की प्रजा जब अजात को कर नहीं देती तब वह कहता है, “ओह ! अब समझ में आया। यह काशी की प्रजा का कण्ठ नहीं, इसमें हमारी विमाता का व्यंग्य स्वर है ।” तुरन्त ही वह परिषद् का आयोजन करता है और वासवीपर नियन्त्रण रखनेकी आज्ञा लेता है। एक ओर छलना के संकेत पर वह चलता है दूसरी ओर देवदत्त और समुद्रदत्त जैसे यश-लोलुप चाढ़कार व्यक्ति उसे कुमति प्रदान करते रहते हैं। उससे प्रजा असन्तुष्ट है और पिता भी। युद्ध-भूमि में भी उसने रण-कोशल का परिचय नहीं दिया। कोशल राज्य पर आक्रमण करने जाता है और बन्दी हो जाता है। कोशल

की राजकुमारी वाजिरा के अनुपम लावण्य की मल्लक से उसका हृदय को मल होता है—

अजात—सुनता था कि प्रेमद्रोह को पराजित करता है। आज विश्वास भी होगया। अब यदि कौशल नरेश मुझे बन्दीगृह में छोड़ दें तब भी...

वाजिरा—तब भी क्या ?

अजात—मैं कैसे जा सकूँगा ?

पुत्रोत्पत्ति पर तो वह पिघल पड़ता है और सदबुद्धि का उदय होते ही वह पिता की शरण जाकर चरण पकड़कर ज्ञामा मौगता है। विम्बसार उस समय कैसी मीठी चुटकी लेता है—

“क्यों अजात ! पुत्र होने पर पिता के रैंने ह का गौरव तुम्हे विदित हुआ। कैसी उल्टी बात हुई ।”

मगध और कौशल की राजनीति ‘प्रसाद’ जी ने एक-सी रखी है। विम्बसार, अजात और छलना की तुलना हम प्रसेन-जित, विरुद्धक और शक्तिमती से कर सकते हैं। जैसे अजात अपने पिता को पद-च्युत करके सिंहासनका अधिकारी हुआ, उसी प्रकार विरुद्धक अपने पिता प्रसेनको सिंहासन से उतारना चाहता है जिस प्रकार छलना अपने पुत्र को कुमार्ग पर चलाती है उसी प्रकार शक्तिमती भी उसे साहसिक बनाने में गौरव का अनुभव करती है और अपनी कार्य-सिद्धि के लिए कभी मलिलका को भड़काती है, कभी दीर्घकारायणको। छलना ने जैसे पति के साथ विश्वासघात किया है, वैसे ही शक्तिमती अपने स्वामी के साथ विश्वासघात करती फिरती है। विरुद्धक तो अजात से अभिं-

संधि करके देशद्रोही होने का परिचय भी देता है। अजात और विरुद्धक के कार्योंमें इतना अन्तर है कि अजात सफल होगया है, विरुद्धक असफल रहा। अजात और विरुद्धक के आचरण में इतना अन्तर है कि विरुद्धक ने अपनी उद्दारडता का अधिक परिचय दिया है। हृदय से दानों महत्वाकांक्षी हैं पर अजात विनम्रता से काम लेता है, विरुद्धक आलोष्टता से। गौतम के यह कहने पर कि क्या वह राज्य का काये मंत्रि-परिपद्म की सहायता से चला सकेगा अजात शीघ्रता से पर संयत शब्दों में कहता है, “क्यों नहीं, पिता जी यदि आज्ञा दें।” विरुद्धक एकदम स्पष्ट शब्दों में कहता है, “पुत्र यदि पिता से अपना अधिकार मर्गे तो उसमें दोष ही क्या है ?” विम्बसार अर प्रसेनजित में यह अन्तर है कि विम्बसार जहाँ झुक गया है वहाँ प्रसेन नहीं झुका। विम्बसार अनिच्छा होते हुए भी राजकार्य अजात को सौंप देता है, पर प्रसेन विरुद्धक को राज्य से निकाल बाहर करता है। प्रसेन दार्शनिक विम्बसार से अधिक सतेज और दृढ़ है। अन्त में जैसे विम्बसार छलना और अजात का ज्ञान प्रदान करता है उसी प्रकार प्रसेनजित भी विरुद्धक और शक्तिमती का ज्ञान कर देता है। प्रसेन का वात्सल्य वैसे विम्बसार के वात्सल्य से किसी प्रकार कम नहीं है। शासन-व्यवस्था के लिए उसने पुत्र का बहिष्कार किया था, पर जब विरुद्धक उसके चरण परड़ता है तब प्रसेन के अंतर का अवरुद्ध पिता विकल होकर कहता है—

“धर्माधिकरी ! पिता का हृदय इतना सदय होता है कि नियम उसे क्रूर नहीं बना सकता। मेरा पुत्र मुझसे ज्ञान-भिक्षा चाहता है, धर्मशास्त्र के उस पत्र को उलट दो। मैं एक बार अवश्य ज्ञान कर दूँगा। उसे न करने से मैं पिता नहीं रह सकता, मैं जीवित नहीं रह सकता।”

मल्लिना के रूप में कवि ने एक आदर्श चरित्र की सुषिट्ठि की है। वह एक वोर को सच्चाओं सहवर्मिणों है। उसका पति युद्धेन्द्र में गया है—इस बात का उसे बड़ा गर्व है और आहूलाद भी। यह पतिपरायणा नारो-कर्तव्यकी उपासिका है। महानाया शैलेन्द्र के द्वारा उसके पति को हत्या का आशंका उसके सामने रखती है, पर वह विचलित नहीं हाती, राजभक्त रहना ही श्रेष्ठ समझनी है। कर्तव्यवालन को परख तो कठोर स्थिति में ही अच्छी होती है। दुभाग्य से उसका सौभाग्य-सिन्दूर पुछ जाता है और जिस दिन वह यह संदेश सुनती है उसी दिन धर्माचार्य सारिपृत्र और आनन्द का उसे भिजा कराना है। पर वह अपने आतिथ्य-धर्म का प्रतिपालन करती है। आनन्दने उसके इस आचरणपर चकित होकर उसे 'मूर्तिमती धमररायणता' कहा है। ऐसे घार शोक में ऐसे अगाध धेयों का परिचय बड़ो सबल आत्मा का काम है। जिस प्रसेन ने उसके पति को हत्या करवाइ है उसे ज्ञाना ही नहीं करती, संकट में उसको सेवा भी करती है, जिस विरुद्धक ने उसके स्वामी की हत्या की उसकी शुश्रूषा करके उसे लज्जित ही नहीं करती, पूर्वे-प्रणय को समृति जगाने पर जब वह उस सेवा में प्रेम की गंध सुई घने लगता है तब मल्लिना उसकी बुद्धि को ठिकाने लाती है—“विरुद्धक ! तुम उसका मनमाना अर्थ लगाने का भ्रम मत करो। मल्लिना उस मिट्टी की नहीं है जिसको तुम समझने हो।” प्रसेन से इसी विरुद्धक और उसकी माता शक्तिमती का ज्ञान प्रदान करवाती है। मल्लिना बौद्ध-धर्म का व्यवहार-पक्ष है। सङ्कट में धैर्य धारण करना और शत्रु के प्रति प्रतिकार-भावना तो दूर, आवश्यकता पड़ने पर उसको सेवा करके विश्व-करुणा-और विश्व-मैत्री का परिचय देना मल्लिना के चरित्र से सीखा जा सकता है। प्रतिकूल-भावना भी उसके हृदय में नहीं उठती,

मनोभारों पर भी एक मुक्त पुरुष का सा उसका अधिकार है, इस दृष्टि से उसके चरित्र में थोड़ी अस्वाभाविकता आगई है। इस सम्बन्ध में हमारे हृदय में सन्देह न उठे, इसी से नाटककार ने मलिलका को कई पात्रों से बार-बार 'देवी' कहलाया है। श्यामा उसे देखकर कहती है, 'जिसे काल्पनिक देवता कहते हैं, वही तो सम्पूर्ण मनुष्यता है।' मलिलका के ही शब्दों में हम मलिलका के लिए कह सकते हैं कि उसे "केवल स्त्री-सुलभ सौजन्य और संवेदना तथा कर्त्तव्य और धर्म की शिक्षा मिली है।" इनमें से एक-एक गुण का उसने ऐसा उज्ज्वल उदाहरण उपस्थित किया है कि मस्तक श्रद्धा से स्वर्यं न रहो जाता है।

मार्गंधी को हम तीन रूपों में देखते हैं—महारानी के, वेश्या के और आम्रपाली के। ये तीन रूप मानो उसके जीवन-नाटक के तीन अङ्क हैं। रानी के रूप में वह एक रूप-गर्विता रमणी है, पर तिरस्कृता होने से विच्छुब्ध सी पाई जाती है। अतः पति के प्यार को वह छल से प्राप्त करना चाहती है। उदयन के आने पर उसे गान से मोहित करती हुई बीणा में नवीना दासी के द्वारा साँप का बच्चा रखवा कर व्यंग्य के द्रव में पद्मावती के प्रति सन्देह का विष मिलाकर महाराज के हृदय पात्र में उड़ेल देती है। उसका छल उस समय काम कर जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका पड़्यन्त्र प्रकट होने वाला है तब अपने राजमन्दिर में आग लगाकर भग जाती है।

फिर हम उसे श्यामा नाम से काशी की प्रसिद्ध वारविलासिनी के रूप में पाते हैं। रानी के रूप में उसका प्रभावशाली रूप, मदिरा सेवन, अतृप्त वासना और छल मानो वेश्या-जीवन की भूमिका थे। शैलेन्द्र डाकू की वह अनुरक्ता है। भयानक रात

मेरे वह उससे मिलने जाती है और उसके प्रेम के लिए वह समुद्रदत्त की हत्या करवाती है। शैतनेद्वय उसके साथ विश्वासघात करता है और अपना भेद खुलने के भय से उसका गला घोटकर एक विहार के समीप डाल आता है। समुद्रदत्त के प्रति उसकी निष्ठुरता का मानो दैव की ओर से यह प्रत्युत्तर है।

गौतम के उपचार से उसकी साँस लौटती है और उसके साथ उसके प्राणश्चित का जीवन आरम्भ होता है। मागन्धी का काम अब आप्ति की वारी ले फ़र बेचना है। जीवन के प्रारम्भ में गौतम को उसने पनि रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। उस रूप में तो वह उन्हें प्राप्त नहीं कर सकी, पर जीवन की संध्या में आत्मा के उद्धारक के रूप में उन्हें उसने पाया। उनकी करुणा से छलभरो मागन्धी, पतिता श्यामा सरल और निमेल होगई।

छलना का नाम ही उसका परिचय है। पद्मावती और अजात के तर्क-वितर्क में हम उसे अजात का पक्ष लेते हुए हिसाका प्रतिपादन करते पाते हैं। गौतम जब विम्बसार को उपदेश देते हैं तब छलना को यह बात नहीं सुहाती और वह वहाँ से चली जाती है। शाक की वह भूखी है और अहङ्कार उसके हृदय में वास करता है। सन्देह उसके हृदय को घेरे रहता है और सापल्य-डाइ से वह झुलसी जाती है। पद्मावती के सम्बन्ध में उसका विचार है कि वह राज्य आत्मसात् करने आई है और वासवी के सम्बन्ध में उसकी धारणा है कि वह दिखावे का प्रेम करती है। विम्बसार सिहासन का परित्याग करते हैं और अपने पुत्र के हाथों बन्दी जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, पर छलना को इसका दुख तो क्या, परवा भी नहीं है। वासवी के

तो अस्तित्व को वह सहन नहीं कर सकती। उसे क्लेश पहुँचाने में ही उसे मुख मिलता है। काशी पर अधिकार होने की सूचना देने छलना स्वयं आती है। उस समय उसका एक एक शब्द विष में बुझे हुए वाणि-सा छूटता है-

छलना—वासवी, तुमको तुम्हारी असफलता सूचिन करने आई हूँ।

विम्बसार—तो राजमाता को कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी यह तो एक सामान्य अनुचर कर सकता था।

छलना—किन्तु वह मेरी जगह तो नहीं हो सकता था और सन्देश भी अच्छो तरह से नहीं कहता। वासवी के मुख की प्रत्येक सिकुड़न पर इस प्रकार लक्ष्य न रखता, न वासवी को इतना प्रसन्न ही कर सकता।

छलना के गर्व-श्रूङ्क को धराशायी करने वाला, सापत्न्य-ज्वाला को शान्त करने वाला, वही पुत्र-प्रेम है जो उसके अहं को उभारने वाला, और डाह को उकसाने वाला हुआ। अजात के बन्दी होने पर छलना वासवी की शरण में जाती है और सच्चे अर्थ में माता, पत्नी और नारी बनकर लौटती है।

वासवी भारतीय नारी का आदर्श है। छलना की चारित्य-प्रतिद्वन्द्विता में रखने के लिए ही जैसे 'प्रसाद' ने उसका निर्माण किया है। छलना जहाँ वासवी की कन्या पद्मावती को सन्देहास्पद समझती है, वासवी वहाँ छलना के पुत्र अजात का अपना पुत्र ही मानती है। छलना जहाँ सपत्नी-डाह से प्रेरित व्यंग्यवाणि छोड़ती है, वासवी वहाँ अत्यन्त सौम्यता से उसे कल्याणपथ सुझाती रहती है। छलना ने उसे बन्दीनी बनवा दिया है, वासवी छलना के बन्दी पुत्र को मुक्त कराने भाई के पास दौड़ी जाती है। छलना अधिकार-लिप्ति में जहाँ पति से विमुख होगई है, वासवी वहाँ वैभव का परित्याग कर, पर पति की चरण-सेत्रा

में लीन रहती है। जिस देवदत्त ने मगध और वासवी का इतना अनिष्ट किया उसे भी वासवी बन्धन-मुक्त कराती है। यदि छलना गृह-कलह का मूल है तो वासवी-गृह में स्नेह और शान्ति का स्रोत बहाने वाली सरसी। उसके अनुग्रह से ही पिता-पुत्र, पत्नी-पति फिर से मिलते हैं। छलना का हृदय जितना छुट्र है, वासवी का उतना ही विशाल। वासवी की उज्ज्वल और स्नेहसिक्त आत्मा के दर्शन कराने वाले इस कथो-पकथन को देखिये। क्या ही अच्छा होता यदि 'प्रसाद' इसी प्रकार के कथोपकथन अधिक संख्या में लिख पाते—

छलना—( हँसकर ) श्रेरे सपत्नी का काम तो तुम्ही ने कर दिखाया। पति को तो वश में किया ही था, मेरे पुत्र को भी गोद में ले लिया। मैं...

वासवी—छलना ! तू नहीं जानती मुझे एक बच्चे की आवश्यकता थी, इसलिए तुम्हे नौकर रख लिया था, अब तो तेरा काम नहीं है।

छलना—यहिन इतनी कठोर न हो जाओ।

वासवी—( हँसती हुई ) अच्छा जा, मैंने तुम्हे अपने बच्चे की धात्री बना दिया। देख अब की अपना काम ठीक से करना, नहीं तो फिर...

छलना—अच्छा स्वामिनी !

वासवी—पढ़ा ! जब उसे पुत्र हुआ तब उससे कैसे रहा जाता। वह सीधा श्रावस्ती से महाराज के मन्दिर में गया है। सन्तान उत्पन्न होने पर अब उसे पिता के स्नेह का मोक्ष समझ पड़ा है।

छलना—वेटी पढ़ा ! इसी से कहते हैं कि काठ की सौत भी बुरी होती है।

वासवी—चल, चल, तुम्हे तेरा पति भी दिला दूँ और बच्चा भी। यहाँ बैठकर मुझसे लड़ मत कड़ालिन !

‘स्वगत’ और गान अजातशत्रु मे बिखरे पड़े हैं। जहाँ नाटककार उत्कृष्ट कवि भी हो वहाँ गानों की क्या कमी ? प्रत्येक गीत चाहे वह वासवी के मुख से निकला हो, चाहे गौतम अथवा मार्गधी के, पात्र के आचरण और उसकी मानविक स्थिति का द्योतक है। ‘आप ही आप’ जैसे पुराने नाटकों का स्मृति-चिह्न है, उसी प्रकार कहीं कहीं पात्रों का पद्म में भाव-प्रदर्शन, यह बात थोड़ी खटकती है। कविता मे कहीं वासवी सुखद गृहस्थी का चित्र खींचती है, कहीं गौतम करुणा अथवा अधिरता की व्यापकता दिखाते हैं। इसी प्रकार कहीं उदयन और कहीं मार्गधी आँख मीचकर या खोलकर कविता में बराते हैं। यह सब कुछ गद्य में होता तो चाहे उतना सरस न होता, पर स्वाभाविक होता। मार्गधी के मुख से जितने गान निकले हैं वे सब सरस, भावपूर्ण और संगीत के तत्त्वों को लिए हुए हैं। कई स्थलों पर पात्र मनो-भावों में डूबकर उनका गम्भीर विश्लेषण करते दिखाई पड़ते हैं जिससे चाहे कविता सुन्दर बन पड़ी हो पर गीत का भाव पंक्तियों से उड़ गया है।

कथोपथन इस नाटक में कहीं कहीं आवश्यकता से अधिक लम्बे होगये हैं। भाषायद्यपि कहीं उतरी नहीं है, परन्तु कहीं कहीं जड़ी सी लगती है। प्रसाद की भाषा पर दुरुहता का आरोप न करके अनुपयुक्ता का आक्षेप होना चाहिये। उनकी कहीं भी और कैसी ही पंक्तियों हाँ थोड़ा सोचने से अर्थ निकल ही आता है। दुरुहता एक सापेक्षिक बात है। जो भाषा को दुरुह कहता है वह अपनी अयोग्यता प्रकट करता है। पर नाटक में, जिससे आशा की जाती है कि वह अभिनय के लिये है, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये जिसमें ‘प्रसाद’ गुण न हो। प्रथम अंक के आठवें दृश्य में विरुद्धक मलिलका की कल्पना मलिलका-

पुष्प के रूप में करता हुआ भावना को खींचे चला जाता, चला ही जाता है ! निश्चय ही दर्शक उसकी उस वाणी को सुन कर उसका महं ताकते हुये सोचेंगे, “यह कह क्या रहा है ?” इसी प्रकार पर्तिनियों के बीच में खिंचे खिंचे फिरने वाले उदयन की रूपासकि की वाणी को सुनिये । हृदय जब गदूगदू हो जाता है तब कहीं कल्पना ऐसे जहाजी-पर लगाती है ?

“तो मार्गंधी, कुछ गाओ । अब मुझे अपने मुख-चन्द्र को निनिमेष देखने दो कि मैं एक अतीन्द्रिय जगत् की नक्षत्रमालिनी निशा को प्रकाशित करने वाले शरच्चन्द्र की कल्पना करता हुआ सीमा को लाघ जाऊँ, और तुम्हारा सुरभि-निःश्वास मेरी कल्पना का आलिङ्गन करने लगे ।”

अवकाश निकाल कर नाटककार ने इसमें छोटे-बड़े के प्रश्न और संमाज तथा जीवन में नारी के अधिकार पर भी विचार किया है । पता नहीं नारी-समाज इस कर्म-विभाजन से कहाँ तक सहमत होगा और पुरुष समाज इस स्वभाव-विश्लेषण को कहाँ तक संगत समझेगा पर कारणण के लिए तैयार किये हुए प्रसाद के भाषण में यह लिखा मिलता है —

“निश्व भर में सब कर्म सबके लिये नहीं हैं, इसमें कुछ विभाग हैं अवश्य । सूर्य अपना काम जलता-बलता हुआ करता है और चन्द्रमा उसी आलोक को शीलता से फैलाता है । क्या उन दोनों से परिवर्तन हो सकता है . . . . . तुम्हारे राज्य की सीमा विस्तृत है, और पुरुष-की संकीर्ण । कठोरता का उदाहरण है पुरुष और कोमलता का विश्लेषण है—स्त्री-जाति । पुरुष क्रूरता है तो स्त्री क्रूणा है—जो अन्तर्जगत् का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं । इसलिए प्रकृति ने उसे इतना सुन्दर और मनमोहन आवरण दिया है — ‘रमणी का रूप ।’ ”

हास्य में 'प्रसाद' को सफलता कहीं नहीं मिली । इस नाटक का व्यवहार-कुशल विदूषक वसंतक यद्यपि कोरा विदूषक नहीं है एक पात्र का काम देता है क्योंकि पेट की बात करते करते वह पते की बात भी कहता है, पर उसका हास्य भी पारिभाषिक और श्लिष्ट (जैसे आदर्श) शब्दों की गम्भीरता लिये हुए है ।

नाटक के दृश्यों के बीच में पात्र भटके के साथ 'प्रथान' करते हैं और कथोपकथन के बीच में अकस्मात् प्रवेश । इससे कथानक में एक प्रकार की गति आ गई है ।

एक आलोचक को अजातशत्रु की 'वस्तु-रचना में उद्देश्य हीनता' दिखलाई दी है । अजातशत्रु का उद्देश्य है 'सुखद गृहस्थी की स्थापना ।' मगध, कोशल, कौशाम्बी के राजकुल को घटनायें एक प्रकार से तीन परिवारों की घटनायें हैं । प्रजा जैसी वस्तु इस नाटक से उड़-सी गई है । राजनीतिक घटनायें और पारिवारिक घटनायें एक हो गई हैं । ये तीनों गृहस्थियां छिन्नभिन्न हैं और अन्त में सँभल जाती हैं । विद्रोही विनयी हो जाते हैं और बिछड़े मिल जाते हैं । इस उद्देश्य का पता तो प्रथम हृश्य में ही लग जाता है । फिर सन्देह कैसा ? वासवी कहती है—राज-परिवार में क्या सुख अपेक्षित नहीं है-

बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उनके मन में,

कुल-लक्ष्मी हों मुदित, भरा हो मङ्गल उनके जीवन में ।

बन्धु-वर्ग हों सम्मानित, हों सेवक सुखी, प्रणत अनुचर,

शातिपूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय न हो क्यों घर ॥'

क्षणिक विज्ञान-वादी भगवान् अमिताभ के शीतल प्रभाव की छाया में कहणा और सेवा, क्षमा और अनुग्रह, पवित्रता और विश्वबन्धुत्व की प्रयोगशाला-सा यह नाटक बौद्ध धर्म का पवित्र विजय-घोष है ।

## स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरान्त सन् ४१४ में कुमारगुप्त सिंहासन पर बैठा। वह अपने पिता के समान ही वीर और राज्यकार्य में दक्ष था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया जिससे पता चलता है कि उसके आधिपत्य को अन्य शासक स्वीकार करते थे। कुमार एक प्रतापशाली सम्राट् था। उसके समय के कुछ शिलालेख और ताम्रपत्र मिले हैं जिनसे पता चलता है कि उसने बहुत सी पदवियाँ धारण की थीं जैसे 'महेन्द्रादित्य' 'श्री अश्वमेध महेन्द्र' 'श्री महेन्द्र' आदि। इन्हीं के आधार पर 'प्रसाद' जी ने स्कन्द के मुख से अपने पिता को 'परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेध पराक्रम श्री कुमारगुप्त महेन्द्रादित्य' कहलवाया है। चन्द्रगुप्त ने सौराष्ट्र (काठियावाड़) विजय किया था। कुमारगुप्त के समय में वहाँ राज्य की ओर से शासन करने वाले सम्राट् के अनुज गोविन्दगुप्त का नाम मिलता है। फैजाबाद ज़िले के कारमण्डी (Karmamundi) स्थानके शिलालेख से जो सन् ४३६-३७ का है यह भी पता चलता है कि पृथ्वीसेन कुमारगुप्त का प्रधान मन्त्री था। 'प्रसाद' ने भी पृथ्वीसेन को 'मन्त्री-कुमारामात्य' रखा है। पश्चिमी मालवों के मन्दोसर (Mandosar) स्थान के शिलालेख में जो सन् ४३७-३८ का है वन्धुवर्मन का नाम आया है जिसने कुमारगुप्त की अधीनता स्वीकार की थी। यह जानने पर प्रथम अंक में हूणों के विरुद्ध सहायता मांगते समय मालवदूत का यह वाक्य 'तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था' इस अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुमारगुप्त ने

४० वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया। ४५५ई० में सम्राट की मृत्यु पर स्कन्दगुप्त सिंहासनीन हुआ।

स्कन्दगुप्त के शासनकाल का बहुत कुछ पता दो शिलालेखों से चलता है। गाजीपुर ज़िले के मिटारी (Bhitari) गाँव में जो स्तम्भ है उससे पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में स्कन्दगुप्त ने पुष्यमित्रों और हूणों को पराजित किया था। पुष्यमित्रों के सम्बन्ध में कुछ लोगों का विश्वास है कि ये इरानी थे और हूण तो मध्य एशिया की एक घर्वर जाति थी ही। हूणों के आक्रमण स्कन्द के राज्यकाल में और भी बेग से हुए। उनके आक्रमण से सबसे गहरा धक्का लगता था सौराष्ट्र, मालवा और कभी-कभी अंतर्वेद (गङ्गा यमुना के बीच की भूमि) को भी। जूनागढ़ के शिलालेख से पता चलता है कि स्कन्दगुप्त इन स्थानों की रक्ता के लिए बहुत चिन्तित रहते थे। बहुत सोच विचार के उपरान्त उन्होंने तीन विश्वस्त शासकों को निर्वाचित किया। पश्चिमीय प्रांतों का शासक पणेदत्त नियुक्त हुआ, अंतर्वेद का शर्वनाग विषयपति और कोसाम (kosam) भाग का भीमवर्मन्। स्कन्दगुप्त को अपने अंतिम दिनों में विकट हूणों का फिर सामना करना पड़ा। एक सो पंजाब पर गुप्त सम्राटों का अधिकार नहीं था, दूसरे पुरुगुप्त के कारण जो मगध के सिंहासन के लिए स्कन्द का विरोधी था (४६६-६७ ई० में तोरमान की अध्यक्षता में) हूणों की वन आई। कुमारगुप्त के समय में भी स्कन्द अपने पिता की मृत्यु के समय हूणों से लड़ रहे थे और विजय का सम्बाद उन्होंने अपनी विधवा माता को दिया था। नाटक में भी कुमारगुप्त की मृत्यु के समय स्कन्द को दूर रखा गया है। सन् ४६८में स्कन्द की मृत्यु के उपरान्त पुरुगुप्त जो उसका वैमान भाई था मगध के सिंहासन पर बैठा। कुछ सिक्कों पर 'प्रकाशादित्य'

नाम पाया जाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि सम्भव है यह गुप्तकुल का शासक हो और जैसे पुरुगुप्त ने पूर्व में मगध पर अधिकार कर लिया था, यह साम्राज्य के मध्य भाग का शासक बन चैठा हो। 'प्रसाद' जी ने 'प्रकाशादित्य' पुरुगुप्त की पदबी मानी है। अधिक संगत तथ्य यही प्रतीत होता है। पॉचवे अंक के प्रारम्भ में उन्होंने मुद्रगत से कहलवाया है "समाट् ( पुरुगुरु ) की उपाधि है 'प्रकाशादित्य' परन्तु 'प्रकाश' के स्थान पर अँधेरा है, 'आदित्य' मेरी नहीं ।"

मुहरों (Seals) से अधिकारियों के पद का पता चलता है। मन्त्री 'कुमारमात्य' कहलाते थे। साम्राज्य प्रान्तों में बॉटा हुआ था जिन्हें 'देश' कहते थे। प्रात ज़िलों में विभाजित थे जिन्हें 'प्रदेश' अथवा 'विपय' कहते थे। प्रान्तपति के साथ बहुत से अफसर काम करते थे जिनमें से हमारे काम के महाप्रतिहार ( Chamberlain ) कुमारमात्य अधिकरण ( Chief minister,) तथा महादण्डनायक ( Chief Magisterial Officer ) हैं।

ऐतिहासिक नाटक में पुरुष-पात्र तो बहुत कुछ ऐतिहासिक हो सकते हैं, पर छी-पात्र नहीं। कारण यह है कि जब तक कोई स्त्री महारानी न हो अथवा किसी प्रकार की राजनीतिक हच्छत भाग न ले, तब तक इतिहासकार उसके नाम को जीवित रखने की चिंता नहीं करता। स्त्री पात्रों की कल्पना करनी ही पड़ती है। इस नाटक में कुमारगुप्त, रुक्नदगुप्त, अनन्तदेवी, पुरुगुप्त, गोविन्दगुप्त, वन्धुवर्मा, भीमवर्मा, शर्वनाग, पर्णदत्त, पृथ्वीसेन, चक्रपालित, भटाक, कुमारदास, प्रख्यातकीर्ति, मातृगुप्त ( कालिदास नहीं ) ऐतिहासिक पात्र हैं। देवकी का नाम प्रसाद ने शिलालेख की एक पंक्ति से खींचा है।

‘प्रसाद’ जी ने कई परिवर्तन इस नाटक में किए हैं। पहिला यह कि स्कन्द के स्थान पर पुरुगुप्त को मगध का सम्राट् बनाया है। स्कन्दगुप्त ने कुमारगुप्त के पश्चात् १५ वर्ष (४५५-४६६) तक राज्य किया। इसके उपरान्त पुरुगुप्त सिहासन पर पौच वर्ष तक रहा। उन्होंने अपने प्राणपन से यह भी सिद्ध करने की चेष्टा की है कि स्कन्द ही प्रसिद्ध विक्रमादित्य था और कालिदास जिसे इस नाटक में मालगुप्त नाम से अभिहित किया है स्कन्द के समकालीन थे। ये दोनों बातें ऐतिहासिक खोज के विरुद्ध पड़ती हैं और कम से कम अभी तक विवादास्पद हैं। मालवा का शासक बन्धुवर्मा भी स्वतन्त्र शासक नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से ही मालवा साम्राज्य के अन्तर्गत था। हूण सेनापति का नाम खिल्लि नहीं ‘तोरमाण’ था।

‘स्कन्द’ इस नाटक का नायक ( Hero ) है, इस विषय में दो सम्मतियाँ नहीं हो सकतीं। स्वयं नाटककार ‘प्रसाद’ जी की भी यही धारणा है, यह बात इस संकेत से सिद्ध होती है कि उन्होंने अपने नाटक का नामकरण ‘अजातशत्रु’ और ‘चन्द्रगुप्त’ की भाँति ‘स्कन्दगुप्त’ के नाम के आधार पर किया। फिर भी हमें नाटक के पृष्ठों में प्रवेश करके देखना चाहिए कि क्या स्कन्दगुप्त बास्तव में नाटक का नायक है।

एक अत्यन्त स्थूल प्रमाण जिससे स्कन्दगुप्त को नाटक का नायक कह सकें यह है कि रङ्गमञ्च पर सबसे अधिक प्रभावशाली अधिकार स्कन्द का है। नाटक प्रारम्भ होता है स्कन्दगुप्त के वार्तालाप से और समाप्त होता है देवसेना के साथ उसी की वातचीत से। साथ ही नाटक के मध्य में जितनी घटनायें हैं उनमें स्कन्द के कार्य ही सबसे अधिक विखरे पड़े हैं।

मगध के सम्राट् महाराज कुमारगुप्त की दो रानियाँ थीं—एक देवकी दूसरी अनन्त देवी। स्कन्दगुप्त देवकी का पुत्र था और अनन्तदेवी का पुत्र था पुरुगुप्त। अनन्तदेवी छोटी रानी होने पर और यह जानते हुए भी कि उसका पुत्र सिंहासन का अनधिकारी था, पुरुगुप्त के लिए राज्य चाहती है। अतः इस नाटक में दो विरोधी दल हैं—एक अनन्तदेवी पुरुगुप्त का—विजया, भटार्क, प्रपञ्चबुद्धि इनके सहायक हैं; दूसरा स्कन्द का—देवसेना, पर्णदत्त, धातुसेन आदि इनके साथी हैं। स्कन्द का पक्ष सत् का है, अनन्तदेवी का असत् का; स्कन्द विजयी होता है, अनन्तदेवी पराजित। इस दृष्टि से भी स्कन्द नाटक का नायक है।

पर इस नाटक का प्रधान कार्य सिंहासन-प्राप्ति नहीं है। स्कन्दगुप्त राज्य की ओर से उदासीन है, उसे राज्य नहीं चाहिये। उसने स्वर्यं कहा है, “मेरा अकेला जीवन है, मैं भगड़ा करना नहीं चाहता।” नाटक का उद्देश्य अत्यन्त व्यापक और महान् है। वह है आर्य-साम्राज्य का उद्धार। इस आर्य-साम्राज्य का उद्धारकर्ता नाटक में स्कन्दगुप्त है और यही वह कार्य है जिससे हम उसे नायक कह सकते हैं। यह आर्य-साम्राज्य भीतरी घड़ीयन्त्रों के कारण डाँवाडोल स्थिति में था, और बाहरी भंझटों विशेषकर हूणों के आक्रमणों के कारण संकट में पड़ गया था। इसका उद्धार क्या अनन्तदेवी, पुरुगुप्त तथा उनके साथियों ने किया? नहीं। वे तो हूणों से मिले हुए थे, राष्ट्र का नाश करना चाहते थे, देश में दासता लाने वाले थे। इस सम्बन्ध में एक और पात्र है जिसका नाम आदर से लेना चाहिये, वह है बन्धुवर्मा। बन्धुवर्मा का त्याग इस द्वेष में महान् तो था, पर वह स्कन्द का सहायक मात्र था। आर्य राष्ट्र के उद्धार की बात जहाँ आती है वहाँ सभी की दृष्टि स्कन्द पर जाती है। ‘आशा का

ध्रुव-नक्षत्र' एकमात्र स्कन्द ही था । उसने आन्तरिक पड्यंत्रों की शान्त किया, आक्रमणकारियों से देश को मुक्त किया और अपनी महान् उदारता से प्राप्त सिहोसन को अपने विरोधी और वैमात्र भाई पुरुगुप्त को छोड़ दिया । अतः हिन्दू राज्य का उद्धारकर्ता, आये राष्ट्र का संस्थापक स्कन्द ही वास्तव में नाटक का नायक है ।

अपनी स्थिति और कर्मों के प्रति असन्तोष तथा विरोध-विनृष्णा ही स्कन्द की जीवन व्यापिनी मानसिक स्थिति है । राजा के घर में उसका जन्म हो गया है, पर वह राजा नहीं होना चाहता । उसे युद्ध करने पड़ते हैं पर रक्त बहाना उसे प्रिय नहीं है । विजया को प्रेम करता है वह दूसरे की हो जाती है । देवसेना को वह अपनाना चाहता है वह उसका तिरस्कार कर देती है । नियति के हाथ का वह इस प्रकार एक खिलौना रहा है । राजा न होकर यदि वह एक सामान्य व्यक्ति होता तो अधिक सुखी रहता । वैसे स्कन्द बीर है । आक्रमण करता है तो प्रबल पराक्रम सं । रणक्षेत्र में उसका खड़ा होना और विजय का खड़ा होना एक बात है । साम्राज्य पर सङ्कट होते हुए निमन्त्रण पाकर वह इसी से मालव की रक्षा के लिए उद्यत होता है । पर सङ्घर्ष जैसे उसका वास्तविक अर्थवा इच्छित स्वरूप नहीं है । चक्रपालित से वह कहता है, "वसन्त के मनोदर प्रभात में, निमृत कगारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गरम रक्त बहाकर लाल कर दिया जाय । नहीं, नहीं, चक ! मेरी समझ में मानव-जीवन का यही उद्देश्य नहीं है ।"

वास्तविक स्कन्दगुप्त है प्रेम में, त्याग में, क्षमा में, कृतज्ञता में । कृतज्ञ इतना है कि देवसेना के प्राण बचाने के उपलक्ष में

मातृगुप्त को काश्मीर का शासक बना देता है। ज्ञानशील इतना है कि शर्वनाग, अनन्तदेवी और भटार्क जैसे व्यक्तिगत शत्रुओं का तो कहना क्या देश के नृशंस शत्रुहूण सेनापति खिङ्गिल तक को जीवन दान देता है। त्यागी इतना है कि जिस साम्राज्य को अत्यन्त परिश्रम से हस्तगत किया उसे अपने विरोधी भाई के लिए छोड़ देता है। और प्रेमी ? प्रेम ही जैसे उसके प्राणों का स्वर है। मालव-युद्ध में विजया पर दुर्भाग्य से उसकी हाँड़ पढ़ जाती है। उसी समय से वह उसके हृदय को जकड़ कर बैठ जाती है। हूणों पर विजय विजया के प्रति प्रशाजय के सामने उसे फीकी लगती है। सोचता है—“विजय का व्याणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा ? कभी नहीं।” जैसे जैसे दिन ढलते हैं वैसे विजया स्कन्द के अस्तित्व को जड़ीभूत करती जाती है। जीवन के समस्त अभावों में उसकी मूर्ति ही जैसे रस भर रही है, “कोई भी मेरे अन्तकरण का आलिंगन करके न रो सकता है और न तो हँस सकता है। तब भी विजया…… ? ओह !” यही विजया जब अपने मुख से भटार्क को वरण करने की बात कहती है तब स्कन्द का हृदय जैसे दुकड़े दुकड़े हो जाता है। कहता है ‘परन्तु विजया तुमने यह क्या किया ?’

विजया से निराश हो देवसेना के श्नेह को देख स्कन्द देवसेना को आत्म-समर्पण करना चाहता है, पर वह आग्रात पूजा-पुष्प में ठोकर मार देती है। परिणाम यह होता है कि यह दार्शनिक सम्बाट यद्यपि अपने अतुल पराक्रम से साम्राज्य में शांति और देश में कल्याण का मन्त्र फूँकता है, पर हृदय में घोर अशांति और जीवन में विकट निराशा लेकर रङ्ग-मंच से हट जाता है।

स्कन्दगुप्त नाटक में तीन प्रकार के पात्र पाये जाते हैं—पहिले वे जो अन्त तक दुष्ट रहते हैं जैसे अनन्तदेवी, प्रपञ्चबुद्धि, दूसरे वे जो अंत तक अच्छे रहते हैं जैसे देवकी, स्कन्दगुप्त, बन्धुवर्मा, देवसेना, रामा आदि और तीसरे वे जिनकी मनोवृत्तियों में सहसा परिवर्तन उपस्थित होता है जैसे भटाक विजया आदि। स्कन्दगुप्त और बन्धुवर्मा दोनों ही सत् पात्रों में से हैं, अतः यह कहना मरल नहीं है कि दोनों में कौन उज्जवल है ? दोनों ही उज्जवल हैं, हीरे हैं। पर यदि दो अच्छी वस्तुओं में से एक की ओर अङ्गलि निर्देश करना पड़े, तब हम बन्धुवर्मा के पक्ष में होंगे। स्कन्दगुप्त यद्यपि नाटक का नायक है, पर हृदय पर जो छाप बन्धुवर्मा छोड़ता है, वह अमिट रहती है। बन्धुवर्मा का चित्र एक सच्चे क्षत्रिय का चित्र है—वीर, त्यागी, राष्ट्रप्रेमी का चित्र। बन्धुवर्मा का सबसे पहिले परिचय हमें उस समय मिलता है जब सहायता के लिए वह युवराज स्कन्द की प्रतीक्षा करता है। विजयी होकर हम उसे सद्गुणों पर मुग्ध होते देखते हैं “मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अबसे इस वीर (स्कन्द) परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अपिंत है।” उसके हृदय की इस उज्जवल भलक का प्रकाश जीवन के अन्त तक देखा जाता है। अवन्ती दुर्ग के उस दृश्य को देखिए जिसमें बन्धुवर्मा मालव राज्य को ‘आर्य-साम्राज्य’ की प्रतिष्ठा के लिए स्कन्दगुप्त को देना चाहता है और उसको पत्नी उसका घोर विरोध करती है। बिना मार्गे निःस्वार्थ त्याग का ऐसा उदाहरण क्या कहीं अन्यन्त सम्भव है ? जय-माला पैतृक राज्य के स्वत्व, उसे त्यागने से पराधीनता के अशोभन जीवन, व्यक्तित्व की रक्षा आदि के अकाल्य तर्क उपस्थित करती है, पर बन्धुवर्मा निश्चल रहता है। और उसके जीवन का अन्त ? वह कितना खृहरणीय है ! बन्धुवर्मा जानता है कि वह बच नहीं सकता, पर गान्धार की घाटी से स्कन्द को दूर कर देता है और स्वयं प्राण देता है।

तब क्या स्कन्दगुप्त वीर नहीं है ? है अवश्य । उसका नाम जयधोष का चिह्न है । वह मालव में विजय प्राप्त करता है, हूर्णों को भगाता है द्वन्द्वयुद्ध में सिङ्गिल को वायल करता है । क्या वह त्याग करना नहीं जानता ? उसने बराबर कहा है और सिद्ध किया है कि वह राज्य का भूखा नहीं है । क्या वह राष्ट्रप्रेमी नहीं है ? कई स्थलों पर उसने आर्य-राष्ट्र के उद्धार की बात उटाई है । गोविन्दगुप्त से उसने कहा था, ‘आर्य-राष्ट्र की रक्षा में सर्वस्व अपेण कर सकूँ आप लोग इसके लिए भगवान् से प्रार्थना कीजिये ।’ तब ?

दोनों वीर ज्ञात्रियों में अन्तर यह है कि बन्धुवर्मा में ज्ञात्रियत्व प्रमुख है, स्कन्द में ‘दार्शनिक वृत्ति’ एवं ‘प्रेम’ । बन्धु-वर्मा में स्फूर्ति स्वाभाविक है, स्कन्द के वीरभाव को उकसाने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ती है । कभी चक्रपालित को कहना पड़ता है, “यह तुच्छ प्राणों का मोह है”, कभी कमला को कहना पड़ता है, “स्वानुभूति को जाग्रन करो ।” स्कन्द यदि राजा न होता तो दार्शनिक होता । बन्धुवर्मा से वह कम कर्मण्य है । वह स्वयं कहता है “गुप्त सम्राट् के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रिया-कलाप में संलग्न कर रखा है ।” दूसरी बात जहाँ वह बन्धुवर्मा से हार खाता है, वह है ‘प्रेम-भावना’ । प्रेम जीवन का प्रमुख अङ्ग होते हुए भी सब कुछ नहीं है । देवसेना ने भी उसे इस बात से सचेत किया है । एक एक उदाहरण देखिये—

स्कन्द-देवसेना, एकान्त में, किसी कानन के कोने में, तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत करूँगा । साम्राज्य की इच्छा नहीं, एक बार कहदो !

पर धन्धुवर्मा जयमाला के प्रस्तावों से खीभकर कहता है—

“तब मैं इस कुदुम्ब की कमनीय कल्पना को दूर ही से नमस्कार करता और आजीवन अविवाहित रहता...” अकर्मण्यता और शरीर पोषण के लिए क्षत्रियों ने लोहे को अपना आभूषण नहीं बनाया है।”

भटाक महत्वाकांक्षा की प्रतिमूर्ति है। इस वृत्ति की प्रेरणा के कशाधात से ही उसके समस्त कार्यों का सञ्चालन होता है। कुमारगुप्त की सभा में सबसे पहिले वह इस मनोभाव का परिचय देता है। मन्त्री पृथग्नीसेन युवराज स्कन्द को सौराष्ट्र भेजने के लिए सन्धार्द से अनुरोध करता है, तब भटाक वहाँ जाने के लिए एक रणदक्ष सेनापति को आवश्यकता चत्ताता है। अनन्तदेवी के सामने तो उसने खुलकर स्वीकार किया है, “चाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचण्ड पराक्रमों से ही मुझ मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है, मैं उस सम्मान की रक्षा करूँगा,” प्रपञ्चबुद्धि और सर्वनाग के सामने भी वह इसी बात को दुहराता है, मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा—लूँगा।” जो व्यक्ति ‘जैसे मिलेगा लूँगा’ पर ल्तर आता है वह फिर क्या नहीं कर सकता। नाटक में तुरन्त अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चार महत्वाकांक्षी एकत्र हो जाते हैं। भटाक महाबलाधिकृत बना रहना चाहता है, अनन्तदेवी राजमाता बनना चाहती है, प्रपञ्चबुद्धि बौद्ध-धर्म का उद्घार करना चाहता है और विजया ‘गुप्त-साम्राज्य के महाबलाधिकृत’ (भटाक) को चरण करना चाहती है। अनन्तदेवी और प्रपञ्चबुद्धि से मिलकर भटाक महराज के निधन में सहायक होता है, और देवकी को भी

संसार से विदा करना चाहता है। स्कन्द का जब अभियेक होने वाला है तब उज्जयिनी में षड्यन्त्र रचने आता है पर पकड़ा जाता है। अपराध स्वीकार करने पर स्कन्द उसे क्षमा कर देता

समय आशा होती है कि भटाक अब दुष्कर्मों से विरत हो जायगा। पर स्कन्द के साथ हूणों के युद्ध में मगध की सेना का संचालन करते समय वह कुभा (कावुल) नदी का बंध तोड़ देता है। स्पष्ट ही यहां उसने विश्वासघात किया है। भटाक वीर था, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कर सकता। केवल उसके मुख से ही हम नहीं सुनते कि उसका खड़ग आग बरसाता है, रणनाद शत्रु के कलेजे कँपाता है और उसका लोहा भारत के क्षत्रिय मानते हैं; बरन् स्कन्द जैसा वीर भी उसके पतन पर उसे लज्जित करते हुए इतना स्वीकार करता है—“तुम्हारे खड़ग पर साम्राज्य को भरोसा था।” सम्राट कुमारगुप्त ने भटाक के स्वभाव को पहचान कर यदि कहीं सेनापति बना दिया होता तो भटाक का आचरण भिन्न प्रकार का होता। भटाक को जो हमने विश्वासघाती कहा है वह स्कन्द (देश) के पक्ष की दृष्टि से। अनन्तदेवी के साथ उसने कभी विश्वासघात नहीं किया। स्कन्द जब उसे अपराधी ठहराता है तब वह अपने कर्म के औचित्य की रक्षा करता हुआ कहता है, “मैं केवल राजमाता की आज्ञा का पालन करता था।” कुभा के रण-क्षेत्र में जब स्कन्द उसे फिर ‘कृतघ्न’ कहता है तब भी वह यही उत्तर देता है, “मेरा खड़ग साम्राज्य की सेवा करेगा।” उसकी माँ उसे धिक्कारती है तब भी यह प्रण नहीं करता कि वह स्कन्द का साथ देगा केवल यही कहता है, “मैं इस सङ्घर्ष से अलग हूँ।” सद्बुद्धि भटाक से एकदम विलुप्त नहीं हो गई, पर वह महत्वाकांक्षी की अन्धवृत्ति के सामने उभर नहीं पाती। पृथ्वीसेन की आत्महत्या पर उसे शोक हुआ था। वीर होकर वीरों

का मूल्य वह न जानता तो आश्चर्य ही होता । अन्त में अपनी भूल को वह सुधारता है और देश-सेवी बन जाता है । भटार्क ने एक बार प्रपञ्चबुद्धि से कहा था, “मैं इतना नीच हूँ ।” उस समय प्रपञ्चबुद्धि ने उसे टोका था, “परन्तु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूँ, तुम इतने उच्च भी नहीं हो ।” इन दोनों वार्त्यों में एक प्रकार से भटार्क का चरित्र खिंच आया है । बहुत दिनों तक उस पर प्रपञ्च की धारणा ही लागू होती है । जीवन के अन्त में उसने इस धारणा को बदल दिया और अपनी इस वाणी को ही प्रमाणित किया-

“मैं इतना नीच नहीं हूँ ।”

महाराज कुमारगुप्त की छोटी रानी अनन्तदेवी इस नाटक का विष है । अपने पति और पुत्र दोनों के पतन का मुख्य कारण वही है । घर में फूट डालने वाली और सामाज्य की शक्ति को क्षीण करने वाली वही है । जिस प्रकार अपनी शक्ति की बृद्धि के लिए वह विलासी सम्राट् को नृत्य, गान और मदिरा में लीन रखती है उसी प्रकार अपने पुत्र को भी उसने विलासी और मदिरा-सेवी बना दिया है । उनी के रूप में न वह अच्छी पत्नी है और न भली माता । एक दम निर्भीक है वह । जिस प्रपञ्चबुद्धि को देखकर भटार्क जैसे वीर का सिर घूमने लगता है, उससे वह हँस-हँस कर बातें करती है । षड्यन्त्र-कारियों की वह मुखिया है, और हृदय से अत्यन्त क्रूर है । महाराज को मदिरा से मत्त करके घोर रात में भटार्क और बौद्ध कापालिक से मिलती है । अपने पति की हत्या करवाती है, सौतियां डाह के कारण देवकी के वध का प्रयत्न करती है, तथा हूणों से मिलकर स्कन्दगुप्त के

साम्राज्य के विनाश की चिन्ता में रत रहती है। अनन्तदेवी छल की पुतली है। भटाक की महत्वाकांक्षा से लाभ उठाकर और उससे थोड़ा मुस्कराकर काम लेती रहती है। प्रपञ्चबुद्धि को यह प्रलोभन है कि पुरुगुप्त यदि शासक हो गया तो अनन्तदेवी बौद्ध धर्म का समर्थन करेगी। हूणों की सहायता करने में भी उसका मुख्य उद्देश्य पुरुगुप्त को सज्जाट बनाना ही है, पर वे भी छल में आकर स्कन्दगुप्त को चैन नहीं लेने देते। उसकी नस नस में छल भरा है। भटाक मिलकर जाने को कहता है तो कुटिल स्नेह-दृष्टि से देखती हुई उससे कहती है, 'भटाक जाने को कहूँ? इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना—आह!' और तुरन्त रोने लगती है। एक बार विजया भड़कती है तो उसे प्रलोभन देती है, "क्या तुम पुरुगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हो?" आत्म-सम्मान की भावना उसमें बिलकुल नहीं है। बन्दी होकर जब वह स्कन्द के सामने आती है तब निस्संकोच भाव से कमा माँग लेती है। स्कन्द ने उसे 'कैकेयी' कहा था। कैकेयी भी अपने रूप यौवन की शक्ति से महाराज की इसी प्रकार मुँहलगी होगई थी। भाई से भाई को उसने भी इसी प्रकार पृथक किया और पति के प्राण लिए। पर दुष्टता में अनन्तदेवी कैकेयी से भी इककीस थो। उसके नाम के पीछे 'देवी' शब्द व्यर्थ जोड़ा गया है। हाँ उसमें छल अनन्त है, क्रूरता अनन्त है, निर्भीकता अनन्त है और निर्लंजिता अनन्त है।

विजया मालव के धनकुवेर की सुन्दरी कन्या है। हृदय से दुष्टा है। उसके विषय में तुलसी के शब्दों में यही कहना उचित है 'विषस भरा कनकघट जैसे।' देवसेना की वह सखी है, पर

जब से स्कन्द के दर्शन दोनों को होते हैं तब से विजया सरल देवसेना की प्रबल प्रतिद्वन्द्विनी के रूप में हमारे सामने आती है।

विजया के हृदय का सबसे प्रबल भाव है—वैभव को प्रेम करना। उसे पहिले स्कन्द के प्रति आकर्षण होता है। उस आकर्षण में वीरता और सुन्दरता ने काम किया है यह सत्य है—‘कैसी भयानक और सुन्दर मूर्ति है’ पर वैभव का ज्ञान उसमें प्रसुख है। देवसेना से वह स्वोकार करती है, ‘एक युवराज ( स्कन्द ) के सामने मन ढीला हुआ परन्तु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ।’ स्कन्द की ओर से निराश होकर जब वह भटार्क की ओर मुड़ती है तब उस आकर्षण की स्वीकृति में भी वीरता, सुन्दरता और विशेष रूप से वैभव-प्रेम तीनों मिले हुए हैं—कैसी वीरत्व व्यंजक मनोहर मूर्ति है ! और गुप्त-साम्राज्य का महाबलाधिकृत !

विजया स्पृधी और ईर्ष्या के भावों से भरी हुई है। देवसेना यद्यपि अत्यन्त सरल हृदय की थी, फिर भी उसका जीवन भर विरोध विजया ने अकारण इसलिए किया कि उसे यह सन्देह हो गया था कि बन्धुवर्मा के मालव देने से देवसेना का विवाह स्कन्द से होगा। उसमें प्रतिहिंसा—भावना प्रबल है जिसे उसने कई स्थलों पर स्वयं स्वोकार किया है। इस प्रतिहिंसा-भावना से प्रेरित होकर विजया स्कन्द और देवसेना का पक्ष छोड़ अनन्तदेवी की ओर मुड़ती है और क्रूर से क्रूर कर्म करने को तत्पर हो जाती है। यह विजया ही है जो देवसेना को धोखा देकर रमशान भूमि तक ले जाती है और प्रपञ्चबुद्धि से उसकी हत्या कराना चाहती है।

जीवन के प्रति विजया का अत्यन्त हल्का दृष्टिकोण है। उसकी प्रेम-भावना में कोई सार नहीं। कभी वह स्कन्द को प्रेम करती है, कभी भटार्क को और कभी अनन्तदेवी की आङ्गा से पुरुगुप्त का मन बहलाती है। उसके प्रेम मे वासना प्रधान है। स्कन्द को तो लोभ दिखाकर भी मोल लेना चाहती है। स्कन्द ने उसे ठीक ही फटकारा है। शरीर के सुख को वह सब कुछ समझती है। उसके भावों का परिचय वहाँ मिल सकता है जहाँ वह स्कन्द से कहती है:-

“कोई दुःख भोगने के लिये है, कोई सुख। फिर सबका बोझ अपने सिर पर लादकर क्यों व्यस्त होते हो……आओ! हमारे साथ वचे हुए जीवन का आनन्द लो।”

विजया के जीवन में परिवर्तन उपस्थित होता है, पर वह सच्चा परिवर्तन नहीं है। भटार्क से वंचित होने पर वह अनन्त-देवी को धमकाती है और उससे तिरस्कृत होने पर उसका साथ छोड़ देती है। थोड़ी देर के लिए अपने कृत्यों पर पश्चात्ताप भी प्रकट करती है और मातृगुप्त को उद्वोधन के गीत गाने का उपदेश भी देतो है। पर उसका पश्चात्ताप सच्चा नहीं था। जीवन के सुख भोगने की लालसा उसके हृदय में बराबर बनी रही। स्कन्दगुप्त के सामने भटार्क उसे ‘दुश्चरित्रा’ कहता है। इसमें अधिक कोई क्या कह सकता है? अपमानित होकर वह आत्मघात करती है और उसकी अन्तिम क्रिया भी सम्मानपूर्वक नहीं होती जिस पर किसी को कोई पश्चात्ताप नहीं होता। इस प्रकार विजया नारी-जीवन के निकृष्ट पक्ष को प्रत्यक्ष करती है।

देवसेना मालवपति बन्धुवर्मा की वहन है। बाहर और भीतर दोनों ओर से सुन्दर है। यदि विजया नारी-जीवन का तम है तो देवसेना उज्ज्वलता।

देवसेना जिस बात से सभी का ध्यान आकर्षित करती है वह है उसका संगीत प्रेम। युद्धकाल में भी वह गाती है। इस सम्बन्ध में उसे ताने भी सुनने पड़ते हैं। विजया कहती है “राजकुमारी! गाने का भी रोग होता है क्या?” इसी प्रकार बन्धुवर्मा कहता है “देवसेना! तुझे गाने का भी विचित्र रोग है।” देवसेना चट से उत्तर देती है, “रोग तो एक न एक सभी को लगा रहता है, पर यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं।” स्कन्दगुप्त नाटक के कई कोमल-सरस-गीत देवसेना के मुख से ही निकलते हैं। उसका यह संगीत प्रेम यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि वह बात करते समय भी प्रायः संगीत और नृत्य के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करती है जैसे सम, लय, स्वर, ताल, तान, आदि। गाने का देवसेना का स्वभाव तो है ही, पर कभी कभी वह दुःख को दबाने के लिए भी गाती है --

“जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है, तभी सभी की वीणा मिला लेती हूँ। उसी में सब छिप जाता है।”

देवसेना आदर्श प्रेमिका है। उसके प्रेम का जीवन एक घ्रकार से अत्यन्त निराशापूर्ण रहा है। देवसेना स्कन्द को प्रेम करती है और स्कन्दगुप्त विजया को। जिस दिन देवसेना को विजया के प्रेम का पता चलता है उसी दिन उसके कठोर कर्त्तव्य का निर्णय होता है। वह स्कन्द को न छोड़ सकती है और न

ग्रहण कर सकती है। विजया देवसेना का विरोध करती है, उसकी हत्या करना चाहती है पर देवसेना विजया के मार्ग को स्वच्छ करती है। यह बात उसने विजया और प्रपञ्चबुद्धि दोनों से स्वीकार की है। पर जिस दिन उसे यह पता चलता है कि स्कन्द भी विजया को प्रेम करता है, उस दिन से उसके दुख का वारापार नहीं रहता। शैक्षणियर के वे शब्द हमें अनायास याद आते हैं—

She dreams on him that has forgot her love,  
you dote on her that cares not for your love,  
'Tis pity love should be so Contrary,  
And thinking on it makes me cry, Alas !

देवसेना के चरित्र में आकर्षण आया है हृदय में उसके अन्तद्वन्द्व के कारण। जिसे प्रेम करती है उसी से वह उदासीन है। जिसके लिये उसका हृदय पुकार मचाता है जब वह प्रेम का भिखारी बनकर आता है तब द्वार से लौटा देती है। कैसी विलक्षण वालिका है वह ! देवसेना प्रेम के लिये प्रेम करती है, स्वार्थ के लिये और सुखके लिये नहीं। प्रेम में यह अभिमान कि वह प्रतिदान नहीं चाहती उसे ही शोभा देता है। हम चकित हो जाते हैं जब देवसेना के विराग-गिरि से अनुराग का यह फरना फूटता है—

"इस हृदय में .. .. .. आह ! कहना ही पड़ा, स्कन्दगुप्त को छोड़ कर न तो कोई आया और न वह जायगा ।"

प्रेमादर्श के अतिरिक्त देवसेना के चरित्र पर साज चढ़ाने वाले और कई गुण हैं; जहाँ विजया डापोक है वहाँ देवसेना में

साहस है; जहाँ विजया स्वार्थमयी है वहां देवसेना में त्याग है। पर सबसे उच्चतम् भाव है उसमें देश-प्रेम और देश-सेवा का। जब बन्धुवर्मा मालव का राज्य स्कन्दगुप्त को देना चाहते हैं तब देवसेना भी 'समष्टि के लिए व्यष्टि के बलिदान' की बात लेकर भाई का समर्थन करती है। यही देवसेना अन्त में बृद्ध पर्णदत्त के साथ देशवासियों की सेवा के लिए गाकर भीख मांगती फिरती है। उसका निराश जीवन उसके इन शब्दों में कैसा स्वच्छ उत्तरा है!

"सङ्गीत-सभा की अन्तिम लहरदार और आश्रयहीन तान, धूपदान की एक कीण गन्धधूम रेखा, कुचले हुए फूलों का म्लान सौरभ और उत्सव के पीछे का अवसाद, इन सबों की प्रतिकृति मेरा छुट्र नारी जीवन।"

इच्छा होती है कि देवसेना थोड़ा झुक जाती।

देवकी मगध-सम्राट् कुमारगुप्त की बड़ी रानी है। स्कन्द की माता हाने का उन्हे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त अपनी छोटी रानी अनन्तदेवी के वश में थे अतः पति की ओर से हम उन्हे उपेक्षिता-सी पाते हैं। देवकी आदर्श हिन्दू-गृहणी का प्रतीक है क्योंकि ऐसा देखते हुए भी पति की कल्याण-कामना से उनका हृदय परिपूर्ण है, और उस ओर से वे मन में मैल तक नहीं लातीं।

पति-प्रेम के अतिरिक्त ईश्वर में अगाध विश्वास उनकी विशेषता है। उन्हे कारागार में डाल दिया जाता है, रामा उनकी हत्या करने का समाचार उन तक पहुँचाती है, पर देवकी अडिग हैं। यही कहती हैं, "भगवान् की स्तिथि करुणा का शीतल ध्यान कर।"

उनमें पुत्र-प्रेम भी बहुत प्रबल है। उनके हृदय की सारी ममता स्कन्द के चारों ओर सिमट कर रह गई है। वन्दीगृह में भटार्क जब उनसे भगवान् का अन्तिम स्मरण करने की बात कहता है तब माता का हृदय रो उठता है, 'मेरे अन्तर की कहणा-कामना एक थी कि स्कन्द को देख लूँ।' देवकी के प्राण भी पुत्र-प्रेम में निकलते हैं। कमला के सामने जब भटार्क कुभा की लहरों में स्कन्द के विलीन होने की बात कहता है तब देवकी के मुख से निकलता है, 'मेरा स्कन्द, मेरा प्राण' और वहीं उनको जीवन-लीला समाप्त हो जाती है।

पति-प्रेम, ईश्वर-भक्ति एव पुत्र-प्रेम के अतिरिक्त देवकी सद्गुणों की प्रेमिका हैं। मालव के सिंहासन पर बैठते समय स्कन्द से जो उन्होंने क्षमा-दान दिलाया है वह तो नारी के उर की कोमलता का परिचायक है ही, पर वहीं गोविन्दगुप्त के प्रति उनके ये वाक्य ध्यान देने योग्य हैं—

"महाराज पुत्र! इसे आशीर्वाद दीजिए कि गुप्तकुल के गुरुजनों के प्रति यह सदैव विनयशील रहे।"

कमला गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत भटार्क की माता है। उसका यह दुर्भाग्य है कि उस जैसे रमणी-रत्न से भटार्क जैसा नीच पुत्र उत्पन्न हुआ। वह उत्तम गुणों की उपासिका है। पुत्र के प्रति जो दुर्बलता माता के हृदय में सामान्यतः पाई जाती है कि पुत्र चाहे कैसा ही कुपुत्र हो माता उसे नहीं त्याग सकती, वह बात कमला में नहीं है। यह देखकर कि भटार्क साम्राज्य के कुचक्रियों में से एक है और साथ ही कृतधन एवं देशद्रोही भी, कमला उसके ऐश्वर्य को छोड़कर उज्जयिनी के शिव-मन्दिर

में भिज्ञा-वृत्ति से जीवनयापन करने आती है और स्वयं उसे बन्दी बनवाना चाहती है। वह आसुरी वृत्तियों की प्रबल विरोधिनी है। भटार्क के अशुभ आचरणों को देखकर उसे अपना पुत्र स्वीकार करने तक मैं उसे लज्जा आती है। वह स्पष्ट कहती है—

‘भटार्क ! तेरी मा को एक ही आशा थी कि पुत्र देश का सेवक होगा, म्लेच्छों से पददलित भारत-भूमि का उदार करके मेरा कलङ्ग धो डालेगा, मेरा सिर ऊँचा होगा । परन्तु हाय !’

भटार्क को वह अभागा, देशद्रोही, नीच, कृनधन, घिनौना, नरक का कीड़ा, मूर्ख, पिशाच, पामर और न जाने क्या क्या कहती है। एक दुष्ट के प्रति तिरस्कार के ये शब्द एक उच्चहृदया माता के मुँह से बड़े सुन्दर लगते हैं।

आर्य-पताका का उसे गर्व है और देश-सेवा के लिए प्रोत्साहित करने के लिये वह सदैव तत्पर रहती है। स्कन्द जब अपने को अकेला और निस्सहाय पाता है तब कमला ही कुटी खोलकर उसे प्रोत्साहन देती है। उसके हृदय का निर्माण देश-प्रेम, कृतज्ञता आदि सद्वृत्तियों से हुआ है। उसके विषय में गोविन्दगुप्त का यह कहना उचित ही है—“धन्य हो देवी ! तुम जैसी जननियां जब तक उत्पन्न होंगी, तब तक आर्य-राष्ट्र का विनाश असम्भव है ।”

गौण-पात्रों में कुमारगुप्त प्रतापी होते हुए भी एक स्त्रैण और विलासी राजा था। शासक के रूप में यद्यपि इतिहास पुरुगुप्त की प्रशंसा ही करता है परन्तु प्रसाद ने उसे पहिले से महत्वा काढ़ी, हत्यारा, दुर्बल और मदिरासेवी रखा है। नाटक में

उसके आचरण के निर्माण का उत्तरदायित्व उसकी माँ पर है स्कन्द ने इसी से अनन्तदेवी से कहा था, “कुमारगुप्त के इस अग्नितेज को तुमने कुत्सित कर्मों की राख से ढक दिया ।” मातृगुप्त जैसा उसके लिये स्वाभाविक है कोरा भावना-प्रधान व्यक्ति है। ‘भूखे हृदय के आहार’ की चिन्ता में ही उसका व्यक्तित्व सलग्न है। यह पता लगने पर कि उसकी प्रणयिनी मालिनी वेश्या हो गई है वह विरक्त होकर काश्मीर के सिंहासन का परित्याग कर देता है। कवियों से इससे अधिक क्या आशा की जासकती है ? शर्वनाग प्रारम्भ में कुछ मूर्ख-सा और अपनी स्त्री से भयभीत प्रतीत होता है। कुसंग के प्रभाव में उसका काफी अधिपतन हुआ है पर पाप की कीच से वह अन्त में मुक्त हो गया है। उसकी पत्नी रामा ज्बान की तेज़ पर हृदय से भली है। एक आलोचक ने एक पत्रिका में उसके आचरण पर यह आपत्ति की थी कि स्कन्द ने जो उसे ‘साध्वी रामा’ कहा है वह कहाँ तक ठीक है ? पहिला उत्तार तो यह है कि स्कन्द के सामने रामा का सबल स्वरूप है। वह यह नहीं जानता कि वह अपने पति से एकांत में ‘गोवर गणेश’ ‘अपदार्थ’ और ‘दुर्बल मद्यप’ जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भी वह चाहे अशिष्ट सिद्ध हो सके, पर भला ‘असाध्वी’ कैसे हो गई ? शर्व की मूर्खता और उसके पतन को देखते हुए हमें तो ये शब्द बिल्कुल अनुपयुक्त नहीं प्रतीत होते। ‘कैसे हु पति कर किए अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना’ के एकात आदर्श की रट जो व्यक्ति लगाते हैं उनकी दूसरी बात है। आलोचक महोदय ने शायद इस कथोपकथन की गहराई पर ध्यान नहीं दिया—

शर्व-मैं तेरा स्वामी हूँ रामा ।

रामा — ओह ! वही धर्म-बुद्धि जगी है विशाच को, और यह महादेवी तेरी कौन है ?

शर्व — फिर भी मैं तेरा……

रामा — स्वामी ! नहीं नहीं, तू मेरे स्वामी की नरक-निवासिनी प्रेतात्मा है। तेरी हत्या कैसी तू तो कभी का मर चुका है।

ध्यान रखना चाहिये कि शरीर किसी का प्रिय नहीं होता, आचरण ही प्रिय होता है। शर्वनाग पति के रूप में रामा के सामने नहीं आता, एक लोभी, कृतघ्न, मदिरासेवी और हत्यारे के रूप में आता है।

नाटक का काम कई पात्रों के बिना चल सकता था जैसे गोविन्दगुप्त, मातृगुप्त, धातुसेन आदि। पर मुद्रगल के लिये थोड़ा सा स्थान है। उस जैसे पात्र का अस्तित्व नाटक में वैसा ही है जैसे भोजन के साथ चटनी का। केवल हास्य के विधान के लिए भी उसका रहना अनुपयुक्त न होता। पर वह केवल हास्योत्पादन के लिए नहीं है। कथानक में 'भाग' भी लेता है। पंचम अङ्क के प्रारम्भ में वह सभी पात्रों के सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहता है। प्राचीन नाटकों के 'विष्कंभक' का काम 'प्रसाद' जो ने वहाँ बड़े कौशल से उससे निकाला है।

पात्रों का निर्माण उन्होंने कुछ इस ढंग से किया है कि एक पात्र अपने स्वभाव की प्रतिकूलता (Contrast) से दूसरे पात्र की आचरण रेखाओं के रङ्ग को गहरा बना देता है। जो स्कन्द है वह पुरुगुप्त नहीं है, जो बन्धुबर्मा है वह भगर्क नहीं है, जो देवकी है वह अनन्तदेवी नहीं है, जो देवसेना है वह विजया

नहीं है, जो रामा है वह शर्वनाग नहीं है, जो प्रख्योतकीर्ति है वह प्रपञ्चबुद्धि नहीं है। इसी से इस नाटक में एक पात्र के चरित्र को समझने के लिए दूसरे पात्र के चरित्र को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है।

स्कन्दगुप्त के पाँच अङ्कों में प्रसाद ने कथानक का विभाजन इस कौशल से किया है कि इसमें नाटक की पाँच अवस्थायें स्पष्टता से पृथक् पृथक् भलक जाती हैं। यह पाँच अवस्थायें होती हैं—(१) आरम्भ (फल की प्राप्ति के लिए उत्सुकता) (२) प्रयत्न (फल की प्राप्ति के लिए उद्योग)। (३) प्राप्त्याशा अथवा प्राप्ति-सम्भव (सफलता की सम्भावना जिसमें विफलता की आशंका बनी रहती है) (४) नियताप्ति (जिसमें सफलता का निश्चय हो जाता है) और फलागम (जिसमें सफलता की प्राप्ति होती है)। 'स्कन्दगुप्त' का फल है आर्य-साम्राज्य की स्थापना। प्रथम अंक में पृष्ठमित्रों, शकों और हूणों के आक्रमण की जो साम्राज्य की शक्ति को छिन्न-भिन्न करने वाले हैं, सूचना मिलती है और स्कन्द उनके विरुद्ध शास्त्र ग्रहण करने को उद्यत होता है। फल की प्राप्ति में दो मुख्य विधि हैं—एक बाहर के आक्रमणकारी, दूसरे राज्य के षड्यंत्रकारी। दूसरे अङ्क में आंतरिक षड्यंत्रों का कुछ दिन को दमन होता है और मालव-राज्य स्कन्द को सौंपा जाता है जो आर्यराष्ट्र-निर्माण का श्रीगणेश है। तीसरे अङ्क में वन्दुवर्मा की छध्यक्षता में हूण पराजित होते हैं, पर स्कन्द और उसकी सेना कुभा नदी की धारा में वह जाते हैं जिससे सफलता और विफलता दोनों का संयोग होता है। चौथे अङ्क में विजया अनन्तदेवी का साथ छोड़कर स्कन्द की ओर आने की प्रस्तुत होती है। भटार्क अपनी माता के द्वारा फटकारा जाने पर स्कन्द

का विरोध करना छोड़ता है। इससे सफलता का निश्चय होता है। पॉचवे अङ्क में खिलिल के बन्दी होने पर हूणों का आतंक समाप्त होता है और अनन्तदेवी के क्षमा मौगने पर आन्तरिक षट्यन्त्र निश्चेप होते हैं, अतः फल की प्राप्ति होती है।

पश्चिम में वक्तु का विभाजन जिस आधार पर होता है उस पर भी स्कन्दगुप्त खरा उत्तरता है। अच्छे नाटकों में प्रायः किसी न किसी प्रकार का संघर्ष रहता है। यह संघर्ष स्वार्थों का होता है अथवा विचारों का। हृडसन (William Henry Hudson) ने इसी से कथानक को पांच अङ्कों में विभाजित किया है—(१) आरम्भ (Initial Incident) जिसमें संघर्ष प्रारम्भ होता है। (२) विकास (Rising Action or Complications) जिसमें संघर्ष बढ़ता है और परिणाम अनिश्चित रहता है। (३) चरम-सीमा (Climax or Turning Point) जिसमें एक पात्र इतना प्रबल हो जाता है कि उसकी विजय निश्चित सी होती है। (४) उतार (The Falling Action) जिसमें कथा सफलता की ओर अग्रसर होती है तथा अन्त (Conclusion or Catastrophe) जिसमें संघर्ष का अन्त हो जाता है।

नाटक में दो पक्ष हैं—एक स्कन्द का दूसरा अनन्तदेवी का। स्कन्द को अनन्तदेवी और उसके सहायकों का ही सामना नहीं करना पड़ता, वर्वर शत्रुओं से भी लोहा लेना पड़ता है। प्रथम अङ्क में स्कन्द को एक और मालवा में हूणों का सामना करना पड़ता है दूसरी ओर उसकी अनुभिति में अनन्तदेवी अपने पति की हत्या करके पुरुगुप्त को मगध का शासक बनाती है और इस प्रकार स्कन्द के अधिकार को निगल जाती है। दूसरे अङ्क में भटक, प्रपञ्चबुद्धि, अनन्तदेवी और शर्वनाग मिलकर स्कन्द की

माता देवकी के प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं और भटार्क स्कन्द के विरुद्ध षड् गन्त्र रचने उज्जगिनी पहुँचता है। यद्यपि दोनों कामों में विरोधियों को सफलता, नहीं मिलती पर विरोध का विकास अवश्य होता है। तीसरे अङ्क में स्कन्द को हूणों पर विजय प्राप्त होती है। आन्तरिक षड्यन्त्र को किसी सीमा तक वह पहिले ही दबा चुका था। इस प्रकार स्कन्द के पक्ष की विजय निश्चित होती है। चैथे अङ्क में विजया और भटार्क के अनन्तदेवी के प्रति विरक्त होने से घटनायें स्कन्द की सफलता की ओर मुड़ती प्रतीत होती हैं। पांचवें अङ्क में हूण सेनापति और अनन्तदेवी के बन्दी होने से वाह्य और गुप्त दोनों विरोधी शक्तियों का अन्त होता है।

गुप्तवंश में क्या चन्द्रगुप्त प्रथम, क्या समुद्रगुप्त, क्या चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, क्या कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त एक से एक प्रतापी और वीर शासक हुए जिन्होंने अपने बाहुबल से राज्य की सीमा बढ़ाई और सुशासन की स्थापना की। कुमारगुप्त के पश्चात् राज्य को आन्तरिक षड्यन्त्रों और वाह्य विभीषिकाओं से सामना करना पड़ा। कुमारगुप्त के शासन के अन्तिम दिनों में हूणों का आक्रमण हुआ और युवराज स्कन्द को शकों, पुष्यमित्रों और हूणों का सामना करना पड़ा। स्कन्दगुप्त के समय में तो हूणों के बड़े भयङ्कर आक्रमण हुए। स्कन्द प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इन्हीं षट्यन्त्रों को दबाता और वर्वर हूणों को देश से बाहर निकालने के लिए समस्त शक्ति से प्रयत्न करता दृष्टिनोचर होता है। कुमारगुप्त के सामने गुप्त-साम्राज्य आन्तरिक क्लह से भी जर्जर हो रहा था। सिंहासन का उचित अधिकारी यद्यपि स्कन्द ही था, पर महाराज की छोटी रानी

अपने पुत्र पुरुंगुप्त को मगध के सिंहासन पर आसीन देखना चाहती थी । चक्रपालित ने स्कन्द की उदासीनता के मूल में 'गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम' बतलाया है । यद्यपि इतिहास के अनुसार स्कन्द ही कुमारगुप्त के पश्चात् १२ वर्ष ( ४५५-४६७ ई० ) तक शासक रहा, पर उत्तराधिकार नियम में यदि अव्यवस्था रही हो तो आश्वर्य नहीं । चन्द्रगुप्त प्रथम के पश्चात् लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी का पुत्र सुद्रगुप्त केवल अपनी योग्यता के लिये पिता के द्वारा शासक नियुक्त हुआ, यद्यपि वह महाराज का सबसे बड़ा पुत्र न था ।

नाटक में मालवराज की राजनीतिक घटनाओं का भी वर्णन है । इनिहास का तो यही कहना है कि सौराष्ट्र और गुजरात के साथ चन्द्रगुप्त द्वितीय ने मालवा पर भी विजय प्राप्त की थी पर 'प्रसाद' जी ने बन्धुवर्मा को स्वतन्त्र शासक रखा है और राष्ट्र-प्रेम के शावेश में उससे स्कन्दगुप्त के लिए उस राज्य का समर्पण करवाया है । गुजरात और सौराष्ट्र में मगध की ओर से प्रान्तपति नियुक्त थे । दशपुर के दूत से पर्णदत्त पूछता है, "बलभी का क्या समाचार है ?" बलभी सौराष्ट्र की पूर्वी सीमा का एक नगर था । पर्णदत्त क्योंकि वहाँ का शासक था अतः उस स्थान की रक्षा के हेतु विशेष चिन्तित था । शासन संतर्क्ता से होता था । मातृगुप्त की बाणी से हमें इस बात का पता चलता है कि प्रजा सं जो कर लिया जाता था उसका सदुपयोग होता था । रक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था । यदि किमी का धन अपहृत हो जाता और अधिकारी उसका पता लगाने में असमर्थ रहते तो वह धन उनकी भूक्ति से कटता था । इस नाटक में तीन राजधानियों का वर्णन है—कुमुमपुत्र( पाटलिपुत्र )

अयोध्या और उज्जयिनी। लिच्छवि वनश की राजकुमारी का पाणिग्रहण करने से पाटलीपुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम के अधिकार में आया। उसी समय से यह मगध की राजधानी रहा। बौद्ध लेखकों ने स्कन्द को अयोध्या का विक्रमादित्य लिखा है। सम्भव है राज्य-विस्तार के साथ पाटलीपुत्र के अधिक मध्य में होने के कारण राजधानी स्कन्द के समय में पाटलीपुत्र से अयोध्या परिवर्तित हो गई हो। उज्जयिनी मालत्रा की राजधानी थी ही। इस प्रकार स्कन्दगुप्त के समय में शासन कुसुमपुर अयोध्या और उज्जयिनी तीन तीन स्थानों से होता था।

गुप्तकाल वैष्णव-धर्म की उन्नति और बौद्ध धर्म की अव-  
त्ति का काल है। गुप्त-सम्राट् यद्यपि किसी धर्म से द्वेष न  
रखते थे, पर वे ब्राह्मण-धर्म के अनुयायी थे। कुमारगुप्त वैष्णव  
था इतना तो नाटक से ही आभास मिलता है। मुद्रगल दरबार  
में आकर कहता है, “महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज  
भट्टारक की कल्याण-कामना के लिए ‘चक्रपाणि’ भगवान् की  
पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे?” कुमार  
गुप्त ‘अश्वमेध महेन्द्र’ कहलाता था। समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध  
यज्ञ किया था। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त और स्कन्दगुप्त  
तीनों ‘परम भागवत’ कहलाते थे। बौद्धों का जैसा आचरण इस  
नाटक में दिखलाया गया है उससे पता चलता है कि उन के दिन  
पूरे हो गये थे। एक प्रपञ्चवुद्धि है। वह स्वयं मंदिरा पीता है  
दूसरों को पिलाता है; वरुणा की दूति गौतम का अनुयायी  
होकर हत्या कराने का प्रस्तुत होता है; इमशान में बलि देने  
फो उद्यत रहता है और राज्य के कुचकों में सम्मिलित होता है।  
प्रणयात्कीर्ति की गणना यद्यपि बहुत अच्छे धार्मिकों में होनी

चाहिए क्योंकि ब्राह्मण और वौद्धों के भगड़े में वह बहुत समझ-दारी की बात कहता है, पर उस जैसे धार्मिक भी हूँणों से मिले हुए थे। उसने स्वयं स्वाकार किया है, “सेनापति ! मुझसे सुनो ! समस्त उत्तरापथ का वोद्ध सङ्ख जो तुम्हारे उत्कोच के प्रलोभन में भूल गया था, वह अब न होगा ।” वलिदान के ऊपर ब्राह्मणों और वौद्धों का झगड़ा जिसमें कुछ महानुभावों को आजकल के हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े की छाया दिखाई दी है उस काल का वास्तविक चिन्ह है। हाँ धारुसेन का यह कथन आजकल के ब्राह्मणों पर भी लागू होता है—

“दक्षिणा श्रों की योग्यता से, स्वर्ग, पुत्र, धन, यश, विजय और मोक्ष तुम वेचने लगे ।”

स्कन्दगुप्त राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष को ही विशेषरूप से लेकर चला है। सामाजिक स्थिति का उससे कम पता चलता है। इतना आभास फिर भी मिल जाता है कि समाज उस समय विश्रृङ्खला था। देश में वेश्या-वृत्ति प्रचलित थी। मदिरा का सेवन होता था। नृत्य और गायन के भी लोग प्रेमी थे। विलास की मात्रा बढ़ रही थी। भटाक को फटकारते हुए शर्वनाग ने कहा है, “यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्यजाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधू का छोड़ कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में ।” पर्णदत्त से हमें पता चलता है कि उस काल के सामान्य युवक आत्मसम्मान से हीन शृङ्खलारी छेलो मात्र रह गये थे। भिक्षामृति भी उस समय प्रचलित थी। आहत सैनिकों की सेवा के लिए देवसेना और पर्णदत्त भीख मांगते किरते हैं। पर्दा की प्रथा प्रचलित न थी। खीपात्रों को सहजभाव से पुरुषों के समागम में हँस पाते हैं। मातृगुप्त के

त्वगत आधार पर यह भी पता चलता है कि चाहे कवियोंको पेट भरने के लिए जनता कुछ न देती हो, पर उनका सम्मान करती थी। संस्कृत के विद्वानों और धौद्व पण्डितों में शान्त्राथं होता रहता था। इस प्रकार राजनीतिक स्थिति ढांबाढोल थी, धर्म आहंस्वर मात्र था और समाज पतनोन्मुख।

नाटक में पांच अङ्क हैं और डेढ़-सा से ऊपर पृष्ठ। वैसे प्रसादजी न इस बात का ध्यान रखते हैं कि आगे के अङ्क वरावर छोटे होते चले जायें जिससे दर्शक उकता न जायें। अभिनय के लिए फिर भी कथानक आवश्यकता से अधिक लम्बा हो गया है। 'प्रसाद' के नाटकों के कथानक जटिल भी होते हैं और विवृत भी। अभिनय की हृष्टि से और भी इसमें बहुत से दोष हैं। सबसे बड़ा व्याधात है भाषा का। यह ध्यान रखना चाहिए कि नाटक में केवल कथोपकथन होता है। नाटक को एक प्रकार से हम कथोपकथन की कला कह सकते हैं। यदि पात्रों की बात दर्शक नहीं समझते तो नाटक को मंच की दृष्टि से व्यर्थ ही समझिये। नाटककार कह सकता है, 'दर्शक अयोग्य हैं, बात समझने की क्षमता उनमें नहीं है।' यही बात यदि दर्शक कहें कि आप समझाना ही नहीं जानते। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो प्रसाद की असमर्थता को उनकी इस धारणा के आधार पर दबाते फिरते हैं, कि 'नाटक के लिए मञ्च होना चाहिये।' प्रसाद के वर्ज्य, दृश्यों पर आपत्ति करना हम छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि यदि मक्च ने नहीं तो चित्रपट ने उन पर विजय प्राप्त करली है। 'प्रसाद' के सभी नाटकों से 'स्कन्दगुप्त' की भाषा दुरुह है। स्कन्द, मातृगुप्त, देवसेना, विजया अनन्तदेवी आदि की बात छोड़िए; हँसोड़ धातुसेन, सैनिक चक्रपालित, भटार्क,

जयमाला और कमज़ा की वाणी सुनिये । ऐसा प्रतीत होता है मानो संस्कृत-गर्भित हिन्दी पात्रों के मुँह में टूँसी जा रही है ।

कथानक की दीर्घता, भाषाको दुरुहता अथवा अनुपयुक्तता और मञ्च के लिए वर्ज्य दृश्य — जैसे कुभाकी धारामें स्कन्द और उसको सेना का बहना—छोड़कर दृश्यों के विधान का ज्ञान भी प्रसादजी को कम था । तीसरे अङ्क में पहले एक दृश्य ‘मगध’ का है, पास ही ‘मालव’ का फिर ‘गान्धार को घाटी’ का । पर पट परिवर्तन प्रसादजी ने कहीं नहीं लिखा, बघपि दूरी की भावना को दूर करने के लिए ‘पट’ डालना चाहिए । नहीं तो क्या सबके सामने आकर मञ्च से नौकर सामग्री उठाते फिरेंगे ?

स्कन्दगुप्त में और कई बातें खटकती हैं । रक्षा करने वालों के तुरन्त पहुँचने में स्कन्द का अपनी मौं के निकट पहुँचना एक दैवी घटना का चमत्कार प्रतीत होता है । पृथ्वीसेन महा-प्रतिहार और दण्डनायक का आत्मघात भी कोई अर्थ नहीं रखता । द्वितीय अङ्क में ( दृश्यों के नम्बर तो इस नाटक में ‘प्रसाद’ जी ने उड़ा हो दिये ) भटार्क, प्रपञ्चबुद्धि और शर्वनाग जब अपनी मन्त्रणा करके प्रस्थान कर जाते हैं तब धातुसेन मञ्च पर आ टपकता है, जैसे वह इसी प्रतीज्ञा में था कि कब ये जायें और कब मैं अपना मुख दर्शकों को दिखाऊँ । अकेला है । ‘घातचीत कैसे करे ? मुदगल को स्मरण करता है । वह चट आ जाता है । नाटक के प्रथम पृष्ठ पर बृद्ध पर्णदत्त युवक स्कन्द से ‘आशीर्वाद’ माँगता है । कैसे विनोद की बात है । भाषा की अशुद्धियों भी यहाँ-वहाँ रह गई हैं । किसी स्थल पर ‘होने की लालच है’ कहीं “वे शब्द सामने आते हैं जो उस बूढ़े अमात्य ने कहा था” तो कहीं स्कन्द देवसेना से बड़े भद्रे ढङ्ग से कहता

है, “कभी हमने भी “तुझे” अपने काम का बनाया था।” आज तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि नर्तकी वाले प्रथम गीत में ‘प्रसाद’ जी ने ‘खिले फूल सब गिरा दिया है’ के स्थान पर ‘खिले फूल-सा गिरा दिया है’ क्यों नहीं कर दिया। इससे ‘हृदय धूलि में मिला दिया है’ से संगति भी बैठ जाती और बचन का दोष भी मिट जाता।

प्रथम संस्करण के उपसन्त ‘प्रसाद’ जी ने इस नाटक में बहुत से संशोधन किए। कहीं शब्दों, कहीं वाक्यांशों और कहीं पूरे वाक्यों को घटाया-बढ़ाया है। बीसवें पृष्ठ के दो परिवर्तन देखिये।

( १ ) अ—हमारे अश्रु की गर्म शीतलता उसे सुरक्षित रखे ।

ब—हमारे अश्रु की शीतलता उसे सुरक्षित रखे ।

( २ ) अ—गर्म रक्त का फुहारा छोड़ने वाले हृदय को आहार मिले ।

ब—अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले ।

प्रथम उदाहरण में ‘गर्म’ शब्द रहने पर अर्थ जल्दी हाथ आ जाता है। नहीं तो अध्याहार से काम लेना पड़ता। दूसरे प्रकार के परिवर्तन पुस्तक में बहुत हैं और निश्चय ही उनसे भाषा में सौन्दर्य-वृद्धि हुई है। जहाँ उन्होंने कुछ घटाया है वहाँ कथानक की शिथिलता दूर हुई है। कहीं-कहीं यह काट-छांट खटकती भी है। चतुर्थ अङ्क में शर्वनाग कहता है, “सोने के लोभ से मेरे लालों को शूल पर के मांस की तरह सेकने लगे।” इसी

प्रकार रामा कहती है, “मैं रामा हूँ ! जिसकी सन्तान को हूँणो ने पीस डाला ।” चिना किसी संदर्भ के यह सोचना कठिन है कि यह व्यक्तिगत बात है । यही भ्रम हाता है कि देश के नवयुवकों की हत्या की चर्चा हो रही है । यदि यह अवतरण रहने दिया जाता तो बात एकदम स्पष्ट हो जाती—

**मुद्रगल**--अन्तर्बंद के आक्रमण में अनन्तदेवी की प्रवृत्तना से वह पराजित हुआ, और उसके सब लड़कों को हूँणों ने बध कर डाला । वह पागल हा गया था । रामा की भी वही दशा थी ।

इस नाटक में भी प्रसाद जी ने हास्य की योजना की है । इस काम को समेटने के लिए दो पात्रों को नियुक्त किया गया है । (१) कुमारगुप्त को, (२) मुद्रगल को । कुमारगुप्त की सभा में धातुसेन हँसाने का प्रयत्न करता है, पर सफलता नहीं मिलती । हाँ, बैंकिट में ‘हँसते हुए’ लिखने से किसी को हँसी आ जाती हो तो दूसरी बात है । मुद्रगल एक विदूषक है । वह भोजन, प्रेम विवाह आदि को लेकर हँसी उत्पन्न कराने का कुछ सामान इकट्ठा करता है, पर प्रसाद जी की विद्वत्ता और गम्भीरता उसे भी आ घेरती है ।

**मुद्रगल**--मेरी गठरी जो कुम लेते हो, इसमें कौन-सा न्याय है ? बोलो--

**मातृगुप्त**--न्याय ? तब तो तुम आस-वाक्य अवश्य मानते होंगे !  
**मुद्रगल**--अच्छा तो तक्ष-शास्त्र लगाना पड़ेगा ।

संगीत भी नाटक की एक आवश्यकता है । नाटकों में पहिले इस तत्त्व का समावेश इस प्रचुरता से होता था कि पात्र बात-चीत करने के शौकीन कम प्रतीत होते थे गाने के अधिक ।

नाटक मीरासियों की एक मजलिस हो जाती थी। इस नाटक में 'प्रसाद' ने संगीत का समावेश सकारण रखा है। स्कंदगुप्त में १६ गाने हैं। उनमें कुछ प्रार्थनाएँ हैं, कुछ गाने नेपथ्य से सुनाई पढ़ते हैं, कुछ नर्तकियों के मुख से और कुछ स्वतन्त्र। सम्राट कुमारगुप्त नर्तकियों का गान सुनते हैं। दरबार में मनोरंजन थोड़ा होना भी चाहिये। भटार्क अपने शिविर में नर्तकी से गान सुनता है। युद्धक्षेत्र गान के लिए उपयुक्त स्थान तो नहीं है, पर इससे भयंकरता थोड़ी कोमल बनती है और सैनिकों की धकावट दूर होती है। प्रसाद ने नर्तकियों के समावेश से नृत्य का आयोजन भी कौशल से कर दिया है। नेपथ्य के गाने वातावरण को घनीभूत (intense) करने के लिए है। प्रार्थनाओं के रूप में स्वर-लहरी थोड़ी तैर जाय तो कुछ अस्वाभाविक नहीं। स्वतन्त्र गायकों में मातृगुप्त, देवसेना और विजया हैं। मातृगुप्त कवि है। एक रचना भावावेश में उसके मुख से निकलती है, दूसरी कविता रणक्षेत्र में वीरों को उत्साहित करने के लिए। दोनों की अपनी अपनी उपयुक्तता है। सबसे अधिक देवसेना गाती है। प्रसादजी ने स्वभाव से उसे संगीत की प्रेमिका बना कर उस पर आपत्ति करने की आशङ्का को उठा दिया है। वैसे जहाँ उसने गाया है वहाँ समय और स्थान देखकर। इस पर यदि उससे कोई कुछ कहे तो कलाकार की निर्दृष्टता को सामने रखते हुए उसके पास यह उत्तर है—

उसका (तात्पर्य है कलाकार से) स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेला अपने सौरभ की तान से दक्षिण-पवन में कम्प उत्पन्न करता है, कलियों को चटका कर ताली बजाकर, भूम-भूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है— सुनता है। उसके अन्तर में जीवन-शक्ति वीणा बजाती है।

विजया के गाने पर थोड़ी आपत्ति की जा सकती है। शृंघपि दोनों गीत भावावेश में निकलते हैं, पर सहस्र को अपने हृदय की अभिलाषा कविता में जताना उपके लिए बहुत आवश्यक नहीं है। यह किर मी कहना पड़ता है कि गान की परिधि में इनमें से थोड़ी रचनाएँ आती हैं। अधिकतर रचनाएँ सुन्दर कविताएँ ही हैं। 'ससृति के वे सुन्दरतम् ज्ञण' वाली शृंगारो रचना—जिसके लिए किसी-किसी नासमझ का कहना कि 'रहस्यवाद का यह कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है!' तो साधारण व्यक्ति के लिए एक ऐसा गूढ़ होगई है।

माइकता-सी तरल हँसी के प्याले में उठती लहरी ।

मेरे निश्वासों से उठकर अवर चूपने को ठहरी ॥

मैं व्याकुल परिम्भ मुकुल में बन्दी अलि सा काँच रहा ।

छुलक उठा प्याला, लहरी में मेरे सुख को माप रहा ॥

सजग सुस सैंदर्य हुआ, हो चपन चलीं भौंहें मिलने ।

लीन हो गई लहर, लगे मेरे ही नख छाती छिलने ॥

श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओं से ग्राथत रहा ।

जीवन के उस पार उड़ाता हँसी, खड़ा मैं चकित रहा ॥

तुम अपनी निष्ठुर क्रीड़ा के विभ्रम से, वहकाने से ।

सुखी हुए किर लगे देखने मुझे पथिक पहचाने से ॥

यही दशा 'कुछ कम मात्रा में अजातशत्रु की 'निर्जन' जोधूली प्रांतर ...' रचना की है और कुछ अधिक मात्रा में दन्दगुप्त की 'ओ मेरी जीवन की स्वति' कविता की।

प्रायः प्रश्न उठता है कि यह नाटक सुखांत है अथवा दुःखांत। जगता ऐसा है कि नायक की दृष्टि से नाटक विषादांत है और उद्देश्य की दृष्टि से सुखांत। दुखांत के लिए यह

आवश्यक नहीं है कि किसी की मृत्यु ही दिखाई जाय । स्कन्द-गुप्त का हताश होना मृत्यु से भी अधिक भयंकर है । पर यहा बात दूसरी है । नाटक का लक्ष्य 'प्रेम' नहीं है । अतः यह निराशा-वह भी अनिर्दिष्ट कि इस वेचारे के अन्तःकरण का आलिङ्गन करके न विजया रो सकी और न देवसेना-एक व्यक्तिगत बात मात्र रह जाती है । नाटक का मुख्य उद्देश्य है 'गुप्त साम्राज्य का पुनरुद्धार' । वह पुरुगुप्त के सम्राट होने पर-जो स्कन्द की इच्छा से उसका स्थानापन्न है-पूरा हो जाता है नाटक को इस सुखान्त ही कहेंगे । किसी नवीन नाम की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है । किसी-किसी ने 'चन्द्रगुप्त' को भी एक नवीन नाम के शिकंजे में कसा है । स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध में तो भ्रम हो भी सकता है पर चन्द्रगुप्त का अन्त तो ऐसे आह्वाद के बातावरण में होता है कि वहाँ उसके सुखान्त होने में सन्देह को भी अवकाश नहीं है । एक बात पूछी जा सकती है । 'प्रसाद' जो ने नाटक का अन्त पुरुगुप्त के तिलक के समय ही क्यों नहीं कर दिया ? देवसेना और स्कन्द के मिलन का उद्यान वाला अन्तिम दृश्य क्यों बढ़ाया ? उस दृश्य की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि देवसेना के चरित्र का पूर्ण विकास अभी नहीं हुआ । उसकी मानसिक स्थिति को दिखाना अभी शेष है । अतः सब कुछ निर्णय होने पर स्कन्द के साथ एक बार उसे फिर खड़ा किया गया । इस दृश्य में तो स्कन्द के मुख से ही हमें नाटक के उद्देश्य का पता चलता है-‘हमने अन्तर की प्रेरणा से शास्त्र द्वारा जो निष्ठुरता की थी, वह इसी पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए ।’ जहाँ तक देवसेना का सम्बन्ध है वहाँ तक उसे अपने निर्णय पर मानसिक परितोष है-इतना परितोष कि अपनी फिलासफी का उपदेश देने के लिए वह खड़ी हो जाती है । अजातशत्रु के अन्त में भी

हपं और सुख उभड़ पड़े हैं । विम्बसार का लड्डखड़ाना सुखा-धिक्य के कारण है । वह स्त्रयं कहता है, ‘इतना सुख एक साथ मैं सहन न कर सकूँगा’ इससे अधिक और किस सुख की कल्पना वह कर सकता था । इन नाटकों के पूर्ण सुखान्त होने में शायद यह कसर रह गई है कि ‘चन्द्रगुप्त’ की भाँति फूल तो किसी ने घरसाये ही नहीं ।

नाटक का सबसे सफल भाग पाँचवें अङ्क ना वह अंश है जिसमें एक और स्कन्द और देवसेना, दूसरी और स्कन्द और विजया मिलते हैं । केवल अन्त की पंक्तियों को छोड़कर देवसेना के चरित्र का निर्वाह बड़ी मार्मिकता से हुआ है । कला की दृष्टि से कुमारगुप्त की हत्या से पूछे प्रसाद जी ने राजप्रापाद के चारों ओर के अद्वितीय के अधितमस् वातावरण में सनसनाहट भरी है जो आगामी वीभ-स घटना को बल (intensity) प्रदान करती है । हूँणों का आतङ्क भी एक स्थल पर खरा चित्रित हुआ है । कुमारगुप्त की हत्या के हृश्य के उपरान्त ही उन्होंने मातृगुप्त और मुद्गगल का विनोद दिखलाया है । शोकपूणे घटना के उपरान्त थोड़ा सजोरउज्जन करना इसलिए उचित प्रतीत होता है कि मृत्यु के आधान से दर्शकों का हृदय कहीं अधिक चोट न खा जाय । अतः उनकी शोकमुद्रा को गुद्गुदा कर परिवर्तित करना चाहिए ही । नाटक की अन्तिम चार-पांच पंक्तियां प्रभाव को ज्ञाएं ही करती हैं । स्कन्द की याचना के उत्तर में देवसेना का यह तर्क ‘जिसमें सुखों का अन्त न हो, इसलिए सुख करना ही न चाहिए’ बहुत दुर्बल है । नाटक को यदि ‘देवसेना ! तुम जाओ । हत्याग्य स्कन्दगुप्त, अकेला स्कन्दगुप्त, ओह!!’ पर ही समाप्त कर दिया जाता तो कितना अच्छा होता !

# चन्द्रगुप्त मौर्य

‘चन्द्रगुप्त मौर्य’ ऐतिहासिक नाटक है। तक्षशिला के महाराज आम्भीक ने ३२६ ई० पू० में तक्षशिला में आक्रमणकारी सिकन्दर का स्वागत किया और द्वेष के कारण पोरस का विरोधी बनकर शत्रु का साथ दिया। पोरस पराप्त हुआ, पर उसकी बारी में राजोचित गरिमा के दर्शन से मुरथ हो सिकन्दर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया। प्लूटार्क (Plutarch) का कहना है कि चन्द्रगुप्त की सिकन्दर से भैंट हुई थी और जस्टिनस (Justinus) ने तो बालक चन्द्रगुप्त के उद्दण्ड व्यवहार पर अप्रसन्न होकर सिकन्दर द्वारा उसके वध की आज्ञा तथा भागकर उसके बच आने की चर्चा भी की है। नन्द को अप्रसन्न करके मगध से भाग आने की बात भी यही लेखक कहता है। ई० बी० हैवेल (E. B. Havell) ने तक्षशिला के प्रसिद्ध विद्यालय में चाणक्य के रहने, उस विद्यालय के विद्रोह का केन्द्र बनने और चन्द्रगुप्त के चाणक्य का शिष्य होने का उल्लेख किया है। मालवों से युद्ध करते समय सिकन्दर एक बार घायल भी हुआ। भारत से लौटने पर उसने फिलिप (Philip) को यहाँ का ज़त्रप (Satrap) नियुक्त किया। ३२३ ई० पू० में सिकन्दर की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ३२२ ई० पू० में चन्द्रगुप्त ने पञ्चाय पर आधिपत्य जमाया और चाणक्य तथा पर्वतेश्वरको लेकर वह मगध पहुँचा। नन्द की हत्या के उपरांत २२१ ई० पू० में वह यहाँ का शासक हुआ; और दक्षिण विजय करने चल पड़ा। ३०५ ई० पू० में सिल्यूक्स निकैटर (Seleukos Nikator) ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में सिल्यूक्स पराजित हुआ।

और सिन्धु के पश्चिम का ग्रीक-राज्य तथा कावुल, कन्धार, हिरात और गैडोशिया के प्रान्तों को चन्द्रगुप्त को देकर तथा महाराज को अपना जामाता बनाकर एटी-गोतस ( Antigonos ) का सामना करने के लिए वह लौट गया। चन्द्रगुप्त ने प्रसन्न होकर ५०० हाथी सिल्यूक्स को दिए तथा मेगास्थीज ( Megasthenees ) को अपने दरबार में यूनानी राजदूत बनकर रहने की आज्ञा दी।

ये ऐतिहासिक घटनायें हैं जिनके आधार पर 'चन्द्रगुप्त' का प्रणयन हुआ है। अपनी ओर से नाटककार ने बहुत कम घटाया बढ़ाया है, इतिहास की रेखाओं के भीतर ही झङ्ग भरा है। नाटक के पुरुष पात्रों में सिकन्दर सिल्यूक्स, फिलिप्स, आम्भीक पर्वतेश्वर, चन्द्रगुप्त, चाणक्य, नन्द, राज्यस, वरसुचि, शकटार सभी ऐतिहासिक पात्र हैं। यवनदूत साइबर्टियस ( Sybertios ) भी काल्पनिक नहीं है। प्रथम अङ्क के छठे दृश्य में मालविका ने उद्भांड में मानवित्र बनाने की अलका से बात कही है। सिकंदर के समय में सिंधु नदी का घाट अटक से १६ मील उत्तर उद्भांड पुर ( Obind ) में ही था। ऐसी छोटी बातों के ग्रहण करने से प्रसादजी की सतर्कता की और भी प्रशंसा करनी पड़ती है। पाटलोगुन्त्र की स्थिति के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। यह आधुनिक पटना के स्थान पर ही मगध की राजधानी थी और गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ था। अब तो वहाँ खुदाई होने से बहुत सी नवीन बातों का पता चला है। कल्याणी के मुख से प्रसाद जी ने कहला ही दिया है, "मगध के राजमंदिर उसी तरह खड़े हैं, गंगा शोण से उसी स्नेह से मिल रही है।"

नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही उन्होंने थोड़े से परिवर्तन किये हैं जिनका उन्हें पूर्ण अधिकार है। इतिहास इस बात का साक्षी नहीं है कि फिजिप की मृत्यु चन्द्रगुप्त के हाथों द्वन्द्युद्ध में हुई, पर दोनों के जीवन में कार्नेलिया के आने पर प्रेम में प्रतिद्वन्द्वी को मृत्यु कराके कथा को रोचकता प्रदान की गई है। स्त्री-पात्रों के सम्बन्ध में निश्चय-पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। वे हो सकती हैं, पर नामों की यथार्थता का दावा नहीं किया जा सकता। सिल्यूकस की कन्या का नाम राय महोदय ने हैलन दिया है, 'प्रसाद' ने कार्नेलिया। दोनों नाम काल्पनिक प्रतीत होते हैं। कुछ इतिहासकार तो इस वैवाहिक सम्बन्ध पर शंका भी प्रकट करते हैं।

'प्रसाद' जी ने अपने 'मौर्यवंश' लेख में इस बात पर बहुत ज्ओर दिया है कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय था। उन्होंने चंद्रगुप्त को पिपलीकानन ( बस्ती जिले में नैपाल की सीमा पर ) के क्षत्रियों का वंशज ही माना है। श्रीक-इतिहासकारों ने जो यह भ्रम फैलाया है कि वह मुरा नाम की शूद्रा नाइन के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, उसका निराकरण उन्होंने किया है। उनका कहना है कि मुरा से मौर और मौरिय बन सकता है न कि मौर्य। इसके लिए उन्होंने इधर उधर के बहुत से प्रमाण दिए हैं, पर मुख्य आधार बौद्ध-ग्रंथ 'महावंश' है जिसका उपयोग प्रसादजी ने और बहुत से इतिहासकारों ने किया है। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री आव इण्डिया' में चन्द्रगुप्त को शूद्रत्व से मुक्त किया गया है। विसेंट स्मिथ ( V. A. Smith ) भी उसके शूद्र होने पर शङ्का प्रकट करते हैं और आयंगर ( Aiyanger ) ने 'ए हिस्ट्री आव इण्डिया' में लिखा है—

But according to the Pali Book, the Mahavansa, the Mauryas, were an off-shoot of the Sakya tribe; and there were the Moriyas of the Pippalivada.

मेरे कहने का तात्पर्य यह न समझा जाय कि 'प्रसाद' जी ने जिस सामग्री का उपयोग 'चन्द्रगुप्त' नाटक में किया है वह क्योंकि सरलता से इतिहास-ग्रथों में मिल जाती है अतः उनके अध्यवसाय का कोई मूल्य नहीं। नहीं, उन्होंने अपनी भूमिका अपने ढङ्ग पर विशेष रूप से भारतीय ग्रथों के आधार पर अत्यन्त परिश्रम से लिखी है और उसका मूल्य है। डी. एल. राय ने ऐतिहासिक खोज में अपना सर नहीं खपाया। मुरा के नाम पर ही मौर्य राज्य के स्थापित करने की बात उन्होंने कही है और इसे चन्द्रगुप्त की मातृ-भक्ति का प्रमाण माना है। लुद्धाराज्ञस-कार ने भी चन्द्रगुप्त के लिए 'बृप्त' शब्द का प्रयोग किया है जो भाव से हीनता का घोतक ही प्रतीत होता है, पर 'प्रसाद' चन्द्रगुप्त के क्षत्रियत्व के प्रचार के लिए इतने उत्सुक थे कि नाटक में उन्होंने अवकाश निकालकर उसकी व्याख्या की है—

पर्वतेश्वर—हाँ तो इस मगध-विद्रोह का केन्द्र कौन होगा ? नन्द के विरुद्ध कौन खड़ा होता है ?

'चाणक्य-मौर्य-सेनानी' का पुत्र वीर चन्द्रगुप्त जो मेरे साथ यहाँ आया है।

पर्वतेश्वर—'पिपलीकानन' के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज्य-सिंहोंसन दीजियेगा।

चाणक्य—'आर्य-कियाओं' का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला; वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। वीद्वों के ग्रन्थान में ज्ञान से उनके

ध्रौत संस्कार छूट गये हैं अवश्य, परन्तु इनके चक्रिय होने में कोई सन्देह नहीं ।

चाणक्य इस नाटक का प्रधान पात्र है । शरीर में मेरुदण्ड के समान नाटक के कथानक में चाणक्य के चरित्र की स्थिति है । उसे निकाल देने पर जैसे पुन्नक का सारा ढाँचा ही अस्त-व्यस्त हो जायगा । चाणक्य एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पात्र है जिसका तुलना पश्चिम के बिद्वानों ने मिक्रियावेली( Machiavelli ) से की है । प्रसिद्ध है कि चाणक्य विलक्षण बुद्धि का एक प्रतिभावान कूटनीतिज्ञ प्राद्वाण था । 'प्रसाद' के इस नाटक में चाणक्य के काम शारीर में नसों के समान फैले हुए हैं ।

प्राद्वाणत्व का अहं 'प्रसाद' के चाणक्य में बहुत प्रबल है । ऐदिक काल के समर्थ ऋषियों का रक्त जैसे चाणक्य की धमनियों में प्रवाहित हो रहा है । प्रखरबुद्धि और अनन्त शक्ति रखते हुए भी उस बुद्धि और शक्ति का अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करना और लाक-कल्याण में रत रहना चाणक्य को हृषि से प्राद्वाण का आदर्श था, जिसका पालन उसने जीवन के अंत तक किया । पर ब्राद्वाण की महत्वा को कोई स्वीकार न करे अथवा उसका अपमान करने का कोई साहस करे यह वह नहीं सहन कर सकता था; यह बान हम पर्वतेश्वर और नन्द के साथ चाणक्य के व्यवहार में देख चुके हैं । राय और प्रसाद दोनों नाटककारों ने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि चाणक्य की आन्तरिक इच्छा राजनीति में पड़ने की न थी । परिस्थितियों ने उसे विवरा किया था कि वह क्रूर से क्रूर कर्म करने को धार्य हो । एक बार वह सोचता भी है, "मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाय, मैं शस्त्र व्यवसायी न रहूँगा, मैं कुपक बनूँगा ।

“मेरी राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या ?” परन्तु अब उसका ग्रहण स्थिर अपहृत होता है, अच्छी बात सुझाने पर अपमान होता है, उसे कारागार में डाल दिया जाता है और विदेशियों के आक्रमण तथा स्थदेशियों की फूट और अत्याचार से देश के छिन्न भिन्न होने की आशङ्का उसे दृढ़ी दिखाई देती है तब वह अपना कर्म-पथ बदल देता है। जो कुछ उसने किया उसे वह करना न चाहता था; इस बात को चन्द्रगुप्त से उसने व्यक्तिकार किया है—“मैं ग्राहण हूँ। मेरा साम्राज्य करणा का, प्रेम का था। वौद्धिक विनोद कर्म था। सन्तोष धन था। उस अपनी, ग्राहण की जन्मभूमि को छोड़कर कहाँ आगया ! मेरा जीवन राजनीतिक कुचक्कों से कुत्सित और कलाद्वृत हो रठा है। किसी द्वायार्चन, किसी काल्पनिक महत्व के पीछे, भ्रमपूर्ण अनुसन्धान करता दौड़ रहा हूँ। शांति खो गई, स्वरूप विरमृत हो गया !”

कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण ही शाश्वत का दूसरा नाम कौटिल्य है। सफ्ल नीतिज्ञ की पहली पहचान यह है कि उसे मनुष्यों और परिस्थितियों की खरी परख होनी चाहिये। शाश्वत को मनुष्य के स्वभाव, उसकी शक्तियों और दुर्बलताओं का जैसा ज्ञान था वैसा शायद ही किसी को हो। चन्द्रगुप्त की देखते ही उसने पहचान जिया था कि वह राजा होने योग्य है। पर्वतेश्वर से उसने कहा था, “पौरव ! जिसके लिये कहा गया है कि द्वित्रिय के शास्त्र धारण करने पर आर्चरणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, मौर्य चन्द्रगुप्त वैसा ही द्वित्रिय प्रमाणित होगा।” पर्वतेश्वर से बातें करते ही उसने खीभकर कहा था, “शौर्यगर्व से तुम परम्भूत होगे।” नन्द के आधरण से उसने निष्ठकर्त्ता निकाल किया था कि उसका विनाश निकट है। सिंहरण को

समझता था कि वह विश्वस्त मित्र सिद्ध होगा। सिकन्दर-पोरस युद्धकाल में जब कल्याणी मगध की सेना को लेकर लौट जाना चाहती है तब वह उसे केवल यह कहकर उलझाने का प्रयत्न करता है “परन्तु राजकुमारी, उसका (चन्द्रगुप्त का) असीम प्रेम-पूर्ण हृदय भग्न हो जायगा।” और मालविका के प्रेम का दुर्बलता को पहचानकर तो उसने चन्द्रगुप्त के लिए उसकी हत्या करादी।

मनुष्यों के अध्ययन के उपरान्त स्थितियों का अध्ययन उसका बहुत स्पष्ट है। वह जानता था कि विदेशियों की बाढ़ भारत को निगलने के लिए आरही है, वह जानता था कि देश के शक्तिशाली व्यक्तियों में राष्ट्रभिमान नहीं है, वह जानता था कि गणतन्त्रों और राज्यों में एकता का भाव नहीं है-सारा देश द्वेष से जर्जर हो रहा है। इसीसे वह कभी आम्भीक को समझता है, कभी पर्वतेश्वर के पास दौड़ा जाता है, कभी नन्द को चेतावनी देता है जैसे सारे राष्ट्र के कल्याण का भार विना किसी के सौंपे ही उसने अपने ऊपर ले लिया है। उसकी बात न कोई सुनता है और न समझता है। पर वह हताश नहीं होता। उसकी-सी उद्यम-शीलता के उदाहरण कम मिलेंगे

चाणक्य के सामने दो विकट कार्य थे (१) विदेशियों को निकालना, (२) चन्द्रगुप्त को सम्राट् बनाना। सिकन्दर के आक्रमण के समय मालव लुद्रक आदि गणतन्त्रों को छोड़कर उस समय तीन बैभवशाली राज्य के तीन प्रभावशाली राजा थे—नंद, पोरस और आम्भीक। ये तीनों ही मिलकर खड़े नहीं हो सकते थे। पर्वतेश्वर ने अकेले सिकन्दर का सामना किया। आम्भीक उसका इसलिए दिरोधी था कि पर्वतेश्वर ने उससे अपने लोक-विश्रुत

कुन्ज के नुसारी का विवाह नहीं किया। नन्द इसलिए अप्रसन्न था कि उसने उसे शूद्र समझकर उसकी पुत्री कल्याणी से परिणय करना अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से विवाह विरोध का कारण हुआ। चाणक्य की यह विशेषता है कि जितनी उल्लभनमय स्थिति होती है उतने ही अधिक कौशल से वह काम करता है। एक उदाहरण लोजिये। पोरस की पराजय के उपरान्त जब आम्भीक के साथ ही पोरस भी एक प्रकार से सिकन्दर का अविरोधी बन जाता है और यूनानियों द्वारा मानव के कुचले जाने की आशङ्का है उस समय चाणक्य इस भयकर परिस्थिति को केवल अपने बुद्धिवल से सँभालता है। गणतंत्रों की युद्ध-परिषद् चन्द्रगुप्त को मागध समझकर अपना सेनापति नहीं बनाना चाहती। चाणक्य दो मिनट के भाषण में उनकी मति बदलता है। कल्याणी और राज्ञस मगध की सेना को बापिस ले जाना चाहते हैं। वहां उसका बुद्धि-कौशल देखने योग्य है। कल्याणी लौटने का प्रस्ताव उठाती है तो उसके सामने चन्द्रगुप्त के प्रेम को रखता है। कहता है तुम्हारे बिना उसके हृदय के दुरुड़े हो जायेंगे। राज्ञस उसे लौटा ले जाना चाहता है। उस समय पहिले तो मगध के विनाश की संभावना से उसे भयभीत करता है। तुरन्त ही लौटकर कहता है, “नन्द को अपनी प्रेमिका सुवासिनी से तुम्हारे अनुचित सम्बन्ध का विश्वास हो गया है। अभी तुम्हारा लौटना ठीक न होगा, समझे।” राज्ञस चक्कर में पड़ जाता है। चाणक्य के चर राज्ञस के चरों को धोखा देते हैं। इतने से ही संतुष्ट न होकर अपनी चाल को दृढ़ करने के लिए पहिले कुछ सैनिकों को भेज़कर कहलवाता है, “अमात्य राज्ञस, मगध सघाट की आज्ञा से शख्स त्याग कीजिए आप बन्दी है।” दूसरी ओर से अन्य

हैनिक आकर कहते हैं, “ हम राज्यस के शरीर-रक्तक हैं । ” और पहिले सेनिकों को बन्दी बना लेते हैं । राज्यस के हृदय में इस प्रकार अपने प्रति विश्वास का संपादन करता है और उसके हृदय को कुञ्जता से भर देता है । राज्यस जा नहीं पाता । काम हो जाने पर भी वह राज्यस को मूर्ख बनाता है । वह जानता है कि उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है—सुवासिनी—और मनुष्य की दुर्बलता से वह सदैव लाभ डंठता है । कहता है ‘‘मैं सुत्रासिनी से तुम्हारी भैंट भी करा देता, परन्तु वह मुझ पर विश्वास नहीं करती, तुम्हारा प्रत्यय देखकर आ सकती है । ’’ राज्यस अपनी मुद्रा दे देता है । इसी मुद्रा से नन्द का सबोनाश होता है । सिकन्दर के घले जाने से ही यूनानियों का आतङ्क समाप्त हो गया हो ऐसा नहीं । सिकन्दर के उपरान्त फिलिप्स का प्रश्न था । उसे हन्द्र-मुद्र में चन्द्रगुप्त से समाप्त करा दिया । यह ध्यान देने की बात है कि उस शीघ्र पर्वतेश्वर को चाणक्य अपने साथ मगध ले आता है । फिलिप्स के उपरान्त सिन्धुक्षस आ धमका । उस समय तक चन्द्रगुप्त की शक्ति की चाणक्य ने इतना छढ़ कर दिया था कि सिन्धुक्षस के छूके छुट जाते हैं ।

चन्द्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बिठाने में भी चाणक्य ने विश्वमयकारिणी प्रतिभा का परिचय दिया है । पर्वतेश्वर को शज्य का लोभ देना और उससे काम लेना, मालविका के द्वारा बन्द के हाथ में जाली पत्र पहुँचाना और राज्यस-सुवासिनी को बन्दी बनवाना, अपने आदमियों को भीड़ में मिलाकर नगर में स्थानसनों पैलाना, फिर राजसिंहासन के पास जाकर अपने

भाषण से नागरिकों को उत्तेजित करना और उस उत्तेजना के क्षण में नन्द का वध करना, रात्रस के बोच में बोलने पर बड़े धैर्य से उसकी बात को सुनना और फिर इस प्रकार तर्क उपस्थित करना जिससे जनना स्वयं यह अनुभव करने लगे कि मगध के लिये एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता है, स्वयं चुप रहना, पर शक्तिरार का चन्द्रगुप्त का नाम लेना था कि एक क्षण का विलम्ब न करते हुए उसे सिंहासन पर बिठा देना और रात्रस से ही उसका अभिषेक करना, कथा चाणक्य के अतिरिक्त और किसी राजनीतिज्ञ से सम्भव था ! इस कुटिला राजनीतिज्ञ की चालों को कोई भौंप तक नहीं सकता और अपने कार्यों की सफलता के लिये यह उवित-अनुचित तथा पाप पुण्य का कोई ध्यान नहीं रखता । चाणक्य, जैसा उसने स्वयं कहा है, 'केवल सिंद्वि देखना है, साधन चाहे कैसे ही हों ।' इसी से यह पाषाण-हृदय व्यक्ति मालविका के प्राण ले लेता है और बिछुल नहीं हिचकता । कल्याणी आत्महत्या करती है तो एकदम सहज-भाव से कहता है, "चन्द्रगुप्त ! आज तुम निरुप्तक हुए ।

अपनी क्रूरता में भी चाणक्य महान ही प्रतीत होता है । महिन्द्र के मामने हृदय चाहे दब गया हो, पर मिट नहीं गया । घल्यकाल की सहचरी सुवासिनी को वह भूल नहीं सका और उसका नाम हृदय से उमड़कर चाणक्य की जिढ़ा तक भी कभी कभी आजाता है । पर क्या हम इसे उसकी दुबेलता कहें ?

एकाध बार सुवासिनी से उसका साक्षात्कार भी होता है । जीवनभर का संचित अनुराग उस समय उसकी आँखों में मखक उठता है । पर वह तुरन्त सेभल जाता है । कहता है

“ क्या ? मेरी दुर्वलता ? नहीं ” वहीं वह दुख की पी जाता है। देवताओं का पता नहीं, पर मानवों में इसी को महानता कहते हैं।

यह दृढ़, उद्यमी, निर्भीक, हठी, कठोर, कोमल, सतत सजग, दूरदर्शी, कूट राजनीतिज्ञ ब्राह्मणत्व का अभिमानी, आर्य-राष्ट्र की एकता का स्वप्न सत्य में परिणत करने वाला, विचित्र प्रतिभा-सम्पन्न प्राणी, सैनिक न होकर सेनापतियों को रण सड़चालन की नीति बताने वाला, दरिद्र होकर समारों पर शासन करने, वाला ठ्यक्ति, विधाता की एक आश्र्वर्य सृष्टि था। सबसे अधिक घकित वह हमें उस समय करता है जब अपना मन्त्री-पद राज्यस के लिए सौंपता है। उसने मुवासिनी से कहा था, “मुझे चन्द्रगुप्त को मेघमुक्त चन्द्र देखकर इस रङ्गमच्छ से हट जाना है।” चाणक्य ने यही किया। भारत को ही अपने शिष्य के अधीन नहीं किया; सिल्यूक्स की कन्या कार्नेलिया को भारत की साम्राज्ञी बनाकर त्रिदेशी आतङ्क को भी शान्त कर गया। क्या उसका त्याग मुवासिनी के लिए था अथवा निष्काम कर्म का उदाहरण था ? कौन जाने ? उसके कर्म पादप को यद्यपि अपमान की प्रतीकार - भावना और ‘दिव्य यश’ के अर्जन का खाद्य भी मिला है पर राष्ट्र-प्रेम की रसधारा के सतत सिड्चन से क्रूरता के कॉर्टों में रक्षित निष्पृहता का पुष्प और देश-गौरव का फल जो उसने भेंट किया वह वर्णनातीत है।

चन्द्रगुप्त नाटक का नायक है और नायक के सभी गुण उसमें है—उच्चकुल में जन्म लेकर निरभिमानता, निर्भीकता के साथ विनम्रता, वीरता के साथ कोमलता और सङ्कृत में धैर्य-प्रदर्शन। इस बातको देखकर बहुत बड़ा सन्तोष होता है कि प्रसाद्

जी ने चन्द्रगुप्त को चाणक्य के हाथ की कठपुतली मात्र नहीं रखा। मुद्राराज्ञ स नाटक की यह बहुत घड़ी अस्वाभाविकता है। चाणक्य और चन्द्रगुप्त एक दूसरे को पूर्ति हैं। चाणक्य मस्तिष्क है, चन्द्रगुप्त भुजा। साम्राज्य की स्थापना के लिए दोनों की आवश्यकता है। यदि चन्द्रगुप्त बिना चाणक्य के राजा नहीं हो सकता था तो चाणक्य को भी नन्दकुल का नाश करके मगध के सिंहासन पर बिठाने के लिए एक तेजस्वी वीर की आवश्यकता थी। उस पद के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्तित्व चन्द्रगुप्त का ही था। वैसे चन्द्रगुप्त स्वभाव से विनम्र है, पर उसके अन्तर में सम्राट् अन्म से बैठा था ऐसा प्रतीत होता है। समय आने पर वह चाणक्य से जो उसका गुरु है जवाब तलब करता है। प्रशंसनीय बात यह है कि जिस पिता की अप्रसन्नता को सामने रखकर चन्द्रगुप्त ने चाणक्य से कैफियत मोंगी थी वही पिता जब चाणक्य की हत्या का प्रयत्न करता है तब चन्द्रगुप्त पिता के सम्बन्ध को भूलकर उसे न्यायाधीन समझता है और अपना निर्णय देने को उद्यत होता है। चाणक्य ने उस समय ठीक हो कहा था, “मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्त्तव्य कर लोगे।”

उसकी निर्भीकता का परिचय सिकन्दर के सामने, वीरता का परिचय रण-क्षेत्र में, साहस और धैर्य का परिचय सिंहरण और चाणक्य के उसे छोड़ जाने पर और कृतज्ञता का परिचय सिल्यूक्स को जीवनदान देने से मिलता है। चाणक्य इस नाटक का मस्तिष्क है, इस बात के कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि बुद्धि और पात्रों के बीच में नहीं आई। चन्द्रगुप्त युवावस्था से दूरदर्शी था। सिकन्दर मगध को नष्ट करने के लिए जब अपना जाल फैलाता है और कहता है कि हमारी

सेना तुम्हारी सहायता करेगी तब चन्द्रगुप्त उस वात की गहराई तक पहुँच जाता है और तुरन्त वहुत खरा उत्तर देता है, “मुझे लोभ से पराभूत गांधारराज समझते की भूल न होनी चाहिए। मैं मगध का उद्धार करना चाहता हूँ, परन्तु यवन लुटेरों की सहायता से नहीं।” यवनों से युद्ध करते समय उन्हीं की जीति से लड़ना भी उपर्युक्त रण-कौशल का परिचायक है।

राजा भी मनुष्य होता है-हृदय रखता है। बाह्य जीवन में चन्द्रगुप्त को इतना विकट संघर्ष करना पड़ा है कि उसका अन्तर निरन्तर भूखा रहने से विद्रोह करने लगा है। मालविका को एक स्थान पर उसने हृदय खोलकर दिखलाया है, “युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़कर देखो, मालविका !” प्रेम के सम्बन्ध में चन्द्रगुप्त वैसे बहुतों से अधिक सौभाग्यशाली है। तीन तीन प्राणी उसे प्रेम करने को प्रस्तुत हैं। उसके हृदय में किसी के प्रति विरक्ति अथवा उदासीनता का भाव नहीं है। पोरस-सिकन्दर युद्ध में कल्याणी को प्रणय-चर्चा पर चन्द्रगुप्त का ‘राजकुगारी समय नहीं’ कहना अनुपयुक्त व्यातावरण का संकेत मात्र है, तिरस्कार अथवा खीझ का द्योतक नहीं। मालविका को वह अत्यन्त अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। कल्याणी, मालविका और कानेलिया में से चंद्रगुप्त को कौन सबसे अधिक प्रेम करती है यह कहना कठिन है। कल्याणी घोषित करती है, “कल्याणी ने वरण किया था केवल एक पुरुष को—वह था चन्द्रगुप्त कानेलिया सिल्यूक्स से कहती है “मुझे भारत की सीमा से दूर ले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी” और मालविका चुप चुप सोचती है, “जाओ प्रियतम, सुखी-जीवन बिताने के लिए और मैं रहती हूँ, चिरदुखी जीवन का अन्त करने के लिए।” पर तीनों के

आधिरण से यही मिद्ध होता है कि मालविका का आत्म समर्पण ही पूर्ण था। कार्नेलिया छुगी निकालकर आत्मघात करने के लिए उद्यत होनी है पराजय के अनुमान पर और कल्याणी आत्मघत कर ही डालती है चन्द्रगुप्त के अपने पिता नन्द के विरोधी होने के कारण पर मालविका सचमुच प्राण दे देती है चन्द्रगुप्त के प्यार के लिए। मालविका को चन्द्रगुप्त से प्यारा कुछ नहीं था। कल्याणी और कार्नेलिया को चन्द्रगुप्त ही केवल प्यारा न था। सम्राज्ञी बनती है कार्नेलिया यह चाणक्य की इच्छा थी अथवा विधाना की। चन्द्रगुप्त भी आसक्त है कार्नेलिया पर। मालविका के अन्तर को तो वह कभी पहचान ही न सका। कल्याणी के आकर्षण को वह जानता था. पर वह उसे पतिरूप से प्राप्त करना चाहती थी इसका उसे ध्यान न था। कल्याणी जब उससे अपनी अनन्यता प्रकट करती है तब वह आश्र्य-चुकित होकर कहता है, “क्या यह सच है कल्याणी ?” दूसरी ओर कार्नेलिया के लिये उसके हृदय में अपनी ओर से ध्ययन्ता है। वह उससे मिलता है तो जानना चाहता है कि वह विस्मृत तो नहीं हुआ अथवा विस्मृत तो नहीं होगा ? जैसे अलका को प्राप्त करके सिहरण का, सुवासिनी को प्राप्त करके राज्ञस का उसी प्रकार कार्नेलिया को प्राप्त करके चन्द्रगुप्त का स्वान सत्य होगया।

राज्ञस को लेखक ने ‘कला-कुशल विद्वान्’ कहा है। नन्द की रंगशाला में अपने अभिनय और गान से उसने अपनी कला-ममैज्ञता का परिचय दिया है और कार्नेलिया का वह शिक्षक था इससे विद्वान् भी रहा होगा। इस नाटक में उसकी शक्ति और कायरै को गति प्रदान करने वाली प्रेरणा रही है—सुवासिनी।

सुवासिनी के प्रति उत्कृष्ट लालसा राज्य के मन को प्रसुख उत्कृष्ट है । नन्द की सभा में ही सुवासिनी के प्रति उसके आकर्षण वा आभास मिलता है । आगे चलकर जब सुवासिनी भी कहती है कि 'मैं तुम्हारी हूँ' तब इस सुख को वह सेमाल नहीं सरुता, आँख मींचकर कहता है, "सुवासिनी ! कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम ! मैं हस्तगत करतूँ ? नहीं, राजकोप होगा । परन्तु जीवन वृथा है, मेरी विद्या, मेरा परिष्ठृत विचार सब व्यर्थ है । सुवासिनी एक लालसा है, एक प्रास है । वह अमृत है, उसे पाने के लिये सौ बार मरूँ गा ।" राज्यस वौद्ध-मत का अनुयायी था, पर उस मत का समर्धन वह सुवासिनी को प्रसन्न करते के लिये भी करता था । उसकी हाप्टि में सुवासिनी के सामने साम्राज्य तुच्छ है, देश तुच्छ है । नन्द के कोप का भूँठा संचाद सुनते ही वह कह उठता है, "जाता मगध, कट्टी प्रजा, लुटते नगर । मैं सुवासिनी के लिये मगध को बचाना चाहता था ।" वहाँ राज्य ने अपने हृदय का अच्छा परिचय नहीं दिया । यह पता लगते ही कि सुवासिनी चाणक्य की ओर सुकूप है चाणक्य के प्रति उसकी विद्वेषादिन भमक उठती है । वह कहता है, "तो चाणक्य से किस मेरी टक्कर होगी ।" बड़ून्नकारियों का नेता बनकर वह चन्द्रगुप्त के प्राण लेने का प्रयत्न करता है । वह अपराध राजनीति की हृष्टि से चाहे क्षम्य हो, पर देश के विनाश के लिये वह विदेशियों का सहायक बनता है इस पाष ज्ञा मार्जन तो किसी प्रकार नहीं हो सकता । कार्तेलिया ने ठीक ही कहा था, "मेरे यहाँ ऐसे लोगों को देशद्वारा ही कहते हैं ।"

इस नाटक में चाणक्य और राज्य की कोई समानता नहीं है, न राजनीतिक दाव-पेचों में और न चरित्रबल से । डीग हो-

वह बहुत मारता है । चाणक्य से कुछ कर अपने आप कहता मात्र है, “चन्द्रगुप्त सम्राट् हो सकता है तो दूसरे भी इसके अधिकारी हैं” पर करके कुछ नहीं दिखाता । मुद्रा वाली बात को भी वह नन्द के सामने स्पष्ट नहीं कर सका । सच वात यह है कि प्रसाद जी ने ही राज्य के चरित्र को कुछ इल्का चिह्नित किया है । मुद्राराज्य में भी तो राज्य है । वहाँ वह परास्त होता है पर दैव की प्रतिकूलता ही वहाँ प्रमुख है । वहाँ उसकी पराजय में भी एक गौरव है । प्रसाद का राज्य एक शृङ्खारी वृत्ति का ब्राह्मणदोही, देशदोही बौद्ध है । वह सचमुच राज्य है ।

सिंहरण छोटा चन्द्रगुप्त है—वैसा ही और, वैसा ही निर्भीक, वैसा ही आर्य-राष्ट्र का प्रेमी और वैसा ही आत्म-सम्मान पर चोट न सहने वाला । चाणक्य से प्रस्तुत में ही वह कहता है, “मालवों को अर्थशास्त्र की उत्तरी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की ।” युद्धक्षेत्र में चन्द्रगुप्त के कन्धे से कन्धा भिड़ाकर उसने सदैव अपनी वीरता और सच्ची मित्रता का परिचय दिया है । आम्भीक को जिस निर्भीकता से वह व्यंग्यभरे तीखे उत्तर देता है वे सुनते चोट्य हैं । उसकी इसी निर्भीकता पर तो अतका अपना मन न्यौछाकर कर गई थी । प्रेम में सिंहरण मृगछौता-सा भोला और सौम्य बन जाता है । अपने को किसी को चोपने के उदाहरण में आवश्यकता पड़े तो सिंहरण का नाम लिया जा सकता है ।

नन्द एक विलासी अत्याचारी राजा है जिसे न उचित अनुचित का ध्यान है और न न्याय अन्याय का । जब किसी राज्य का विनाश होने वाला होता है तब शासक ने विलासिता, दर्बरता, अन्याय और मूर्खता के गुण इसी प्रकार एकत्र होजाते

है। आवेश उसके चरित्र की एक दुर्बलता है। उसका विधं इसी दुर्बलता के कारण हुआ है। जब विद्रोही प्रजा उसे देरे खड़ी है तब कुछ देर वह नीति से काम लेता है परन्तु तुरन्त भड़क उठता है। आवेश में आकर ललकारने लगता है “तब रे मूर्खों ! देखो नन्द की निष्ठुरता ।” परिणाम यह होता है कि कुत्ते की मौत मारा जाता है।

आर्यवर्ती की एकता के लिए उत्कट प्रयत्न करने वालों में अलका का बहुत बड़ा हाथ है। चाणक्य के उपरान्त उसी का नाम लिया जा सकता है। भाई के आचरण से असंतुष्ट होने के कारण वह राज्य के सुखों को ठोकर मारकर अकेली निस्सहाय निकल खड़ी होती है। आप वाहें तो इसे भावावेश कह सकते हैं; पर देश-ग्रेम की छाया में यह भावावेश स्वार्थ का पोषण करने वाली बड़ी से बड़ी बुद्धिमत्ता से अधिक मूल्यवान है। चाणक्य के कार्य में विदेशियों के लिये असहनशीलता के साथ ही तृन्त्र के प्रति व्यक्तिगत प्रतिशोध - भावना भी काम कर रही है। पर अलका का त्याग एकदम सात्त्विक और स्वार्थहीन है। द्राघि-प्रेम ही उसके कार्यों का संचालक है। तच्छिला के नागरिकों में अपने उद्दोघन-गीत से प्राण फूँकती हुई अलका क्रितनी महान प्रतीत होती है—

हिमाद्रि तुङ्ग शृङ्ग से  
प्रबुद्ध शुद्ध भारती,  
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला  
स्वतन्त्रता पुकारती ।

“अमर्त्य-वीर-पुत्र हो, दृढ़-प्रतिश सौच लो,  
प्रशस्त पुण्य-पंथ है—बढ़े चलो बढ़े चलो ।”

इस ओजमयी वाणी में हृदय का एक कोमल तार भी चुपचाप बज रहा है—सिंहरण के लिये । सिंहरण ने उसे सुगंध किया है अपने निर्भीक और देश-प्रेमी स्वभाव से । आन्मीक के कुपित होने पर जब अलका सिंहरण से गांधार छोड़ने का अनुरोध करती है और वह उच्चर में कहता है, “मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है । यही क्या, समग्र आर्यावर्त्त है” तब अलका के हृदय का तार भी इस मृदु आघात से फनफना उठता है—“मैं भी आर्यावर्त्त की बालिका हूँ ।” विचारों की यह एकता बहुत स्वभाविक रूप से उन्हे स्नेह के चिरखन्धन में बौध देती है । प्रेम में नित्य नवीनता के लिये जिस शरारत और उसके मार्ग की वाधाओं को पार करने के लिए जिस तुरत-वुद्धि की अपेक्षा होती है, वे दोनों गुण अलका में हैं । वन में सिल्यूक्स और जीवन में पर्वतेश्वर दोनों को वह चकमा देती है और सिंहरण के भावों के साथ जो वह एक स्थान पर खेली है वह निर्मम प्रेम-प्रदर्शन नाटक-कार के शब्दों से ही दर्शनीय है—

सिंहरण—अलका, तब क्या करना होगा ?

अलका—यदि मैं पर्वतेश्वर से व्याह करना स्वीकार करूँ तो सम्भव है कि तुमको छुड़ा दू ।

सिंहरण—मैं ..... अलका ! सुझसे पूछती हो !

अलका—दूसरा उपाय क्या है ?

सिंहरण—मेरा सिर घूम रहा है । अलका ! तुम पर्वतेश्वर की प्रणयिनी बनोगी । अच्छा होता कि इसके पहले ही मैं न रह जाता ।

अलका—कलों मालव इसमें तुम्हारी हानि है ?

सिंहरण—कठिन परीक्षा न लो अलका ! मैं वडा दुर्वल हूँ ।

अलका—मालव, देश की स्वतंत्रता तुम्हारी आशा में है ।

सिंहरण—और तुम पंचनद की अधीश्वरी बनने की आशा में ..  
तब मुझे रणभूमि में प्राण देने की आज्ञा दो ।

अलका—( हँसती हुई )—चिढ़ गये !

सिंहरण—यह भी कोई हँसी है ।

अलका—वंदी ! जाओ सो रहो, मैं आज्ञा देती हूँ ।

देश-प्रेम में सराबोर यह सुन्दर बीर बालिका सिंहरण की  
आवश्यकता से अधिक उपयुक्त जीवन - सहचरी है ।

‘सुन्दरियों की रानी’, कला-मर्मज्ज सुवासिनी शकटार की  
कन्या है और राज्ञस की अनुरक्ता । वह बौद्धमत की अनुयायिनी  
है । राज्ञस के प्रति अपनी अनुरक्ति की हृदृता और अस्थिरता  
दोनों का परिचय उसने अपने जीवन में दिया है । नंद के यह  
कहने पर कि राज्ञस उसका प्रणयी होकर पृथ्वी पर नहीं जी  
सकता सुवासिनी का यह दृढ़ उत्तर कि तब वह उसे खोजने  
स्वर्ग जायगी, हमारे हृदय में उसके प्रति जैसे श्रद्धा उत्पन्न  
करता है उसी प्रकार चाणक्य और राज्ञस की तुलना में चाणक्य  
की ओर उसका मुड़ना हमें एक प्रकार की विरक्ति-भावना से भर  
जाता है । यह सत्य है कि चाणक्य से उसका बाल्यकाल का  
परिचय था पर जब एक व्यक्ति उसके जीवन में पूर्णरूप से  
आ गया था तब उसे हृदय से निकाल फेकना कुछ अस्वाभाविक  
लगता है । किसी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहिले सोच लेना  
चाहिये । पर स्वीकार करते समय तो हम उसकी दुर्बलताओं  
और अभावों के साथ उसे ग्रहण करते हैं । चाणक्य ने उसे  
खँभाल लिया नहीं तो वह राज्ञस को छोड़ बैठती । अच्छा यह

झोता कि लेखक चाणक्य और सुवासिनी के हृदय में एक टीस उठा देता और वस ! चाणक्य के प्रति संयत अंतर्द्वन्द्व राज्ञस के प्रति अन्तर्द्वन्द्व से अधिक मार्मिक होता । अन्त में युनानियों के हाथ से राज्ञस की आत्मा का उद्धार कर सुवासिनी फिर एक-बार हमारी प्रशंसा का पात्र बनती है ।

सिंहरण की सहचरी और राज्ञस की प्रेमपात्री के अतिरिक्त नाटक में जो स्त्री पात्र हैं उनका जीवन और मन चन्द्रगु से गुम्फित है । चन्द्रगुप्त और उन्हें लेकर 'यदि एक अनार और स्त्री वीमार' की कहावत शब्दशः चरितार्थ नहीं होती तो एक अनार और सीन वीमार की तो होती है । कल्याणी चन्द्रगुप्त को चाहती है मालविका उसे प्रेम करती है और कार्नेलिया उस पर आसक्त है । किसी कहानी के लिये यह एक जटिल समस्या हो सकती थी और इसे उठाकर सुलभाने में लेखक की प्रतिभा परखी जा सकती है । पर 'प्रसाद' जी ने इसे सरलता से सुलभा दिया है—सुलभा कग गुत्थी को काट दिया है । कल्याणी आत्मघात कर लेती है और मालविका की चाणक्य हत्या करा देता है, अत. कार्नेलिया का मार्ग स्वच्छ हो जाता है । चाणक्य के समान 'प्रसाद' जी ने इन हो हत्याओं के उपरान्त संतोष के साथ कार्नेलिया से कहा होगा, "कार्नेलिया ! आज तुम निष्कर्षक हुई ।" द्विजेन्द्र बाबू ने भी अपने चन्द्रगुप्त नाटक में समार्ट की दो प्रणयिनी रक्सी हैं—सिल्यूक्स की कन्या हैबन और बनबालिका छाथा पर उन्होंने किसी की भी मृत्यु न कराकर बड़े मार्मिक कौशल से नाटक का अंत किया है ।

कल्याणी के हृदय में केवल तीन भावनाएँ काम करती हैं—चन्द्रगुप्त के प्रति आकर्षण, पर्वतेश्वर के प्रति प्रतिशोध • भावना

और पिता के ग्रन्ति अगाध-प्रेम। पराजय के समय सहायता द्वारा पर्वतेश्वर को नीचा दिखाने के लिये वह सिकन्दर-पोरस युद्ध में सम्मिलित होने जाती है पर कृतकार्य नहीं होती। वहों जाने में उसका एक उद्देश्य चन्द्रगुप्त से मिलन भी था। चन्द्रगुप्त के तज्ज्ञशिला से लौटते समय सब से प्रथम कल्याणी के हृदय का आकर्षण प्रकट होता है। धृष्टि पर्वतेश्वर का वध करते हुए पिता के विरोधी के प्रेम को कुचलना और प्रेम की प्यास में तड़प कर मर जाना कल्याणी के हृदय का मर्मरूपशी अंतर्छन्द है। ऐसे अंत छन्द का परिचय और भी प्रभावशाली और सूक्ष्म रूप में प्रसाद जीने 'आकाशदीप' कहानी की 'चरूपा' के चरित्र में भर दिया गया है।

मालविका सरलता और कोमलता की स्वर्गीय प्रतिमा है। चन्द्रगुप्त को प्रेम करती है, पर उस भाव का आभास तक उसे नहीं देती। वह कभी कुछ पूछ लेता है, उसके लिये किसी आदर-सृचक शब्द का प्रयोग कर देता है और गान सुनाने की उससे अनुनय करने लगता है तो मालविका गदगद हो जाती है और इसी को अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती है। एक बार मालविका ने कहा था, “रनेह से हृदय चिकना हो जाता है, परन्तु विछलने का भय भी रहता है।” विछलन का भय ही नहीं, मरण का मूल्य भी कभी कभी उसके लिये चुकाना पड़ता है विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जैसी स्थिति में मालविका थी और ऐसी भोली बालिका को जैसी भोली मालविका थी और ऐसी संयत प्रेमिका को जैसी संयत प्रेमिका मालविका थी। उसकी हत्या बहुत देर तक पाठकों के हृदय को बहुत विछुब्ध और व्याकुल करती है।

चित्यूक्तस की कन्या कानेलिया का शरीर यूनान का है हृदय भारत का। वह भारतीय सङ्गीत, भारतीय काव्य, भारतीय

देशन और भारतीय संख्युति को इस ममता से अपनाती है, भारत भूमि के प्रति अपना स्नेह इस आवेग के साथ उड़ेलती है कि विधाता ने उसे यूनान में जन्स देकर भूल की है, यहो कहना पड़ता है। चन्द्रगुप्त की प्रेमिकाओं में वही सफल प्रेमिका है। उसका शरीर सुन्दर है, हृदय सात्त्विक है और चरित्र उदार है। भारत-भूमि को वह रक्त-रजिज्जत नहीं देखना चाहती इसमें उसके हृदय की कोमलता और चन्द्रगुप्त की हितकामना दोनों निहित हैं। सिल्युक्स की महत्त्वाकाँक्षा को वह इसी से दबाती रहती है। उसे वह कभी उत्साहित नहीं करती। आत्म-सम्मान की भावना भी उसमें प्रश्वल है। कार्नेलिया के हृदय में भी एक घार इस भवना की प्रेम से टक्कर होती है, “चिन्ता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। आत्म-सम्मान—ग्रीस का आत्म-सम्मान जिए !” (छुटी निकालती है) —पर उसी ज्ञान मन रोता है, “तो अन्तिम समय एक घार नाम लेन में कोई अपराध है ?” चन्द्रगुप्त को प्राप्त करके कार्नी का प्रथम गान मानो सार्थक होगया ।

अरुण यह मधुमथ देशा हमारा ।

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलतो एक सहारा ॥

‘प्रसाद’ ने जब ‘चन्द्रगुप्त मौर्य’ का प्रणयन किया उससे पहले दो प्रसिद्ध नाटक चाणक्य के चरित्र को लेकर हिन्दी में थे—एक विशाखदत्त का ‘मुद्राराज्ञस’ नाटक जिसका अनुवाद भारतेन्दु ने किया और दूसरा द्विजेश्वलाल राय का चन्द्रगुप्त मौर्लिक नाटक जिसका अनुवाद भी हिन्दी में हुआ। मुद्राराज्ञस के बल राजनीतिक नाटक है। प्रसाद के नाटक की वह समता नहीं कर सकता। पर हिन्दी के कुछ आलोचकों ने ‘प्रसाद’ की प्रतिभा से अत्यधिक आतंकित होने के कारण राय के नाटक को

भी तुच्छ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है जो न्यायसङ्गत नहीं है। कोई माने अथवा न माने, पर सच वात यह है कि 'प्रसाद' जी ने विशाखदत्त और डी. एल. राय दोनों से पूरा-पूरा लाभ उठाया है, मुद्राराज्ञस से तो कम पर राय महोदय के नाटक से अत्यधिक। शक्टार के बन्दी होने और उसके सात पुत्रों के प्राण विसर्जन तथा पर्वतक को चन्द्रगुप्त की सहायता के लिए लोभ देकर मगध में लाने की कथा का सङ्केत चाहे भारतेन्दु की 'पूर्व-कथा' से न मिल कर किसी अन्य स्थल से मिला हो, पर मुद्रा और जाली पत्र द्वारा राज्ञस का अनिष्ट-चिन्तन मुद्राराज्ञस की प्रमुख घटना है जिसका प्रयोग 'प्रसाद' के नाटक में भी है। सँपेरा बनने का भाव भी मुद्राराज्ञस नाटक से लिया गया है। द्विजेन्द्र बाबू के नाटक को पढ़ने के उपरान्त यदि 'प्रसाद' का नाटक पढ़े तो बहुत-सी छोटी-मोटी बातें ताज़ा होती जाती हैं। इतर जाति की अवहेलना राय का चाणक्य भी नहीं सहन कर सकता और जिस प्रकार नन्द के सभासदों को वह कुत्तों के दल के नाम से पुकारता है उसी प्रकार 'प्रसाद' का चाणक्य भी प्रतिहार को कुत्ता कहता है। सिंहरण राय के चन्द्रकेतु का रूपान्तर है और चन्द्रगुप्त से रुठ जाने पर भी दोनों नाटकों में यह पात्र ग्रीकों के आक्रमण के समय बिना बुलाये अकस्मात् चन्द्रगुप्त की सहायता को पहुँच जाता है। 'प्रसाद' का फिलिप्स राय के एटीगोनस का प्रतिरूप है-एक उद्धत अशिष्ट सैनिक, सल्यूक्स की कन्या को स्पर्श करके अप्रसन्न करनेवाला, प्रणय में चन्द्रगुप्त का प्रतिद्वन्द्वी-पर राय ने ऐरटी के चरित्र का जो मार्मिक विकास दिखाया है उसकी छाया भी 'प्रसाद' के फिलिप्स में नहीं। प्रसाद की कानेलिया ने अपने पिता की मखौल उड़ाना भी राय की हैलन से सीखा है। सिल्यूक्स कुछ

विद्वान् न था । उसके विचार से पढ़ने से मौलिकता नष्ट होती है । सैनिकों को अध्ययन से अधिक रुचि भी नहीं होती । इसी से राय के नाटक में बात का महात्म्य बढ़ाने के लिये अपनी बात के साथ वह कभी 'ऐरिट्रफेनिस' और कभी 'सफोल्किस' का नाम जोड़ देता है जिससे वह अपनी विदुषी कन्या द्वारा पकड़ा जाता है और परिहास का कारण बनता है । कार्नेलिया उसकी असफल नकल है । वह हास्य उत्पन्न करने में असमर्थ सिद्ध होती है । राय के कात्यायन का स्थान राज्ञस लेता है । वह भी सिल्यूक्स को भड़काता है और हैलन जिस प्रकार उसकी प्रवृत्ति को पहचान कर उसे राजद्रोही, देशद्रोही और धर्मद्रोही कहती है, उसी प्रकार प्रसाद की कार्नी भी राज्ञस को 'देशद्रोही' कह लेती है । अपने क्रूर कर्म पर चारणकथ के पश्चाताप की बाणी दोनों नाटकों में बहुत कुछ एक-सी है और भारत-भूमि के सुखद सौन्दर्य का वर्णन भी एक ही हृदय ने लिखा है । जिन्होंने राय के बङ्गला नाटक को नहीं पढ़ा है वे 'प्रसाद' के नाट्य रूला-कौशल पर एक स्थान पर बहुत मुग्ध होंगे । प्रथम अङ्क के बिलकुल अन्त में 'चन्द्रगुप्त आश्र्य से कार्नेलिया को देखने लगता है ।' वहाँ एक शब्द भी न कहला कर नाटकार ने आकर्षण को जन्म दिया । पर इस कौशल ( art ) का प्रयोग भी राय के चन्द्रगुप्त नाटक में हुआ है । निदाघ से समुज्ज्वल संध्यालोक में सिन्धुनद-तट पर हैलन को सर्व प्रथम हम सिल्यूक्स के पार्श्व में मौन भाव से उपस्थित पाते हैं जहाँ सूर्य की रश्मियाँ उसके मुख पर फिसल कर स्वयं उज्ज्वल हो रही हैं । थोड़ी देर में वहाँ उसने सिकन्दर के समक्ष युवक चन्द्रगुप्त के कठोर वार से ऐण्टीगोनस की तलावार गिरती देखी । यद्यपि नाटकार ने उससे कुछ कह लाया नहीं है और न उसके किसी हाव का सङ्केत किया है,

परन्तु हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि वह चन्द्रगुप्त की बीरता, निर्भीकता एवं सरल सत्यता पर चकित हुई होंगी क्योंकि आगे चल कर एकान्त में वह सिन्धुनद तीर के गदिमामय सूर्योस्त का स्मरण कर लिकल हो जाती है। इतना लिखने का तत्पर्य यह नहीं है कि 'चन्द्रगुप्त मौर्य' लिखते समय 'प्रसाद' जी शब्द महोदय के सामने पड़ी लेकर बैठ गये थे, पर छोटी—छोटी बातों के लिये किसी व्यक्ति के नाम पर 'प्रतिभा' 'प्रतिभा' की रट लगाना हास्यास्पद है।

चन्द्रगुप्त नाटक का कथानक अभिनय की दृष्टि से बहुत लम्बा है। आधे से भी अधिक पृष्ठों में सिकन्दर का बखेड़ा है। नाटक में चार अङ्क हैं और तीसरे अंक के मध्य में वह विवा होता है। चन्द्रगुप्त में जितना कथानक है वह दो नाटकों के लिए पर्याप्त है। द्विजेन्द्रलालगाय ने इस सम्बन्ध में संयम से काम लिया है। फिर भी कथानक में कहीं शिथिलता नहीं है। नन्द का वध इस नाटक की तीव्रतम् ( intense ) घटना है, क्योंकि चन्द्रगुप्त का राज्य-स्थापन ही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है जिसकी भूमिका यद्यपि कुछ पहिले से बैधती है पर समारम्भ राज्यारोहण से ही होता है। सिकन्दर के भमेले में उस घटना तक पहुँचने में आवश्यकता से अधिक देर लगती है। इस दृष्टि से इस नाटक में सिकन्दर का आक्रमण और चन्द्रगुप्त का पञ्चाच में रुकना चुनी हुई दो—चार नाटकीय घटनाओं के दृश्य उपस्थित न कर जीवन—गाथा ( Autobiography ) के अध्याय से खोलते हैं जो नाटक की सीसित भूमि के लिए अनावश्यक हैं। कहीं—कहीं काल और स्थान सम्बन्धी दोष भी बड़े विकृत रूप में आया है। चतुर्थ अंक के पॉच्वे दृश्य में चारक्य चन्द्रगुप्त से अप्रसन्न होकर चला जाता है और आगे के दृश्य में ही वह

सिन्धु तट पर कात्यायन के साथ बातचीत करता दिखाया गया है। इतनी जल्दी पाटलीपुत्र से सिन्धु तट पर चाणक्य उछलकर कैसे पहुँच गया ? विपत्तिग्रस्त प्राणी के त्राण के लिए सहायक को तुरन्त ही अस्वाभाविक रूप से पहुँचाना इस नाटक में भी बना हुआ है। सिहरण सिल्यूक्स की छीना—झपटी से अलका झो, चन्द्रगुप्त फिलिपस की धृष्टदत्त से कार्नेलिया को और रात्तस नाट्क के अत्याचार से सुवासिनी को—उत्पर्य वह है कि प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाने के लिये कहीं न कहीं से कूद ही पड़ता है। भाषा में सरलता अवश्य आगई है। केवल भावावेश में ही भाषा संस्कृतगमित निकली है, पर व्याकरण की भूलें रह गई हैं जैसे 'कहीं ठोकर मार दिया' और कहीं "इसके स्वतन्त्रता की आवश्यकता ।" कल्याणी और मालविका को तो उन्होंने इत्त लिये मार डाला है कि वे उन्हे जीवित रखना नहीं जानते थे।

'चन्द्रगुप्त' यूनान और भारत की बुद्धि और शक्ति-परीक्षा का उद्देश्य संम्मारक है। जैसा कार्नेलिया ने कहा है 'यह अरस्तू, और चाणक्य की चोट है।' सिकन्दर और चन्द्रगुप्त जिनके अलौ हैं। विजयी होते हैं चाणक्य और चन्द्रगुप्त अर्थात् भारत। इस नाटक का सब से प्रमुख स्वर है 'राष्ट्रीयता' जो हमारे भूतकाल का गौरव वर्त्तमान का स्वधन और भावज्य का गर्व है। चन्द्रगुप्त नाटक 'प्रसाद' के अन्य नाटकों की अपक्षा नाटक शब्द के अधिक निकट है। वह कोय साहित्यिक नहीं है। ऐतिहासिकता की रक्षा तो इसमें अत्यन्त विद्यमान और शल से हुई है। राजनीति भी कोरी राजनीति, स्वत्वी राजनीति नहीं है। प्रेरा की वहा अनन्त लहरों से इस वालुका-राशि को सन्तुष्ट कर रही है। 'प्रसाद' जी अपनी मुजाओं में यदि अधिक सामग्री को समेटने का प्रयत्न न करते तो 'चन्द्रगुप्त' की गणना अत्यन्त सफल नाटकों में होती।

## शैक्षणिक दृष्टि

एक परिवार में नारी का माता, पत्नी 'बहिन और पुत्री का स्वरूप कैसा वरदान-सा, कैसा मधुर, कैसा पावन और कैसा भमता-भरा है ! घर से बाहर समाज-सेविका और लोक-संविधान का स्वरूप भी अत्यन्त श्रद्धास्पद है। नारी के आकिस भैं बैठने पर भी तर्क तो नहीं किया जा सकता। बाहर और घर को जोड़ने वाला, नारी का सेवा-सम्बन्ध-महतरानी कहारिन नाइन, मनिहारिन, मालिन, पनिहारन के रूप में-हमारी अनेक असुविधाओं और उनके जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। पर नारी के वेश्या रूप पर जैसे नारी शब्द सङ्क्लोच के कारण अपने ही में समा जाना चाहता है। हाट में न जाने क्या-क्या बिकता है कौन गिना सकता है ? भविष्य में मनुष्य की नवीन-नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन नवीन वस्तुओं का निर्माण होगा। वे हाट में आवेंगे। पर हाट में शरीर बिकता है, यौवन बिकता है, रूप बिकता है यह अत्यन्त प्राचीन काल से विश्व की सभ्यता के लिए कितने बड़े कलंक की बात है ! नारी पर किये गये समाज के अनेक अत्याचारों में से यह एक शान्त भीषण अत्याचार है। ज्ञानस्थायी रूप की चमक विलीन होने पर वेश्याओं के जीवन में जो दयनीय परिस्थिति आती है, वह किसी भी बड़े नगर में देखी जा सकती है। काशी में इसकी माँकी विश्वनाथ के मन्दिर के आसपास-महादेव भगवान् शिव के कल्याणकारी निवास-स्थान की परिष्ठि में, अथवा पतित-पावनी पुरुष-सलिला भागीरथी के दशाश्वमेध घाट पर यौवन का स्वरूप हर लिए हुए वृद्ध भिखारिनियों के जमघट में भाँकने से मिल सकती है। प्रेमचन्द्रजी की आँखों से यह दृश्य कैसे छिप

सकता था ? भारतीय समाज की दुर्बलताओं को अत्यन्त स्पष्टता से लिपिबद्ध करने वाली लेखनी इसे अद्वित किये बिना कह से शान्त रह सकती थी ? 'सेवासदन' वेश्यावृत्ति का विश्वलोग करने वाला एक सामाजिक समस्या उपन्यास है ।

वेश्या, वेश्या क्यों बनती है यह सेवासदन की नायिका सुमन को देखने से जाना जा सकता है । यिसी कुप्रथा के प्रचलन में समाज की अनेक कुप्रथाएँ सहायक होती हैं । हिन्दुओं में दहेज़ की प्रथा भी एक ऐसी धातक प्रथा है । दारोगा कृष्णचन्द्र को अपनी पुत्री सुमन के विवाह के लिए दहेज़ की राजसी प्रथा का मुँह भरना आवश्यक होता है । वह रिश्वत लेता है और जेल जाना है । सुमन का अच्छे घर विवाह नहीं हो पाता, और दुर्भाग्य से दम्पत्ति के स्वभाव कहीं मेल नहीं खाते—दोनों ३६ के अड्डे जैसे । सुमन में अपव्यय की प्रवृत्ति थी, गजाधर दरिद्र था और कृपण भी सुमन हँसमुख थी, गजाधर शंकारील, सुमन स्वभाव से गर्विणी थी, गजाधर उजड़ और लापरवाह दोनों में कलह प्रारम्भ हुआ और दाम्पत्य जीवन विषमय हो गया ।

विषमता के विष को तीखा करने में—सुमन के पतन में—बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव का बहुत बड़ा हाथ है । उसके महितङ्क पर इतने आधात हुए हैं कि वह चुर्ण हो गया है और उसे बहा ले गया है । सुमन के घर के सामने एक वेश्या रहती थी । नाम था भोली । पहिले वह वेश्याओं को बहुत बुरा समझती थी । एक रात भोली एक धार्मिक उत्सव मनाती है । उसमें उसका पति भी सम्मिलित होता है और उसके मुख से ही वह सुनती है कि वहाँ जाने में नगर के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग संझोच का अनुभव नहीं करते । यह उसकी घुणा-भावना पर पहिला सीधा

आघात है। पर जब सुमन भोली के यहाँ आती जाती और मेल बढ़ाती है तो गजाधर अप्रसन्न और स्थृ होता हूँआ उसे वरवशा वहाँ जाने से रोकता है और समझाता है कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों से उसका तात्पर्य धनी लोगों से था और वे सभी अधार्मिक और पाखण्डी हैं। धन छोटा है, धर्म बड़ा है। सुमन की धर्म - भावना जगती है। एक दिन वह मन्दिर जाती है। वहाँ देखती है धर्म-त्माचारों को, उनके भगवान् को और उनके सामने नृत्य करते और उन्हें रिक्षाते भोली को। तब पता चलता है 'भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता धर्म भी उसका कृपाकाढ़ी हैं।' यह दूसरी गहरी चोट बैठती है। इसके बाद वेनिया बाग की बेड्च बाली घटना पर सुमन फिर एक बार अपनी दरिद्रता के कारण अपमानित होकर भोली के सामने तुच्छ सिद्ध होती है। वहाँ पद्मसिंह शर्मा उसका त्राण करते हैं। उनकी गाड़ी में बैठकर घर तक आती है और आँसू पोंछने के लिए बड़े गर्व से भोली से आँखें मिलाती है। पर इन पद्मसिंह शर्मा के यहाँ भी जब भोली का मुजरा होता है तब तो वहाँ की उत्सुक बिलासी आँखों को देखकर वह चकित हो जाती है। इस ठेस का सँभालना उसे कठिन पड़ता है। वहाँ से लौटती है तो गजाधर के रुखे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वह अविवेकी उसे घर से निकाल देता है। पद्मसिंह की शरण में उसे कुछ सान्त्वना मिल सकती थी पर लोकनिन्दा के भय से वहाँ भी उसे स्थायी आश्रय नहीं मिलता। बिवश होकर-अनुभव का, धर्म का, धन का, सज्जनता का, अविवेक का, 'लोक-निन्दा का धक्का खाकर—वह भोली के चंगुल में फँस जाती है। सुन्दरी वह थी ही, बाक्-पदु वह थी ही, सङ्गीत प्रेमिका वह थी ही, रसज्ञा वह थी ही, रूप-प्रदर्शन की दुर्बलता और सुख-भोग की अवाध आकाँड़ा उसमें थी ही।

इस प्रकार कुछ अपनी दुर्बलता और अनुभव हीनता ने, कुछ इसके पति के अविवेक ने और सबसे अधिक परिस्थितियों के भैंवर ने उसकी लड़ा की जौका को छुबा दिया। गृहिणी वेश्या घन गई।

पर प्रेमचन्द्रजी के सामने बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि इनका खुधार कैसे हो सकता है ? इसके लिए उन्होंने कई प्रस्ताव रख्ये हैं। सब से सरल उपाय है वेश्या-गामियों को समझाना। इसके लिए उन्होंने उपदेश-बृत्ति से काम लिया है और वेश्याओं को समाज के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली अनेक भयद्वार अपराधों की जननी और दाढ़पत्य जीवन के मधुर सम्बन्ध में विष घोलने वाली काली नागिन घतलाया है; पर देखते हैं कि केवल इससे काम नहीं चलने का। दूसरा उपाय है वेश्याओं को सावजनिक स्थानों से हटाना और उत्सर्वों में उन्हे सम्मिलित न होने देना। इस उपचार की प्रभावशारीक में उनका गहरा विश्वास था और वे समझते थे कि इस उपाय से चाहे इस प्रथा का समूल नाश न हो, पर ऐसी दशा में बहुत कम और अस्यन्त निर्लंज लोग ही नगर से दूर एकान्त स्थानों में जा सकेंगे। म्यूनिसपेल्टी के हिन्दू मुसलमान मेम्बरों की पृथक् - पृथक् गर्म वहस इसी प्रस्ताव को लेकर होती है। मनुष्यका स्वार्थ इनना प्रष्टल है कि वह उसके लिए सब कुछ करने को तत्पर रहता है। मेम्बरों से से इस प्रस्ताव को कोई जनीतिक रङ्ग देता है, कोई आर्थिक और कोई धर्मिक। कोई निर्लंज इस प्रथा का मकान से जाली के समान सामाजिक अनिवार्यता घतलातर है, कोई रसिक वेश्याओं को सङ्गीत-कला की संरक्षिका समझता है और सौन्दर्योपासकों की तो न हिन्दुओं में कमी है और न मुसलमानों में। परिणाम यह होता है कि प्रस्ताव वहीं का वहीं रह जाता है। अगरे चलकर जब प्रस्ताव

पास होता है तो तरमीम ( amendment ) के साथ जिसका पास होना न होना बरावर है। तीसरा उपाय है वेश्याओं को इस नारकीय जीवन से मुक्त करने के लिए आर्थिक सहायता करना और उन्हें सदाचरण की शिक्षा देना। पर सुमन के सम्बन्ध में वे देख चुके हैं कि ऐसे कामों के लिये धन जुटाना बड़ा कठिन कर्म है। यदि सुमन जैसी किसी वेश्या के लिये किसी व्यक्ति की उदारता पिघल भी गई तो और सभी का निस्तार कैसे होगा? चौथा उपाय है वेश्याओं को विधवाश्रम में स्थान देना और उन्हें शिल्प की शिक्षा देकर जीवकोपार्जन के योग्य बनाना। पर वेश्याओं के आश्रम में आने पर रूप की चाट में अनेक बहानों से विषय-लोकुपों के एकत्र होने की परी आशंका है। नियन्त्रण रखना कठिन है। और अन्य दुखियाएँ जो आश्रम में रहती हैं वे उनके साथ रहना कभी पसन्द न करेंगी। परिणाम यह होगा कि विधवाश्रम अथवा अनाथाश्रम कुछ दिनों में व्यक्तिगत वेश्यालय बन जायेंगे। अंत में प्रेमचन्द्र जी ने वेश्याओं को नगर से दूर रखने में ही कल्याण समझा है। इसी से उपन्यास के अंतिम पृष्ठों में वेश्याओं में सद्वृत्ति जाग्रत कर, दालमंडी को खाली करा कर अलईपुर को बसा दिया है और सेवासदन का स्थापना कर दी है।

यह 'सेवासदन' का ढाँचा है जिसके भीतर सुधारवृत्ति को लक्ष्य करके शुक्लजी ने प्रेमचन्द्रजी को प्रचारक ( Propagandist) कहा। सेवासदन में समाज के एक गलित अङ्ग का उपचार है और फिर प्रेमचन्द्रजी ये बहुत बड़े आदर्शवादी। ऐसी दशा में प्रचार-भावना को दबाना कठिन ही है। इतना होने पर भी इस ढाँचे में प्रेमचन्द्रजी का अपना रङ्ग है। उपन्यास को पढ़कर कोई नहीं कह सकता कि इसके पात्र ऊपर से जोड़े हुए या ढूँसे हुए लगते हैं। सुमन के चरित्र का विकास बहुत दबा-

भाविक ढङ्ग से हुआ है और उसके चरित्र का उत्थान-पतन ही इस उपन्यास का शृङ्खला है ।

सुमन 'सेवासदन' की प्राण है । कुण्डणचन्द्र और गङ्गाजली उसके माता-पिना हैं, जान्ही और उमानाथ उसके मामी-मामा, गजाधर उसका पति है, मदनसिंह का पुत्र सदन उसका प्रेमी, शांता, उसकी बहिन है विट्ठलदास उसके उद्घारकर्ता, पद्मसिंह उसके पतन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं, भाली प्रत्यक्ष रूप से । तात्पर्य यह कि सेवासदन का प्रत्येक पात्र किसी न किसी प्रकार सुमन से सम्बन्धित है ।

सुमन के सम्बन्ध में उपन्यासकार ने प्रारम्भ में ही कहा है कि वह 'सुन्दर, चञ्चल और अभिमानिनी' थी । सुन्दरता और चञ्चलता ने उसे वेश्या बनाया । अभिमान का भी इस पतन में होथ था । अभिमान पतन का स्नेही है । उसके हृदय का यह अभिमान कि वह सुख से पली है दुःख में क्यों रहे ? पद्मसिंह के यहाँ से देर मेर लौटने पर गजाधर की अप्रसन्नता को न सहने वाला यह अभिमान कि क्या वही उसका अनन्दाता है, जहाँ मजूरी करेगी वहीं पेट पाल लेगी और घर से निकलने पर यह अभिमान कि सिर पर चाहे जो पड़े वह घर लौट कर न जायगी उसे पतन की ओर ले जाता है ।

मानसिक वृच्छियों के सूक्ष्म विश्लेषण और उनके उत्थान-पतन के स्पष्ट वित्र अंकित करने में ही प्रेमचन्दजी की उपन्यास-कला की शक्ति निहित है । सुमन के पतन में श्रेष्ठी दिखा चुके हैं कि किसी आकस्मिक झटके से नहीं, मौलूद की घटना, मन्दिर की घटना, बेनिया-बाग की घटना, पद्मसिंह के घर मुजरे की

घटना, पति के रुखे व्यवहार की घटना, पंजासिह के यहाँ आश्रय न मिलने की घटना और भोली के घर मे पहुँचने की घटना अर्थात् सात घटनाओं के प्रहार के उपरान्त सुमन का मन बेश्या का मन बना है। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़े होने वाले किसी प्राणी को कोई धक्का दे और ढलकाऊ चट्टानों पर लुड़कता हुआ वह जहाँ सँभलने का प्रयत्न करे वहीं पीछे से धक्का मिले तो कहाँ तक सँभल पावेगा ? इसी प्रकार उसकी मानसिरु वृत्तियों का जो उत्थान हुआ है वह भी धीरे धीरे । बिट्ठलदास पहिले उसे समझाने जाते हैं तो उन्हे आड़े हाथों लेती है । फिर दालमण्डा छोड़ती है । पहिले लेखक उसके वेश मे परिवर्तन दिखलाता है । फिर उसे सेवा मे लीन करता है । बीच से वह आत्म—हृत्या की बात सोचती है, पर गजानन्द की प्रेरणा से जीवित रहती है । फिर धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन, देवोपासना और उनान आदि से वृत्तियों को शान्त और हृदय को उज्ज्वल करती है । तब कहीं प्रेमचन्दजी उसे सेवा—सदन की संचालिका के रूप मे प्रतिष्ठित करते हैं । जिसे इतने ऊँचे से ढकेला था, उसे उतनी ऊँचाई पर विठाने के लिए सेवा के सोपानों पर धीरे धीरे चढ़ाते हैं । 'सेवा—सदन' सेवा द्वारा पाप का प्रायश्चित्त है ।

सदन आधुनिक जमीदारों के लड़कों के गुण—अवगुणों का प्रतिनिधि है—बलिष्ठ, रूपवान, मन्दबुद्धि, उदारण्ड । गांव से नगर में आया है अतः वहाँ की हवा लगते ही फेशनेबुल और असंयमी बन जाता है । सुमन और शान्ता दोनों बहिनों से उसका सम्बन्ध रहा है—शान्ता से पति का सुमन से प्रेमी का । सुमन के प्रति उसे आकर्षण होता है—यौवन की उदाम वासना ही उसमें प्रमुख है । उसे प्रसन्न करने के लिये पिता से रूपये मँगवा कर वह साझी भेंट करता है और चुराकर सुभद्रा के कङ्गन दे आता ।

है। सुमन अपने संयम से उसके दुरुत्साह को रोकती रहती है। परंपरागत सामाजिक मान्यताओं को वह नतमस्तक होकर स्वीकार करने वाला है। इसी से जिस सुमन को वह प्यार करता है उसकी चहिन का पत्नी के रूप में ग्रहण करने में हिचकता है क्योंकि इससे उसके कुल की अप्रतिष्ठा होने की आशङ्का है। शान्ता और सुमन का सदन के हृदय में आना जाना एक दम विपरीत ढङ्ग से हुआ है। सुमन के प्रति पहिले उसे प्रेम उत्पन्न होता है किर सहानुभूति फिर उपेक्षा। शान्ता के प्रति पहिले उपेक्षा रही है, फिर दया, फिर प्रीति। यह सत्य है कि सदन में आत्म - बल भी है और उद्यम - शक्ति भी। आत्म - निर्भरता के कारण ही वह नात्र के धन्धे से अपने पैरों पर खड़ा होता है। लेखक ने उसे 'अव्यवस्थित' बुद्धि वाला चित्रित किया है और विचार - स्वातंत्र्य की हीनता भी उसमें दिखाई है। प्रो० रमेश का व्याख्यान सुन कर वह निर्णय करता है कि वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। अबुलबफा का व्याख्यान सुनना है तो इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इन से हमारा बड़ा उपकार हो रहा है। एक क्षण में पवित्र विचार उसके हृदय में आते हैं, रूप देखना है तो फिर वह जाता है। दूसरे क्षण फिर आत्म - गतानि उदित होती है और फिर लालसा उमड़ आती है। उपन्यास के अन्त में सुमन के प्रति उसकी उपेक्षा एक दम क्रूर है और संसारी प्रेम की निस्सारता घोषित करती है।

शान्ता को दुर्भाग्य ने बहुत पीसा है। शान्ता उस प्रकार की लड़कियों में से है जो अपने अपगाध के कारण नहीं, दूसरों के अपराध के कारण दुःख उठाती हैं। सुमन के विवाह की चिन्ता में उसके पिता जेल चले जाते हैं, अतः पिता का आश्रय उठ जाता है। माता के साथ ननिहाल जाती है तो ऋक्षा मामी के

दुर्व्यवहारों के कारण रोते ही बीतती है। इस पर भी वीमारी में दबा-दाढ़ न होने से स्नेह की शीतल छाया, ममता की मूर्ति भा चल बसती है। उसकी यासी उसे फिर वाक्य वाणी से लैटी है। सदन के साथ सम्बन्ध यक्का होता है, पर यह पता चलने पर कि वह एक वेश्या की वहिन है उसके श्वसुर मदनसिंह बारात लौटा ले जाते हैं। उसके पत्र लिखने पर पद्मसिंह शर्मा उसे लेने आते हैं। वह समझती है अब सुख से रहेगी, पर विधवाश्रम में उतार दी जाती है। सदन से उसकी भेट होती भी है, पर कुल-मर्यादा के ध्यान से सदन उसे बहुत दिनों तक ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार शांता के ऊपर जीवन के प्रभात में ही दुःख का पहाड़ ढट पड़ा है। यह सब कुछ सहा है उसने अपने आत्म-बल से इस आत्मबल का परिचय उसने दूसरे विवाह के लिये प्रस्तुत न होकर दिया है। रेल में हिन्दुओं की विवाहप्रथा पर आचेप करते देख ईसाई लेडियों को जो आत्म-विश्वास से भरा हुआ उसने उत्तर दिया है उससे उसकी सतीत्व-भावना टपकती है। पर यह कहने को हमें बाध्य होना पड़ता है कि सुमन के साथ जो अन्त में उसने उपेक्षा का व्यवहार किया है वह एक दम क्रूरता का परिचायक है। सुमन के प्रयत्न से ही वह सौभाग्यशालिनी बनती है, इस बात को वह कितनी जल्दी भूल जाती है! तीनों प्रोणी एक घर में बड़े सुख से रह सकते थे। चाहे लोक-लज्जा के भय से, चाहे सुमन पर अविश्वास के कारण और चाहे सदन के आचरण पर गुप शंका के कारण उसने सुमन को निकलने पर बाध्य किया हो, पर है यह शान्ता की बहुत बड़ी कृतधनता, बहुत गहरी निर्ममता, और उसका बहुत ओच्छाह व्यवहार। खी जिसे प्रेम करती है उसके लिए तो प्राण दे सकती है, पर अन्य व्यक्तियों के प्रति उसका व्यवहार सदैव अनिश्चित

रहता है, नारी-चरित्र की यह मानसिक सङ्कीर्णता ( Narrow-mindedness ) क्या धार्शर्य का विषय नहीं है ?

‘सेवासदन’ सुमन, सदन और शान्ता के चरित्रों के ‘इंट, चूना, गारे’ से निर्भित हुआ है। अन्य पात्रों में पञ्चसिंह शर्मा भ्रातृप्रेमी, सङ्कोची स्वभाव के एक सज्जन व्यक्ति हैं जिनके संकल्पो में हृदय नहीं। विद्वत्तदास लगन के पक्के और सच्चे समाज-सुधारक हैं। किसी सज्जन व्यक्ति का विषम परिस्थितियाँ कहाँ तक विनाश कर सकती हैं इसके प्रत्यक्ष उदाहरण दारोगा कृष्णचंद्र हैं।

‘सेवासदन’ की भाषा ‘गवन’ और ‘गोदान’ के बीच की है। सरल होते हुए भी साहित्यिक है। प्रेमचन्द जी का यह प्रयत्न कि हिन्दुओं से वे हिन्दी और मुसल्लमानों से उदूँ बुलबावें एक सीमा तक स्वाभाविकता की दृष्टि से बॉलनीय है, पर ‘सेवासदन’ में ज्यूनिसपैश्टी के मुसल्लमान मेम्बरों की बहस में सौलधीपन आगया है। हिन्दू मेम्बर भी यद्यपि परिष्कृत और साहित्यिक हिन्दी का प्रयोग करते हैं, पर मुसल्लमान मेम्बर तो ऐसी उदूँ बोलते हैं जिसका पूर्ण आशय उदूँ के अच्छे जानकारों की समझ में ही आसकता है। यह ध्यान देने की बात है कि बातचीत हो रही है और बहस हो रही है। ऐसे अवसर पर मुख से भाषा अनायास अपेक्षाकृत सरल निकलती है। लिखित भाषण भी समझाने के लिए होते हैं और इतने कठिन नहीं होते। बात यह है कि प्रेम-चन्दजी उदूँ का परित्याग कर हिन्दी के ज्ञेत्र में उतरे थे। मुसल्लमानों और उदूँ के प्रेमी हिन्दुओं ने तो उनकी कलम की करामत दख्खी थी, पर हिन्दी - सेवी इस सौभाग्य से बच्चत थे। उन्हें यह जानने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था कि मुनशीजी उदूँ कैसी लिखते होंगे ? हिन्दू होने से मुसल्लमानों की टक्कर की उदूँ लिख पाते होंगे कि नहीं ? उस बहस से उक्त सन्देह के दूर होने का,

यदि वह किसी के हृदय में रहा हो तो पूरा जवास्तर मिलता है ।  
बानगी देखिये—

१—जवाने तेज़ ममलेहत के हकू मे जहरे कात्तिल है । मे शाहिदने तननाज़ु को निजामे तमदून पे बिलकुन वेकार या मायएगर नहीं समझता ।

२—मैं इनकी रेशाद्वानियों से बदज़न आगया हूँ ।

३—मैं इखराज की तहशीक पर एतराज़ु करने की जुरशत कर सकता हूँ ।

वेश्याओं की समस्या को सुलझाने के अतिरिक्त प्रेमचन्दजी ने इस उपन्यास में दहेज़-प्रथा तथा विवाहोत्सव में अपन्यय को अनिष्टता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है । घर के भीतर सड़िमलित कुटुम्ब की दुर्दशा को जैसे खोलकर दिखाया है उसी प्रकार बाहर महन्तों और सम्पादकों पर भी नुक्से कसं है । नवीन सभ्यता के अशुभ प्रभाव और कुछ कटूर मुसल्मानों के हृदय की सङ्कीर्णता के जो चित्र खींचे हैं वे भी ध्यान देने योग्य हैं । समाज का पाखण्ड, ढोंग और अत्याचार तो पद-पद पर प्रकट होता है ।

इस आदर्शवादी व्यक्ति की रचनाओं में जो ताज्जगी सदैव बनी रहेगी उसका मुख्य कारण है मानव-श्वभाव की उसकी खरी परख । इसी परख के बल पर क्या सेवासदन और क्या प्रेमचन्दजी की अन्य कृतियाँ विभिन्न रूचि के व्यक्तियों द्वारा चिरकाल तक पढ़ी जायेंगी । प्राणी न देवता है और न दानव इस साधारण तथ्य से उनका कैसा अच्छा परिचय था ? कृष्णचन्द्र जब जेल-जीवन से जौटते हैं तब कैसे छिछोरे सिद्ध होते हैं ? बिहूल और पद्मसिंह ऐसे व्यक्ति भी हैं जो वेश्याओं के घणित जीवन को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं और अन्य प्राणियों की भाँति धूणा न कर उनके आत्म-कल्याण के कार्य में इत होते हैं । माता—पिता का हृदय देखना हो तो मदनसिंह और भामा

को देखना चाहिये । सदन ने शान्ता से विवाह कर लिया इस पर मदनसिंह अप्रसन्न हो गये । अपने लड़के को वे 'भ्रष्ट, शोहदा, लुचा, कपूत' बतलाते हैं, उससे उदासीन हो जाते हैं । पर जब नाती के जन्म की वत सुनते हैं तो घट दौड़े जाते हैं । प्रेम में बँटवारे की आशङ्कामात्र पर रमणी तिलमिला जाती है और उचित अनुचित का विचार नहीं करती इस बात को देखना ही तो शान्ता का सुमन के प्रति उपेक्षामय व्यवहार देखना चाहिए । पापी आत्मगतानि की आग में सिल-तिल कर कैसे जलता है यह सुमन के हृदय से प्रवेश करने से जाना जा सकता है—

शान्ता रोती हुई सुमन के गले से लिपट गई और बोली,—“जी जी, आँखें खोलो, जी कैसा है ! तुम्हारी शाति खड़ी है ।”

सुमन ने आँखें खोलीं और उनमें की भाँति विस्मित नेत्रों से शान्ता की ओर देखकर बोली, कौन ! शान्ति ! तू हट जा, मुझे मत छू, मैं पापिनी हूँ, मैं अभागिनी हूँ, मैं भ्रष्टा हूँ, तू देवी है, तू साध्वी है, मुझमे अपने को स्पर्शन होने दे, हस हृदय को बासनाओंने, लाल-साथ्रोंने । दुष्कामनाओंने मलिन कर दिया है, तू अपने उज्ज्वल, स्वच्छ हृदय को उसके पास मत ला, यहाँ से भाग जा । वह मेरे सामने नरक का अग्निकुण्ड दहक रहा है, यम के दूत मुझे उस कुण्ड में भोकने के लिये घसीटे लिए जाते हैं, तू यहाँ से भाग जा ।

और अन्तर्द्वान्द्व के सौन्दर्य के लिये भी सुमन के पास ही जाना होगा । नारकीय जीवन से छुटकारे और उस नरक में रह कर सदन के प्रेम के स्वर्ग को भोगने के मोह में जो संघर्ष हुआ है वह कितना विकल कर देने वाला है । सेवासदन की संचालिका होकर भी क्या सुमन सदन को भूल गई होगी ? क्या 'सेवासदन' का 'सदन' शब्द सदैव के लिये सदन को सुमन

के हृदय की भाँति चुप से अपने में नहीं छिपाए हुए हैं ?

प्रेमचन्द्रजी आदर्शवादी थे । इसका लात्पर्य यह नहीं है कि वे यथार्थवादी नहीं थे । ठेठ यथार्थ को लेकर ही उसके कथानक चलते हैं, पर मुझ जाते हैं कि आदर्शवाद की ओर । आदर्श की सिद्धि के लिये वे यथार्थ को ग्रहण करते हैं । पत्थर यथार्थ का है, टङ्की आदर्श की, शशीर यथार्थ का है, प्राण आदर्श के, पट और रेखाएँ यथार्थ की हैं रङ्ग आदर्श का । सेवासदन का ही लें । एक दूरोग्ना का दहेज देने के लिए रिश्वत लेना और जेल जाना कन्या का आश्रयहीना होने से अनुकूल पति को न पाने पर विषम बातावरण के प्रभाव में धर्म से च्युत होना, एक समाज-सुधारक का उसके उद्घार के लिये उत्कट प्रयत्न करना और सफल होना, यही तो सेवासदन की कहानी है । यह कहानी बहुत-सी वेश्याओं के जीवन में दुहराई गई है और यथार्थ से विलकूल हटी हुई नहीं प्रतीत होती । इस उपन्यास में स्थानों के नाम तक कल्पित नहीं हैं । चौक, दालमंडी वेनियावाग आदि काशी के चिरपरिचित स्थान हैं, इसी प्रकार श्रीलंगपुर अमोलो ग्राम भी । पर प्रेमचन्द्रजी ने जिस प्रकार इस उपन्यास को प्रस्तुत किया है उसमें आदर्श की गध आगई है । कोई तथ्यवादी होता तो सुमन के पतन को इतने विस्तृत रूप में चित्रित ही न करता । एकदम किसी वेश्या के कोठे से कथा प्रारंभ करता और उसके पतन का संक्षेप में कहीं उल्लेख कर देता, वेश्या जीवन के चटकीले दृश्य उपस्थित करता, उसका घोर पतन दिखाता और घोर चंत्रणा में उसके जीवन का अंत कर देता । इस प्रकार दिना किसी प्रकार का उपदेश दिये हुए भी मन-चली स्थियों के हृदय पर चोट पहुँचाई जासकती थी । यदि पुरुषों को दोकना उसका लक्ष्य होता तो किसी वेश्यागामी के साथ घोर विश्वास वात के साथ उसका सर्वनाश दिखा कर छोड़ देता ।

प्रेमचन्द जी की सुमन है जो वेश्या होगई है पर पवित्र रहती है, खाना अपने हाथ से बनाती है। उस वेश्या का प्रेमी सदन है जिसने उसके यहाँ कभी पान तक नहीं खाया। न जाने अबुल बफा, चिम्मनलाल और दीनानाथ के साथ उसने विजोद कैसे किया है ? ऐसी बातों से ही सुमन के चरित्र में थोड़ी अस्वाभाविकता आगई है। प्रेमचन्द जी के जिस पात्र को देखो आत्मगत्तानि से गला जा रहा है। पद्मसिंह की यही दशा है। वे सुमन को अपना मुँह दिखाने में संकोच से गड़े जाते हैं। गजाधर एक दम देवता हो गया है। और वेश्याओं को देखिए। जब वे दाढ़ मंडी को छोड़ कर अलईपुर को जाती है तो पवित्रता पर कैसे कैसे व्याख्यान देती हैं। एक बुढ़िया तो हज्ज करने चली जाती है।

इच्छा होती है कि पाप-पुण्य की समस्या को लेकर जो मानसिक साहस उनमें गोदान लिखते समय मातादीन-सिलिय के संबंध में उत्पन्न हुआ, उसका थ ड़। प्रदर्शन सुमन के संबंध में भी हो जाता। इच्छा होती है कि वे गजाधर और सुमन को एक बार मिला देते। पद्मसिंह शर्मा भी संकोचवश ‘सेवासदन’ में नहीं आते। इससे सुमन की वह मानसिक क्लेश होता है और पाठकों को भी। पतित व्यक्ति सब से अधिक भूखा होता है सहानुभूति का और वह भी कुछ विशेष व्यक्तियों की। जब वही नहीं मिलती तो उसका मन मुरझा जाता है साहस बैठ जाता है। सुमन को ‘सेवासदन’ से देख कर हमें ऐसी प्रतीत होता है जैसे प्रेमचन्द जी सोच रहे हों कि देखो मैंने इसे इस पवित्र काम पर नियुक्त कर दिया है, पर वह पूर्ण रूप से इसकी अधिकारिणी है अथवा नहीं मैं नहीं जानता।

रोग के द्वितीय और निवारण में भी वहुत अन्तर होता है। मातृ लीजिए प्रेमचन्द जी के अनुसार म्युनिसपैलटी की आर्थिक

सहायता और समाज-सुधारकों के उत्कट प्रयत्न से वेश्याओं में आत्म-चेतना जाग्रत होती है और वे अपने पाप के जीवन का अंत कर 'सेवा—सदन' के अलईपुर जैसे स्थानों में भारतवर्ष भर में बस जाती हैं। पर उनकी जो कन्याएँ हैं उनका क्या होगा ? उनके जीवन की दो बड़ी समस्याएँ हैं—पालन-पोषण और विवाह। 'पहिली समस्या को प्रेमचंद जी ने सेवा—सदन की स्थापना द्वारा सुलभा दिया है। वह कुछ समझ में भी आती है। पर दूसरी समस्या जो बहुत बड़ी और प्रमुख डलभन है उसका कोई समाधान उनके पास नहीं है। वेश्या-प्रथा के प्रचलित रहने का मूल कारण ही यह है कि वेश्या की कन्या चाहे कितनी ही विदुषी, कितनी ही गुणवती और कितनी ही पवित्र हो, उसके साथ कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति विवाह करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह किसी की कन्या नहीं है। इसके लिये समाज को बहुत गहरे नश्तर देने की आवश्यकता है। सेवा-सदन लिखते समय प्रेमचंद जी में यह साहस नहीं था। गोदान तक आते आसे उनकी पाप-पुण्य की भावना में किञ्चित् परिवर्तन हुआ था, पर तब वे चल वसे। इस समस्या को लेकर समाज की धारणा में हलचल और परिवर्तन उपस्थित करने वाला एक उपन्यास पृथक् रूप से लिखा जा सकता है। प्रेमचंदजी इस बात को न जानते हों ऐसा नहीं है। सेवा—सदन के अंतिम परिच्छेद में सुभद्रा और सुमन के वारीलाप को ध्यान से सुनिए—

**सुभद्रा—अच्छा इनका विवाह कहाँ होगा ।**

**सुमन—यहीं तो टेढ़ी खीर है। हमारा कर्तव्य यह है कि इन फून्याओं को चतुर गृहिणी बनने के योग्य बना दें। उनका आदर समाज करेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती ।**

## गृहवन्ध

ग्रन्थ एक समस्या उपन्यास है। समस्या है आभूषण—प्रेम की। भारतवर्ष में स्त्री के हृदय में आभूषण-प्रेम इतना तीव्र होता है कि कभी कभी इसके सामने पति-प्रेम तो वया जीवन के अन्य सभी प्रकार के सुखों का होम कर दिया जाता है। ग्रन्थ में पाँच गृहस्थियाँ हैं—मानकी-दीनदयाल की, जागेश्वरी-दयानाथ की, जालपा-रमानाथ की, रतन-बकील साहब की और जग्गा देवीदीन की। इन पाँचों लियाँ में से एक भी ऐसी नहीं है जिसके हृदय में आभूषण-प्रेम न हो। जग्गो समाज के निम्न स्तर से सम्बन्ध रखती है। जाति की खटीक है। सद्जी को दुकान लगाती है। सम्पन्नता की दृष्टि से जालपा जागेश्वरी और मानकी तृतीय श्रेणी की लियाँ हैं। जालपा का पति म्युनिस्पैल्टी में ३०) मासिक का कलर्क है, जागेश्वरी के पति मुन्शी दयानाथ ५०) पर कच्चहरी में नौकर और मानकी के पति दीनदयाल एक जमीदार के मुरुडार। रतन ही अकेली एक धनाढ़ी बकील की पत्नी है और मध्यम श्रेणी से सम्बन्ध रखती है। इनमें जालपा और रतन बालिकाएँ अथवा युवतियाँ हैं, मानकी और जागेश्वरी प्रौढ़े और जग्गो बुढ़िया। इस प्रकार क्या युवती, क्या प्रौढ़ा और क्या बुढ़िया, क्या धनी और क्या निर्धन, स्त्री होनी चाहिए उसके हृदय में एक ही लालसा है—गहने पहनने की, उसके भरितष्क की चिंता-धारा एक ही और प्रवाहित हो रही है गहने की ओर, वह एक ही बस्तु से अपने पैद, गले, नाक, कान और सिर को ढकना चाहती है बहु है गहना। हो सके तो स्त्री कपड़े के स्थान पर भी गहना पहने।

नारी के हृदय में अत्यधिक आभूषण प्रेम और उस उत्कट प्रेम से उत्पन्न दुर्घटिणामों को चिकित करने के लिए प्रेमचन्द्रजी

ने जालपा को केन्द्र बनाया है। कला की दृष्टि से अस्वाभाविकता को दूर रखने के लिये उन्होंने आभूषण के जगत में उसके मन का विकास बड़े कौशल से धीरे धीरे दिखाया है। जब वह शिशु-मात्र थी तब उसकी दाढ़ी उसे गोद में खिलाते समय आभूषणों की चर्चा करती। उसके पिता बाहर जाते तो खिलौनों के स्थान पर आभूषण लाते। गुड़िया - गुड़ौं के खेल में आभूषणों को लेकर मान और मान - परिहार का अभिनय होता। खियों के बीच बैठती तो आभूषणों का मनोरञ्जक प्रसङ्ग छिड़ जाता। अतः जहाँ एक बालिका के कोमल मस्तिष्क को अन्य सदृगुणों से भरना था वहाँ उसे आभूषण-प्रेमिका बना दिया गया। एक दिन उसकी माँ ने उसके लिये विसाती से बिल्लौर का पीरोजी झङ्ग का नक्ली चन्द्रहार मोल ले लिया और अपने लिए छः सौ का एक सोने का हार गढ़वा लिया। बालिका के हृदय में ईर्ष्या जगी। वह समझ नहीं सकी कि उसकी मौँ इतनी बड़ी होकर यदि हार पहनने की अधिकारिणी है तो वह क्यों नहीं? मौँ ने इस ईर्ष्या को आशा से ढकने का प्रयत्न किया। कहा 'तेरे लिये तेरी ससुराल से आवेगा।' जब वह दिन आया और दिखावे के असमय आभूषणों के नाम गिनाये जाने लगे तब जालपा के कान 'हार' शब्द को सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। हार न आया। और इस प्रकार जालपा की कल्पनाओं का रम्य प्राप्ताद् ध्वस्त हो गया। उसका हृदय ढूट गया बैठ गया।

ससुराल में आकर आभूषण-प्रेम 'और बैग धारण करता है। चन्द्रहार पहनने को नहीं मिला, अतः जालपा कोई अन्य आभूषण नहीं पहनती। चिढ़ाने के लिये तथा ठ्यंग्य से हृदय की बात जताने के लिये बिल्लारी हार गले में डाल लिया है। रमानाथ से नित्य पूछती है, 'आज तुम बाजार की तरफ गए थे कि

जही १ धरवालों से अन्य भनक होगा है। आत बात पर भुँझ-लाहट भाड़ देती है। आभूषणों के एक पुराने सूचीपत्र को तन्मयता से एकान्त में देखती है। पास पढ़ौस मे किसी से मिलने नहीं जाती। सखियों को घरवालों की शिकायत के ज्ञोभ-भरे वेदनात्मक पत्र लिखती है। भाग्य को कोसती है और रोती है। परिणाम यह होता है कि ऊपर से ना ना करते हुए 'हर्ष' की तुष्टि के लिये ७००) का हार तो आवा ही (उसके साथ २५०) का शीशफूल ६००) के कड़न और १००) के इश्वरिंग और आ गये। स्पष्ट ही ३०) के नैकर के लिये यह उधार चुकाना असम्भव था। उसने शब्दन किया और उसके ऊपरान्त बदाबूर पतन के गंत में गिरता गया।

जालपा और रमानाथ के सजीव जीवन - नाटक के संकटमय दृश्यों से प्रभावित रथा उपन्यास-लेखक के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी व्यक्तिगत विरक्ति और खीभ प्रेक्ष करने के साथ ही साथ आभूषण-प्रेम के विरुद्ध अपनी भावना को व्यक्त करने के अन्य माध्यम भी लेखक ने हूँढ़े हैं। कहीं कहीं व्यक्त द्वारा इस दोष का आरोप किया है जैसे देवीदीन रेल में रमा से पूछता है कि उसके भागने को कारण वर में गहनों को लेकर कलह तो नहीं है ? रमा सिटपिटा जाता है। कलकत्ता में पकड़े जाने पर शब्दन के कारणों की व्याख्या करता हुआ दारोगा भी यही पूछता है 'तो क्या जुआ खेल डाला ! या बीबी के लिये जेवर बनवा डाले !' रमा वहाँ भी अप्रतिभ मा रह जाता है। एक अन्वर स्थल पर देवीदीन गश्न के सारे मुकहमों का मूल कारण एक ही बतलाता है - वह है गहना। इसी प्रकार उपन्यास के प्रारम्भिक चृष्टों में रमेश भी रमानाथ को गहनों पर एक अत्यन्त सारगर्भित व्याख्यान देता है। यह एक प्रकार से प्रेमचन्द जी की ही धारणा

है जिसे उन्होंने एक पात्र के मुँह में रख दिया है। आभूषण की दासता को सबसे बड़ी पराधीनता घतलाते हुए वे रमेश से इस निर्णय की घोषणा करते हैं—

“बच्चों को दूध न मिले, न सही, बी की गन्ध तक उनकी नाक में न पहुँचे, न सही। मेरे और फलों के दर्शन उन्हें न हों, कोई परवा नहीं, पर देवीजी गहने जूर पहनेंगी और स्वामीजी गहने जूर बनवाएंगे। इस प्रथा से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ, यह गुलामी पराधीनता से कहीं बढ़कर है। इसके कारण हमारा किनना आत्मिक, नैतिक, दैहिक, आर्थिक और धार्मिक पतन हो रहा है, इसका अनुमान बहार भी नहीं कर सके।

जिस समस्या को प्रेमचन्द्रजी ने उठाया है उसका समाधान क्या है? शबन को पढ़ने पर हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह यह कि यदि इमण्डियों को जालपा के समान अपने और अपने पतियों के ऊपर विपत्ति का आवाहन नहीं करना है तो आभूषणों की ओर से विरक्त होजायें। कम से कम जिनके पतियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे तो आभूषणों का स्वप्न भी न देखे। यह सच है कि विवाह के पूर्व वालिकाओं के बड़े बड़े स्वप्न होते हैं और कभी वे बड़ी निर्दयता से भङ्ग होते हैं, पर शांति और सुख से रहने के लिए ‘जो है’ उसी के अनुरूप हृदय जो आनुकूल्य में कल्याण है।

आभूषण-प्रेम के मूल में तीन धारणाएँ काम करती दिखाई देती हैं—सौन्दर्य-बोध, आगामी विपत्ति निवारण का एक उपाय और समाज-सम्मान। जालपा में सौन्दर्य-बोध की भावना भी है और समाज-सम्मान का ध्यान भी। गहने मिलने पर बहु दर्पण के सामने भी खड़ी होती है और सभा-सोसाइटी-सिनेमा

मेरी जाती है। सौम्दर्य-व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न है और वह समय की गति के साथ परिवर्तित होता रहता है। पर समाज के मूल्यांकन को बदलने में देर लगती है। प्रेमचन्द्रजी ने इस उपन्यास में विचार के लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की है। अपनी कई कहानियों के द्वारा भी उन्होंने अत्यधिक-आभूषण-प्रेम को आपत्ति और अपमालजलक सिद्ध किया है।

उपन्यास में दो ही पात्र प्रमुख हैं—रमानाथ और जालपा। घटनाएँ इन्हीं दोनों के चारों ओर घूमती हैं। प्रारम्भ में ही लेखक ने रमा को अकर्मण्य और मित्रों की वस्तुओं से अपना फैशन पूरा करने वाला युवक चित्रित किया है। वहीं आशङ्का होती है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखमय नहीं हो सकता। एक और पुरुषार्थ-हीनता और दूसरी ओर विलास के उपकरणों को एकत्र करने की आकांक्षा, दोनों का मेल सदैव जीवन की भयानक असफलता की गुहा में ढकेलता है।

“लेकिन रमानाथ में इतनी लगत न थी। इधर दो चाल से वह विल्कुल बेकार था। शनरंज खेलता, सैर-सपाटे करना और मॉ और छोटे भाहये पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता था। किसी का चैट्टर मैंग लिया और शोम को हथा लाने निकल गए। किसी का पप-शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर धाँच ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। दउ मित्रों ने एक एक कपड़ा बनकर लिया, तो द्रस सूट बदलने का साधन होगया। सहकारिता का यह विल्कुल नया उपयोग था।”

रमानाथ प्रदर्शन का प्रेमी है, अतः दयानाथ को अपने विवाह में आवश्यकता से अधिक व्यय करने पर चाह्य करता है। सराफ से ढेढ़ हजार के गहने उधार लिये जाते हैं। विवाह के उपरान्त

रुपये नहीं दिये जासके अतः रमानाथ को अपनी पत्नी के गहने चुराने पड़ते हैं। जिनका मिथ्या-वैभव प्रदर्शन का स्वभव होता है वे हृदय की बात किसी से खोलकर नहीं कह सकते। रमा घर की वास्तविक दशा को अपनी पत्नी से स्पष्ट कहने में सङ्कोच का अनुभव करता है। परन्तु शेखी वधारते समय तो उसका सङ्कोच हवा हो जाता है। कारण स्वरूप असत्य भाषण का दुरुण स्थितः आजाता है। रमा मैं बाप से भूठ बोलता है, रतन से भूठ बोलता है, पत्नी से भूठ बोलता है, मित्रों से भूठ बोलता है। घर का खर्च कुछ है, कुछ बतलाता है, आमदनी कुछ है, कुछ बतलाता है और बैंक में कुछ भी रुपया न होते हुए बहुत कुछ बतलाता है। जालपा घर की स्थिति का ठीक अनुमान न कर सकने के कारण गहनों के लिये हठ करती है। गहने फिर उधार आते हैं; और इसके उपरान्त वह संकट समुख आता है जो रवन के कारण उपस्थित हुआ।

रमा के हृदय की एक उल्लेखनीय वृत्ति जो सभी की दृष्टि आकर्षित करेगी उसका प्रगाढ़ पत्नी-प्रेम है। जालपा के हृदय को कहीं आघात न लगे, जालपा उसे तुच्छ न समझे उसकी जालपा प्रसन्न रहे, जलापा कहीं अप्रसन्न न हो जाये, जालपा पर कोई संकट न आवे, जालपा कभी दुःखी न रहे, उसकी जालपा को भवान भी न छीन लें, यही उसके समस्त जीवन की चिन्ता है। जालपा अपने प्रति उसकी समता को जानती थी और उसके चरित्र पर नबे करने का सौभाग्य उसे प्राप्त था। रमा के घर से निकल आगने पर जब रतन हँसी में व्यंग्य करती है तब जालपा चट से उच्चर देती है, “यह बुराई उनमें नहीं है और चाहे जितनी बुराई हो दो।” चरित्रवान तो हम उसे न कह सकेंगे। व्यापक दृष्टि से देखें तो असत्य भाषण करना भी चरित्रहीनता है, छल से गहने

चुराना भी चरित्रहीनता है, रिश्वत लेना भी चरित्रहीनता है, भूठे बयान देना भी चरित्रहीनता है। पुलिस के पंजे में फँसकर उसने अपने को दुर्बल-हृदय और स्वार्थ-लोलुप सिद्ध किया है। जिस सीमित अर्थ में हम किसी व्यक्ति को चरित्रबोन कहते हैं, उस अर्थ में भी रमा का मुख उड़जवल रहा हो, मन उड़जवल नहीं रहा। जोहरा से प्रेम का अभिनय ही वह प्रारंभ में करता है पर उसके हृदय की वासना भाँक ही उठती है और कम से कम उसका मानसिक पतन अवश्य हुआ है। सच यह है कि इस उपन्यास में रमा अंत तक गिरता ही चला जाता है पर उसमें चुवुद्धि का उदय भी कभी होता रहता है। इसी से अत में जालपा की तपस्या और पीड़ा की अग्नि से द्रवीभूत हो उसका हृदय एक नये सोचे में ढल जाता है।

जालपा प्रारंभ में तो हमारे सामने एक सामान्य बालिका के रूप में आती है—आभूषणों पर प्राण देने वाली। इस आभूषण प्रेम में कुछ तो उसके वाल्यकाल के संस्कार हैं और कुछ अपने पति की ना समझी से अपने घर की वास्तविक परिस्थिति की अनज्ञिज्ञता। हार और शीशफूल पाने के उपरान्त जब लेखक जालपा के विषय में लिखता है कि ‘उस दिन से जालपा के पति-स्नेह में सेवा-भाव का उदय हुआ’ तब इस स्वार्थसिद्धि अथवा इच्छापूर्ति से प्रेरित सेवा भावना में हमें कोई आकर्षण नहीं प्रतीत होता, उल्टे चिरकि होती है। यावन की घटना के उपरान्त जब रमा भाग खड़ा होता है तब जालपा की कर्त्तव्य-चेतन ज्ञाप्रत होती है और उसके मन की सद्वृत्तियाँ उभर आती हैं जो हमें चकित करती चली जाती हैं। इस उपन्यास में जिस प्रकार दमा का चरित्र विषम परिस्थितियाँ जैसे फँसकर बरबर

गिरता जाता है उसी प्रकार जालपा का चरित्र कष्ट की अग्नि में तप कर कुन्दन होगया है और बराबर निखरता ही जाता है।

पति को खोकर जालपा का उद्यम, विवेक त्याग, चातुर्य और साहस सभी जग पड़ते हैं। वह रमा को हूँढ़ने चुक्की जाती है। रमेश से यह पता चला कर कि रमा को तीन सौ रुपये जमा करने थे वह अपना प्रिय हार प्रसन्नता से आधे दामों में दे डालती है। अन्य तकादे वालों का रुपया भुगताने के लिये रतन के हाथ कङ्कन लेच देती है। समाचार-पत्र में रमा सं लौट आने की प्रेरणा करती है। शृङ्गार की बस्तुओं को एक वेग में बन्द करके गङ्गाजी में फेंक आती है फिर 'प्रजामित्र' पत्र में शतरंज का एक नक्शा प्रकाशित करवाती है और यह पता पाते ही कि रमा कलकत्ते में है वह घर को छोड़ कर उसे खोजने निकल पड़ती है।

कलकत्ते पहुँच कर तो उसके हृदय में दैवी गुणों का प्रादुर्भाव और विकास हुआ है। वहाँ एक मार्सिक द्वन्द्व से उसे संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी गवाह बनकर उसके पति ने कुछ निरपराधियों को फँसा दिया है, इसीलिए जिस खोये पति को प्राप्त करने के लिए वह जाती है उसे पाजाने पर भी ग्रहण नहीं कर सकती। पाप के दलदल से रमा को बाहर घसीटने के लिए वह बहुत प्रयत्न करती है, पर असफल होती है। जालपा में सत्‌असत् का ज्ञानोदय होता है और इसी से वह अपने पति के दुष्कर्म का प्रायश्चित सा करती हुई दिनेश के बाल बच्चों की निष्काम सेवा में अपने दिन व्यतीत करती है। आभूषणों पर प्राण देने वाली बालिका ऐसी सद्गुणवती, ऐसी निर्मल हृदया, ऐसी त्यागमयी और ऐसी सेवा—परायण सिद्ध होगी इस काल

पर सहसा कोई विश्वास नहीं कर सकता । जालपा के इस स्वरूप के दर्शन से रमा का आत्मोद्धार होता है । जोहरा उसके संपर्क में आती है और उसका कायापलट होता है, कल्याण होता है ।

जालपा का पति-प्रेम भी सराहनीय है । पति के लिए ही वह लाख समझाने पर अपने पिता दीनदयाल के साथ नहीं जाती । पति के लिए ही वह अपनी शृङ्गार-सामग्री का विसर्जन करती है । पति के लिए वह घर छोड़ती है । पति-प्रेम से प्रेरित होकर ही पति के कार्य पर लिंजत होती हुई वह उसे जली-कटी सुनाती है, तोखे व्यंग्य-बाण मारती है और अन्त में उससे उदासीन हो जाती है । प्रेम और न्याय के संघर्ष में उसका हृदय यद्यपि न्याय की ओर झुका हुआ है, पर प्रेम उसे सँभाले हुए है । यह बात जोहरा से वार्तालाप करते हुए उसके मुख से ही स्पष्ट होती है—

— मैं चाहूँ तो आज इन सबों की जान बचा सकती हूँ, पर मुख्यविर को सज्जा से नहीं बचा सकती । वहन, इस दुविधे में पढ़ी नरक का कष्ट मेल रही हूँ । न यही होता है कि इन लोगों को मरने दूँ, और न यहाँ हो उकता है कि रमा को आग में भोक दूँ ।

कथानक इस उपन्यास में नहीं के बराबर है । देवीदीन के मुख से एक स्थान पर उपन्यासकार ने कहलवाया है—शब्दन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं । तहकीकात की जाय तो सबका कारन एक ही होगा—गहना । यह बात प्रेमचन्द्रजी के मन्तिष्ठ में उपन्यास प्रारम्भ करने से पहिले धूमी और तीन शब्द उनकी अँखों के आगे छक्कर काटने लगे—‘गहना’ ‘शब्दन’ ‘मुकदमा’ । उपन्यास का नाम रखा उन्होंने शब्दन । इसके

पूर्वार्द्ध को भरा गहने से और उत्तरार्द्ध को मुकद्दमे से । पूर्वार्द्ध की समस्त घटनाएँ जा रही हैं शब्दन की और उत्तरार्द्ध की सारी घटनाएँ निःस्तृत हुई हैं शब्दन से । इस हष्टि से उपन्यास का शब्दन नाम कितना उपयुक्त हुआ है ।

कथानक सामान्य और अति संज्ञित होते हुए भी उपन्यास अनाकर्षक अथवा कीका जो कहीं हो पाया उसका मुख्य कारण है प्रेमचन्द्र जी की वर्णन-पटुता । वे बाह्य और अन्तर को समान कौशल से चित्रित करते हैं, पर हृदय की उथल पुथल का अङ्कन करते समय तो उनकी लेखनी सजीव हो उठती है । अब सर के अनुकूल इसमें आकांक्षा, झुँभताहट, क्षोभ, क्रोध, प्रतीक्षा चिता, व्यग्रता, उद्घेग, सङ्कोच, घवराहट, ददासीनता और आत्मश्लानि आदि के शब्द-चित्र बहुत ही स्पष्ट उतरे हैं । जोहरा जब जालपा से मिलकर लौटती है तब रमा की उत्सुकता इखने योग्य है । रमा पहिले बेदिली से बात सुनता है, फिर जूता खोल कर कुर्सी पर बैठ जाता है । फिर कहता है 'तुम खड़ी क्यों हो, शुरू से बताओ, तुमने तो बीच में से कहना शुरू कर दिया ।' कुछ देर के पश्चात् कुर्सी जोहरा के और निकट खींच लेता है और आगे को झुक जाता है । जरा-सी बात छूट जाती है तो फिर पूछने लगता है । इस प्रकार इस उत्सुकता के चित्रण में दस पृष्ठ समाप्त होगये हैं और कहीं भी खबापन नहीं आया । 'उपालम्भ' का ही यह वर्णन देखिये इसमें 'हमें' शब्द ने कैसे प्राण ढाल दिये हैं ! एक एक शब्द से न जाने कितने दिनों की कितनी भारी प्रणाय-ममता उभरी आरही है-

जालपा ने सिसककर कहा—तुमने यह सारी आफतें भेलीं, पर हमें एक पत्र तक न लिखा ? क्यों लिखते हम से नाता ही क्या था ? मुँह देखे की प्रीति थी ।

प्रेर और शील-सङ्कोच के मानसिक दृन्द्र के उद्गरण के साथ यह वर्वरण भी हम से नहीं होता—

“रमा चादर प्राढ़े, कुछ भिंभकता, कुछ भैरता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा । जालया ने उसे देखते ही पहिचान लिया । तुरन्त ही कड़म पांछे इट रही । देवीदीन वहाँ न होता तो वह दो कदम आगे बढ़ी होती ।

प्रमदन्दजी की वर्णन-शक्ति का एक मुख्य अङ्ग है—कथोपकथन । हसके द्वारा बात कहने वाले और बात सुनने वाले की सुख—मुख्या, उन दोनों के भाव, जिस परिस्थिति में वे पड़े हैं वह, जिस स्थिति के वे व्यक्ति हैं वह, पिछले और आगामी कथानक का तारतम्य, चार्टलाप की उचित भाषा, स्थिति के अनुकूल स्वर, सब कुछ प्रत्यक्ष होजाता है । उदाहरण शिष्ट न होते हुए भी विशेषताओं के सङ्केत के लिए उपयुक्त हैं—

दारोगा ने जौहरा को मोटर साइकिल पर बिठा लिया और उसको जुग देर में घर के दरवाजे पर उत्तार दिया, मगर हतनी देर में यन्हें चबचल होगया । बोले—अब तो जाने को जी नहीं चाहता जौहरा । चलो आज कुछ गप—शप हो । बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई ।

जौहरा ने जीने के ऊपर एक कडम रखकर कहा—जोकर पहले इन्सपेक्टर साइब से इक्किला तो कीजिये । यह गप-शप का मौका नहीं है ।

दारोगा ने मोटर साइकिल से उतर कर कहा—नहीं, अब ज जाऊँगा, जौहरा । सुनह देखी जायगी । मैं भी आता हूँ ।

जौहरा—आप मानते नहीं हैं । शायद डिप्टी साइब आते हों । आज उन्होंने कहला भेजा था ।

दारोगा—मुझे चकमा है रही हो, जौहरा ! देखो इसनी बेवफाई अच्छी नहीं । जौहरा ने ऊपर चढ़ कर द्वार बन्द कर लिया और ऊपर जाकर खिड़की से सिर निकाल कर बोली—आदाव अर्ज़ ।

भाषा शब्दन की बोलचाल की ही है, पर असाहित्यक नहीं है। इसमें सरलता ही उनका लक्ष्य है। कहीं भी किलष्टता का सामना नहीं करना पड़ता। इस कृति में ज तो 'सेवासदन' के से किलष्ट फारसी शब्दों का प्रयोग है और न हिन्दी शब्दों में गोदान का सा भाषा-शृंगार। फारसी और अंगरेजी के शब्दों का प्रयोग है पर नित्य व्यवहार के। दारोगा जी को उदूँ बोलने का अभ्यास है जो पुलिस कर्मचारी और मुसलमान होने के कारण स्वाभाविक प्रतीत होता है। डिप्टी साहब टूटी-फूटी, व्याकरण-असम्मत हिन्दी बोलते हैं और बीच बीच में 'ब्लडर', 'डाउट', 'बङ्गलिङ्ग' आदि शब्दों का प्रयोग करते चलते हैं। स्वाभाविकता की रक्षा के लिये देवीदोन से भी प्रेमचन्द जी ने हिन्दी के बिंगड़े रूपों का प्रयोग करवाया है। शब्दन के दो पात्र 'तकियाकलाम' के आदी हैं। एक है 'टीमल' वकील साहब का नौकर जो बात-बात पर 'सो देख लेव' कहता है और दूसरे है दारोगा जी जो 'हलफ से कहता हूँ' बहुत कहते हैं। जीवन के समुद्र से मथी हुई तथा उनकी प्रभावशालिनी लेखनी से टपकी हुई धारणाएँ भी सभी रचनाओं को भाँति शब्दन में बिखरी पड़ी हैं। एकाध उदाहरण लीजिये।

(अ) जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवाय और क्या है ?

(आ) जहा एक बार प्रेम ने वास किया हो वहाँ उदामीनता और विरक्ति चाहे पैदा हो जाय हिसा का भाव पैदा नहीं हो सकता।

व्यक्तिगत दुर्बलताएँ और सामाजिक कुरोतियाँ जीवन की क्लेशकारिणी समस्याओं का मुख्य अंग हैं। उन्हें कभी विकृत रूप में उपस्थित कर, कभी बार्तालाप का विषय बनाकर उपस्थित करना प्रेमचन्द जी की रचनाओं की एक विशेषता है। अवसर मिलने पर कभी वे सित्र की भाँति समझाते, कभी व्यंग्य-बाण

धरसाते और कभी कभी किसी पात्र के जीवन को दुःखमय चित्रित कर हमें सचेत करने का प्रयत्न करते हैं। गच्छ में भी जन्माष्टमी के दिन ठाकुरद्वारे मे वेश्याओं के नृत्य पर, कर्ज लेकर गहने बनवाने पर, बालिकाओं की अतिवार्य शिक्षा और नारी-स्वातन्त्र्य पर, पाखरडी धार्मिकों पर, वंश-भूषा, रहन-सहन में अंगरेजों की लकल पर, वर्ण-व्यवस्था पर तथा सम्प्रसिद्धि परिवार में सम्पत्ति पर अनाथ ख्री के अतधिकर पर कान के परदे खोलने वाली सम्मतियाँ दी हैं।

ज्ञोहरा की मृत्यु इस उपन्यास मे एकदम अस्वभाविक और इन्ड्रिय है। लेखक ने ज्ञोहरा के प्राणों पर मृत्यु के आघात का 'वज्राघात' कहा है। सच पूछिये तो यह 'वज्राघात' मृत्यु की ओर से नहीं प्रेमचन्द जी की ओर से हुआ है। आखिर जिस जल प्लावन में एक प्राणी को बचाने के लिये ज्ञोहरा कूदी उसकी कल्पना की क्या आवश्यकता थी? क्या उसे पापिनी समझकर जीवन के रङ्गमच्च हटाया गया? पर उस समय तक तो उसका कायापलट ही होगया था।

इसके अतिरिक्त इस उपन्यास के और छोटे - मोटे दोष हैं। कथानक की क्षीणता की चर्चा कर चुके हैं। रमा की माका नाम जागेश्वरी लिखा है पर बाईसवें परिच्छेद में उसे गमेश्वरी नाम से पुकारा है। नाम की यह गङ्गबड़ गोदान मे भी हुई है। पौचसौ शूष्ठ के उपन्यास में यह भूल अति सामान्य है। क्या प्रेमचन्दजी एक बार तिख चुकने पर फिर पढ़ते नहीं थे? इस उपन्यास से यह भी निश्चय करना। कठिन है कि रमा जालया और रतन तथा वकील साहब काशी के रहने वाले हैं अथवा प्रयाग के। ३१ के परिच्छेद में वकील साहब का शव काशी लाया जाता है। मणि-भूषण आकर बँगला बैचने की बात कहता है। इससे प्रतीत होता

है कि रत्न काशी मेरहनी थी। जालपा नित्य वहाँ आती है। इससे प्रतीत होता है कि उसका घर भी काशी में था। ४८ ३४वें परिच्छेद में कलकत्ते से दारोगा प्रयाग की न्यूनिट्पैलटी हो से फोन मिलाकर रमा के गवन के सम्बन्ध में पूछता है। रमा भागा भी प्रयाग के न्टेशन से है। इससे यह सिद्ध होता है कि रमा प्रयाग का निवासी था। अन्य घटनाओं से भी इस इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि इस उपन्यास के प्रमुख पात्र प्रयाग के रहने वाले हैं। पर काशी निवासी प्रेमचन्द जी एकाध स्थान पर भूल से या प्रेम से अपनी प्रिय लशी का नाम इसमें छोड़ गये हैं। एक स्थल पर पच्चीस रुपये के नोट की चर्चा भी है। वह कब और किस कारण से निकलता था पता नहीं।

उपन्यास में प्रमुख कथा के साथ ही उपकथा भी चल सकती है और दोनों में जीवन के अन्त तक की घटनाएँ दी जा सकती हैं। परन्तु उपकथा जहाँ कहीं असङ्गत हो उठती है वहाँ व्यर्थ हो जाती है। इस उपन्यास में रमा और जालपा के साथ रत्न और बकील साहब की जीवन - गाथा भी चलती है। रमा और जालपा का इतन के सम्पर्क में आने छी इतनी ही सार्थकता है कि रत्न के रूपयों की गड़बड़ी के कारण ही रमा गवन करने के लिए व्याध होता है। सहेली के रूप में रत्न का जालपा को सान्त्वना देना, उसके प्रयत्न में सहायता करना भी ठीक है। पर बकील साहब की मृत्यु, रत्न के पश्चाताप, मणिभूषण की दुष्टता और अन्त में रत्न की मृत्यु का उपन्यास के मुख्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। व्यर्थ पृष्ठ नष्ट किये गये हैं।

उपन्यासकार अपने व्यक्तिगत विचारों को दीन प्रकार से व्यक्त कर सकता है— किसी पात्र के साचरण द्वारा, किसी व्यक्ति

की बाणी छारा और अपनी आलोचना छारा, पर सभी स्थानों पर साहित्यिक सजगता का ध्यान रखना कठिन ही होता है। पात्रों में रत्न को लीजिये। उसके सारे जीवन के सुख दुःख को हम इतने में ही कह सकते हैं कि उसे देखकर संदेह होता रहता है कि 'रत्न वकील साहब की बेटी है या पत्नी।' उसे भाग्य-वादिनी बनाकर प्रेमचन्द जी ने सामाजिक मान्यताओं में हमारे विश्वास को बताये रखने का प्रयत्न किया है। दूसरी ओर हमारी राजनीतिक जाप्रति को चिद्रित करने के लिये उन्होंने देवीदीन के मुख से स्वदेशी आन्दोलन पर एक सुन्दर व्याख्यान दिलाया है। इसका इतना ही दोष है कि इसने मञ्च का रूप धारण कर लिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि देवीदीन के रूप में प्रेमचन्द जी अथवा कोई देशभक्त उपदेशक बोल रहा है। स्वतंत्र रूप से आलोचना करते हुये भी कहीं कहीं प्रेमचन्द रचना कला पर आधात पहुँचाते हैं। नीचे के वाक्य को ही देखिये यह आगे के कथानक को शक्ति और उत्सुकता का हास करने वाला है।

"अगर जालपा मोह के इस भोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, तो वे पथ-भष्ट होकर सर्वनाशों की ओर न जाते।"

गाथन प्रेमचन्दजी के प्रसिद्ध और सफल उपन्यासों में से है। रोमांस को दूर फेंक कर भी यह अन्त तक आनाकर्षक नहीं हो पाया, यह उन्हीं की लेखनी का ज्ञानकार है। पठनीय तो यह अवश्य है।

---

## गौदान

‘शोदान’ आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है। यह सामान्य और मध्यवर्ग की समस्याओं को लेकर चला है। प्रेमचन्द जी ग्राम्य-जीवन को चित्रित करने में कैसे सिद्ध-हरत थे यह किसी से छिपा नहीं है। पर आज के किसान और सजांदूर के दरिद्र और परवश जीवन को बिना ज़मीदार और मिल-मालिक के कारनामों के नहीं समझा जा सकता। पटवारी, सूदखोर, पुक्षिस जो ज़मीदार और मिल-मालिक की पंक्ति में ही बैठकर किसान के जीवन पर जोक की भाँति काम करते हैं, उनके बिना उसकी दयानीय दशा का ठीक स्वरूप दृष्टि-गोचर नहीं हो सकता। इसीसे गो-दान की कहानी भी एक किसान को लेकर चली हैं जिसके चारों ओर मध्यवर्ग का जीवन भी घूमता है। सामान्य किसान के सब गुण-अवगुण उसमें विद्यमान हैं। किस प्रकार अपनी परिस्थितियों और संस्कारों से पिसता हुआ वह दरिद्र प्राणी करुण मृत्यु प्राप्त करता है, किस प्रकार सभी का पेट भरता हुआ वह स्वयं अपने जीवन की किसी सामान्य इच्छा को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है, किस प्रकार पापियों को ज़मादान देने वाला, लांछितों को सहानुभूति बैंटने वाला और आपद-ग्रस्तों को शरण देने वाला व्यक्ति स्वयं कितना निःसंबल है यही सब कुछ दिखाना गो-दान का लक्ष्य है।

इस उपन्यास का प्रमुख पात्र है ‘होरी’ वह भारतीय किसान का प्रतिनिधि है। प्राइम्ब में ही उसे ज़मीदार की खुशामद करने वाला व्यवहार-कुशल व्यक्ति चित्रित किया गया है। उसके जीवन की सबसे बड़ी साध है गऊ से छार की शोभा बढ़ाना और ग्राम-काल उसके पुण्य दर्शन कर कृतकृत्य होना। मनोचिज्ञान के

दो सामान्य नियमों—सहानुभूति और प्रशंसा के मूल्य को वह जानता है। सहानुभूति दिखा कर वह भोला से गाय झपटने में समर्थ होता है और गुणों की प्रशंसा करके वह अपनी खी धनिया को स्वयं इस बात पर राजी करता है कि वह भोला को भूसा देने में आनाकानी न करे। सब से अधिक उसकी दरिद्रता दर्शनीय है। ज़मीदार से मिलने जा रहा है, पर उसकी मिर्जाई तक फटी हुई है। इसे भी धनिया ने पाँच साल हुए ज़बरदस्ती बनवा दिया था। यह दरिद्रता उसके आलस्य के कारण न थी, क़र्ज के कारण थी। विसेसरसाह, दुलारी मँगरूसाह, मिंगुरीसाह, नोखंराम, नोहरी, पं० दातादीन सभी का वह देनदार है। कुछ ज़मीदार लेता है, कुछ महाजन। क़र्ज से उसे कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस दरिद्रता में उसके हृदय की उदारता सराहनीय है। यह जानते हुए भी कि उसके भाई हीरा ने गाय को विष दिया है, उसके भाग जाने पर सङ्कट के दिनों में वह उसकी खी पुनिया की देखभाल करता है। भुनिया को घर में आश्रय देने से वह भोला का बुरा बनता है और गांव के पड़चों को दण्ड देता है जिसके कारण वह सङ्कट में पड़ जाता है, पर भुनिया को आश्रयहीना नहीं छोड़ता। इसी प्रकार सिलिया चमारिन को भी, जो मातादीन की प्रेमिका है दुतकारे जाने पर होरी की झोपी में ही स्थान मिलता है। उसका आतृ-प्रभ सभी सराहनीय है। अपने भाइयों के घर अलग करने पर उसे अपार वेदना हुई थी। चौधरी और पुनिया के झगड़े के समय उसका खून जोश मारता है और वह चौधरी को भला-बुरा कहता है। होरी की गाय देखने जब सब आते हैं और उसके भाई ही नहीं आते तो उसे बड़ी व्यथा होती है। यह आतृ-प्रेम यहाँ तक बढ़ा हुआ है कि हीरा का नाम लेने पर, जो गाय को विष देने का दोषी है,

होरी धनिया को पीटता है और गोबर के माथे पर हाथ रखकर सौगन्ध खाकर हीरा को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है। आदर्श हृषि से उसके जीवन के दो कृत्य तिन्दनीय भी हैं—एक चौधरी बँसोर को बाँस बेचते समय भाव में गड़बड़ करना और दूसरा रूपा के विवाह में २००) लेना, जो एक प्रकार से लड़की बेचना है। पर ये दोनों कृत्य दरिद्रता की विवशता से उत्पन्न हुए हैं। इतना सब कुछ होने पर भी होरी के जीवन में जो सरसता बनी हुई है वह है उसमें मनोविनोद की भावना के कारण। धनिया को पीट तक लेता है पर क्षण भर में ही दोनों किसी बात पर हँस लेते हैं। दुलारी सहुआइन को देख कर तो उसकी चुहुल की वृद्धि सहजा उभर पढ़ती है और उसे भाभी कह कर जो मन में आता है कह लेता है। ऐसे प्राणी की मृत्यु पर एक गो भी दान करने के लिए न हो इससे अधिक जीवन की विडम्बना क्या हो सकती है। दम तोड़ते हुए होरो को देखिए-

“धनिया को दोन आँखों से देखा, दोनों कोयों से आँसू की दो बूँदें ढलक पड़ीं। क्षीण-स्वर से बोला—मेरा कहा सुना माझ करना, धनिया! अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। रो मत धनिया, अब कब तक जिलायेगी? सब दुर्दशा तो होगई। अब मरने दे।”

धनिया का चरित्र होरी के चरित्र से चिपटा हुआ है। सामान्य नारी की भाँति अपनी प्रशंसा पर मुग्ध होके की दुर्बलता उसमें भी है। भारतीय नारी की भाँति दुःख में वह अपने पति की सदैच सङ्ग्रिनी रही। उसे माता का गीला हृदय प्राप्त है। इसी से वह झुनिया को अपने घर में आश्रय देती है और आगे चलकर गोबर के लड़के को स्नेह-पूर्वक स्मरण करके तड़पा उठती है। उसके व्यंग्य बड़े लीले होते हैं जिनसे होरी भी घबड़ाता है।

उसकी सब से बड़ी दुर्वलता यह है कि उसमें वाक्-संयम नहीं है। इसी कारण वह कभी-कभी सार भी खाती है। सोना के विवाह के समय उसने कुल मर्यादा का भूठा ८.८ अलापकर अदूरदर्शिता का परिचय दिया।

होरी और धनिया के अतिरिक्त कुछ दूर तक चलने वाले सामान्य वर्ग के चरित्रों में गोवर-भुनिया एवं मातादीन—सिलिया के चरित्र हैं, तथा मध्यवर्ग में मेहता-मालती और खन्ना-गोविन्दी के। घर आने से पूर्व भुनिया का स्वभाव खासा बटपटा था। वे दोनों गोव के रोमांस का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, मालती और मेहता नागरिक रोमास का। गोवर अपनी अदूर-दशिता से मारा मारा फिरा। पहिले वह मिज्जा के यहाँ नौर हुआ, फिर खन्ना के यहाँ और फिर मालती के यहाँ। लखनऊ में रहने से उसके रहन-सहन और बुद्धि में परिवर्तन होता है। नकल द्वारा यद्यपि गांव वालों की आँखें खोलने में वह सहायक हुआ, पर अपने पिता की स्थिति न सुधार सका इस बात का खेद धरावर बना रहता है। वह चाहवा तो याता—पिता के जीवन को सुखमय बना सकता था। पर ऐसी दशा में उपन्यास का प्रभाव भिन्न प्रकार का होता, ज्ञाण हो जाता।

मातादीन एक ढोंगी, बगुला-भगत, गुण्डा ब्राह्मण है। वह बाहर से ब्राह्मण है और भीतर से चमार। रहन-सहन खात्तपान में विचार करता है पर चमारिन को अपनी स्त्री बनाकर रखता है। अबकाश मिलने पर अकेले में किसी का भी हाथ पकड़ सकता है। चमारों ने उसके मुँह में हड्डी देकर उसकी धूर्तता का उचित दण्ड दिया है। कुछ दिन उसने सिलिया के साथ खदा व्यवहार किया, पर बाद में अपने लहू की मृत्यु पर

उसका स्नेह उमड़ पड़ा और फिर आजीवन वह सिलिया के साथ रहा। पुनर्मिलन के समय सिलिया ने पूछा था कि एक चमारिन के साथ तुम ब्राह्मण होकर कैसे रहोगे? उस समय मातादीन ने उचित ही उत्तर दिया था—“जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुँह मोड़े वही चमार है।”

खी पात्रों में धनिया के उपरान्त हमारा सब से अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं मिस मालती। उपन्यासकार के शब्दों में वे ‘नवयुग की साक्षात् प्रतिमा हैं।’ मिस्टर खन्ना को, जो मालती के रूप पर मुग्ध थे, उसने काफी दिन उल्लू बनाया और वह प्रत्यक्ष ही खन्ना—गोविन्दी में कलह का कारण हुई। यदि मेहता बीच में न आये होते तो गोविन्दी के जीवन का अन्त करण ही होता। रायसाहब की पार्टी में जिस दिन मेहता ने अफगानी का हृदय हिलाने वाला अभिनय किया उस दिन मालती उन पर मुग्ध होगई। यह आकर्षण बढ़ता ही गया और अन्त में चिरमित्रता में परिणत हुआ। मेहता से प्रेम के कारण ही शिकार के समय उसने एक काली जंगली लड़की के प्रति भी अपनी ईर्ष्या-भावना प्रकट की जिसमें न शिष्ट व्यवहार का ध्यान रहा था। और न शिष्ट शब्दोंके प्रयोग का। वह काली लड़की! निस्वार्थ सेवा--भावना और आत्म गौरव की प्रतिमूर्ति! मेहता ने बहिन कह कर हमारा सन्देह दूर कर दिया, नहीं तो मालती की प्रतिद्वन्द्वीनी बनने की ज़मता उसमें थी। मुझे डर है वह उपेक्षिता किसी मैथिलीशरण का मर्म स्पर्श न करदे! खैर!

मेहता के सम्पर्क में आकर मालती में सुधार होता है। उसकी वाह्य चञ्चलता आन्तरिक गम्भीरता में परिवर्तित होजाती

है और जब वह अपने जीवन का आनन्द गाँव के लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाकर प्राप्त करती है, तब तो उसपर आश्चर्य ही होता है। एक हड़ चरित्रवान् पुरुष के सम्पर्क में आकर तितली देवी होगई।

मेहता एक हड़ पुरुष के प्रतीक हैं। पूरे जड़वादी हैं। भनुष्य को वे प्राकृतिक रूप से देखना चाहते हैं और जीवन को आनन्द-भय बनाने के पक्षपाती हैं। नारी के विषय में उनका आदर्श ऊँचा है। आदर्श नारी को ही वे आदर्श पत्नी समझते हैं। इसी से गोविदी को श्रद्धा की हृष्टि से देखते हैं। इसी श्रद्धा की प्रेरणा से मेहता ने गोविन्दी के पति खन्ना का मालती के प्रभाव से मुक्त किया। यद्यपि वे अनीश्वरवादी थे, पर सेवा-धर्म में विश्वास रखते थे। मालती में परिवर्तन उनके शुभ सयोग के कारण ही था। सब कुछ होकर भी वे थे किलासफर ही। गृहप्रबन्ध में वे असफल थे, इसी से वे एक हजार रुपये कमाने पर भी खालो हाथ रहते। यहाँ मालती उपयोगी सिद्ध हुई। मालती के हृदय में जो उनके प्रति हिनग्रहता थी उसने मित्रता का रूप धारण कर दोनों को आत्मा को सदैव के लिये मिला दिया। दोनों के स्वभावों को देखते हुये चिर मित्रता से अधिक उपयुक्त और अधिक स्थायी बन्धन उनके आकर्षण और रोमांस का नहीं हो सकता था।

‘गो-दान’ मे ग्राम्य - जीवन का सफल चित्रण हुआ है। किसान के घर और बाहर के कई सुन्दर दृश्य उपन्यास मे हैं। लू चल रही है, बगोले उठ रहे हैं, भूतल धधक रहा है, पर किसान काम कर रहा है। दूसरे स्थान पर खलिहान के दर्शन करते हैं तो कहीं मड़ाई होरही है कहीं कोई अनाज ओसा रहा है, कोई शल्का तोल रहा है। नाई, बारी, बढ़ाई, लोहार, पुरोहित,

भाट, भिखारी सभी अपने अपने हक लेने के लिये जमा होगए हैं। कोई अपनी सबाई उगाह रहा है, कोई गलते का भाव ताकर कर रहा है। यदि किसान का घर देखना हो, तो सोना के पति मथुरा का आँगन देखना चाहिए। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर जुआर के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगा कर रखे हैं। बीच में पुआलों के गढ़े हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कूटा हुआ धान पड़ा है। खपरैल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियाँ ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर उसारी में एक गाय बैधी हुई है। खाने में जौ की रोटियाँ और अरहर की दाल का ज़िक्र भी आया है। मनोविनोद की हृषि से, घर में अनाज न हो, देह पर कपड़े न हों, गांठ में पैसे न हों, पर देहात में साल के छः महीने में ढोलक मजीरा बजता है—कभी होली, कभी आलहा, कभी कजली, कभी शामायण के घहाने। घर में मारपीट भी एक सामान्य बात है। पुनिया और धनिया इसकी सामग्री जुटाती हैं। गांव में द्वेषभावना भी प्रवल होता है। गोदान में उसके भी दर्शन होते हैं। होरी के भाई द्वेष-भावना से ही उसकी गाय देखने नहीं आते और हीरा तो गाय को विष देकर भाग जाता है। इसके अतिरिक्त गाँवों में व्यभिचार भी खुले—छिपे चलते हैं। मिशुरीसिंह ने जाह्नवी रख छोड़ी थी। पटेश्वरी पटवारी का अपनी विधवा कहारिन से सम्बन्ध था। नोखेराम ने भोला गूजर को उसकी स्त्री नोहरी के कारण ही आश्रय दिया था। पं० आतादीन सिलिया चमारिन से द्विलगे हुये थे ही।

कथोपकथन में प्रेमचन्द्रजी को कसाल हासिल है। हनके कथोपकथन खजीब, पाञ्चों के अनुकूल, चरित्र स्पष्ट करने वाले

और कथानक को बढ़ाने वाले होते हैं। वे आवश्यकता से अधिक न बढ़े होते हैं और न अपनी मार्मिकता नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिये प्रारम्भ में धनिया द्वारा होरी को कपड़े सौंपते समय, हीरा के आक्षेप पर रोत में ही होरी के गाय लौटाने के निश्चय के समय, झुनिया और गोवर तथा मालती—सेहता के रोमांस-काल के, सोना और झुनिया के ननद-भाभी के मज्जाक तथा मिठुरीसिंह की नक्कल के कथोपकथन काफी मनोरखक हैं। एक उदाहरण लीजिये—

‘यह तो पाँच ही है मालिक !’

‘पाच नहीं, दस है। घर जाकर गिनना !’

‘नहीं सरकार पांच है !’

‘एक रुपया नज़रने का हुआ कि नहीं !’

‘हा, सरकार !’

‘एक तहरीर का ?’

‘हाँ सरकार !’

‘एक कागद का ?’

‘हाँ सरकार !’

‘एक दस्तूरी का ?’

‘हाँ, सरकार !’

‘एक सूद का ?’

‘हाँ, सरकार !’

‘पांच नगद, दस हुए कि नहीं !’

‘हाँ, सरकार ! अब यह पाचों भी मेरी ओर से रख लीजिये ।’

‘कैसा पागल है !’

‘नहीं, सरकार ! एक रुपया छोटी ठकुराइन का नज़राना है, एक रुपया बड़ी ठकुराइन का । एक रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, एक बड़ी ठकुराइन के पान खाने को । बाकी बचा एक, वह आपकी किया - करम के लिए ।’

पात्रों के चारों ओर के वातावरण पर भी प्रेमचन्द जी की दृष्टि रहती है । स्वतन्त्र रूप से वसन्त के दो चित्र अनुपम माधुर्य लिए हुए हैं । यदि पात्रों के चरित्र पर वातावरण का प्रभाव ही देखना हो तो सोना के पति मथुरा और सिलिया को देखना चाहिये ।

‘बरोठे में अँधेरा था । उसने सिलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा । … सिल्लो का मुँह उसके मुँह के पास आगया था और दोनों की साँस और आवाज़ और देह में कम्प हो रहा था ।’

मानव - जीवन के बहुत से पहलुओं पर ‘गोदान’ में प्रकाश डाला गया है । उसमें किसान, ज़मीदार, कारकुन, पटवारी, साह लोग, थानेदार, मिल-मालिक, मजदूर, आधुनिक शिक्षित लड़कियाँ, प्रोफेसर, इलाल, सम्पादक सभी अपने वारतविक रूप में आते हैं । जहाँ तक हो सका है सभी को और विशेष रूप से ज़मीदारों को व्यापक दृष्टि से देखा गया है । वे सन्तुष्ट हों, सुखी नहीं हों । उनकी दुर्वलताओं को चिन्तित भी किया गया है तथा कठिनाइयों को समझने का प्रयत्न भी किया गया है । रायसाहब शिक्षित ज़मीदारों के प्रतिनिधि हैं । वे दोनों रकाबों में एक साथ पैर रखते थे । राष्ट्रवादी भी थे और जी - हुजूर भी ।

जेल भी गये थे और सरकारी कर्मचारियों को डालियाँ भी देते थे। किसानों के प्रति सहानुभूति भी दिखाते और उनसे दण्ड तथा बेगार भी लेते। रायसाहब ने बार-बार उस वातावरण को दोषी ठहराया है जिसमें वे पले हैं। वे होरी के दण्ड के रूपये नोखे से अपने लिये माँगते हैं, यह नहीं कि होरी को वापिस दिलाएँ। वे सम्पादक को इस लिए लालच देते हैं कि उनके विरुद्ध वह कोई समाचार न छापे। इससे सम्पादक और जमीदार दोनों का स्वरूप स्पष्ट होता है। कर्जदार होकर भूठी मान-मर्यादा में आकर वे व्यायाम—शाला के लिए मेहता को ५०००) चन्दा देने का वायदा करते हैं।

किसान और जमीदारों के अतिरिक्त डैमोक्रेसी, साम्यवाद इलेक्शन, स्वच्छन्द प्रेम और महाजनी पुर भी काफी छोटे फेंके गये हैं। जियों के समानाधिकार पर 'वुमेन्स लीग' में मिस्टर मेहता से एक व्याख्यान ही दिला दिया है। इसी प्रकार खन्ना की मिल में आग लगते समय मजदूर-संघ और हड्डताल आदि के हश्य हमारे सामने आते हैं। मालती के द्वारा ग्राम-सुधार का दया-जनित हल्का स्वरूप भी, जो अधिक सक्रिय नहीं है, चित्रित किया गया है।

कहीं व्याकरण की या किसी पात्र का नाम पहिले कामिनी लिख कर आगे गोविन्दी लिखने की, या मेहता की पहिले आठ सौ रुपये आय बता कर फिर एक हजार बताने की बातें छोटी भूलें हैं, दोष नहीं। भाषा तो जैसे उनकी लेखनी से फिसलती, टपकती, बहती चलती है। मालती ने एक स्थान पर मेहता से पूछा है, "और यह पोथे कैसे लिख डालते हो?" मेहता उत्तर देते हैं, "उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता। कलम लेकर

बैठ जाता हूँ और लिखने लगता हूँ ।” प्रेमचन्दजी ने भी स्वयं इसी सहज भाव से लिखा है जैसे प्रेमचन्द के हाथ में लेखनी पहुँच गई और चलने लगी । समय के साथ प्रेमचन्द जी की भाषा और शैली में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है । भाषा यद्यपि उनकी सरल, स्वाभाविक और पात्रालुकूल है, पर जहाँ गो-दान में लेखक को स्वयं कुछ कहना पड़ा है, वहाँ प्रथम भाषा अन्य उपन्यासों से अधिक परिमार्जित मधुर और साहित्यिक हो गई है ।

“वह अभियार की मीठी स्मृतियाँ शाद आई”, जब वह अपने उन्मत्त उदासी में, अपनी नशीली चित्तवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था । झुनिया किसी वियोगी पत्नी की भाँति अपने छोटे से घोंसले में एकान्त जीवन काट रही थी । वहाँ नर का मत्त आग्रह न था, न वह उद्दीप उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर वहेलिये का जाल और छुल भी तो वहा न था ।”

कला की दृष्टि से परखें तो ‘गोदान’ में बहुत से पुराने दोषों का परिहार हुआ है । इसके लिए ‘रङ्गभूमि’ की भाँति यह नहीं कहा जा सकता कि उपन्यास के कलेक्टर को प्रेमचन्दजी ने व्यर्थ बढ़ाया है । इसमें कथानक और चरित्रों का उपयुक्त सामंजस्य है । ‘सेवा-सदन’ की भाँति यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें सुधारभावना प्रबल होगई है । इसमें आदर्श के सामने यथार्थवाद का पलड़ा भारी ही है । म्युनिसिपैलिटी के से रुखे थका देने वाले लम्बे प्रसङ्ग भी इसमें नहीं हैं । जहाँ लम्बे प्रसङ्ग हैं, वहाँ विश्राम के लिए कोई ढङ्ग निकाला गया है । राय साइब जब अपनी दशा होती को समझते हैं, तो बीच-बीच में पान खाते जाते हैं, झुनिया जब एक सौस में अपनी अक्तीत-गाथा सुनाता चाहती

है तो कहीं कहीं बीच में गोबर टोक देता है, मेहता जब लम्बा छ्याख्यान देते हैं तो दर्शक लोग आलोचना करते जाते हैं। 'गवन' की जोहरा वेश्या की भाँति किसी की अस्वाभाविक मृत्यु नहीं दिखाई गई। सिलिया और मातादीन का पुनर्मिलन करके प्रेमचन्द्रजी हमारी प्रशंसा के पात्र हुए हैं। उपन्यास के अन्तिम भाग में वे शक्षात्कार, खलना-गोविन्दी, मेहता-मालती, सिलिया-मातादीन का उचित निर्णय कर होरी की सूत्जु के समय हीरा को बुलाकर हमरे हृदय पर ऐसा आघात करते हैं कि वह सदैव अना रहता है।

गोदान भारत के गाँवों की भीषण दुर्दशा का निर्देश चित्रण है और मुझे तो यह भी एक समस्या - उपन्यास ही प्रतीत होता है। यह दूसरी बात है इस उपन्यास में प्रेमचन्द्रजी की प्रतिभा पर्ण विकास को पहुँच गई है और समस्या को कला ने गोद में ले लिया है।

अपहृ, अनधि-विश्वासी, धर्म-भीरु, भाग्यवादी, दरिद्र, भर्यादावादी किसान आज के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक विधानों के जाल में फँसा हुआ पर करते पंछी के समान फ़इफ़ड़ा रहा है। मुक्ति का मार्ग कहाँ है हूँह नहीं पावा - यिस्ते - पिस्ते उसमें हीनता की भावना (Inferiority complex) प्रबल हो गई है जो और भी घातक है—प्रयत्न को कुंठित करने वाली, आत्म-चेतना को अपनी विषेली छाया से आच्छादित करने वाली। प्रेमचन्द्र जी के शब्दों में, 'उनकी निरीहता ज़हता की हृद रक्त पहुँच गई है जिसे कोई कठोर आघात ही कर्मख्य बना सकता है।' यह संकेत ही है, समाधान नहीं। कौनसर

कठोर आघात ? मज्जदूर की भी ऐसी ही दयनीय दरा उन्होंने चित्रित की है, “आपके मजूर बिलों में रहते हैं — गन्दे, बदबू शर बिलों में — जहाँ आप एक मिनट भी रह जावें, तो आपको क़े हो जाय। कपड़े जो वह पहनते हैं, उनसे आप अपने जूते भी न पोछेंगे। खाना जो वह खाते हैं, वह आपका कुच्छा भी न खायगा।” पर यह विश्लेषण है, व्यवस्था नहीं। इनके उद्घार के लिये क्या करना होगा ? क्या समाज-व्यवस्था, वर्ण-व्यवस्था, आर्थिक-विधान को नष्ट-भ्रष्ट करना होगा ? या केवल वृलना होगा ? यदि किसी समर्थ साहित्यिक की हृष्टि में समाजवाद का मङ्गलमय स्वस्थ विधान धूम गया और इन समस्याओं का वह कोई सुभाव किसी उत्कृष्ट कृति के रूप में कभी दे सका, तो ‘गोदान’ निश्चित रूप से उसके विश्लेषण की प्रामाणिक भूमिका बन सकेगा ।

गो-दान प्रेमचन्द जी की प्रौढ़तम रचना भी है और अेष्टतम भी। यह उनकी अचल कीर्ति का स्मारक है। उनके अन्तर का कलाकार यहाँ पूर्ण सजग है। अत्यन्त स्वस्थ ज्ञानों में इस कृति का निर्माण हुआ है। पात्र गोदान में उनके ‘टाइप’ ही हैं, ‘व्यक्ति’ नहीं, पर सभी को आकृति-वर्णन के द्वारा उन्होंने व्यक्तित्व प्रदान किया है। पढ़ते ही नेत्रों के आगे एक मूर्ति धूम जाती है। उपन्यासों और कहानियों को पढ़कर प्रायः सामान्य युवक और सामान्य युवती का ही ध्यान होता है—स्वस्थ सुन्दर, मधुर कोमल। बहुत हुआ किसी की आँखें बड़ी बतादीं, किसी के कानों में इश्रिङ्ग पहना दिये, किसी के जूँड़े में फूल गूँथ दिये। थोड़े से परिवर्तन के साथ यहाँ पात्रों

से आपको परिचय इस प्रकार कराया जायगा कि आप उन्हें भीड़ में पृथक् कर सकें, भूल न सकें—“मिंगुरीसिंह वैठे दत्तून कर रहे थे । नाटे, मोटे, खल्वाट, काले, लम्बाँ नाक और बड़ो बड़ी मूँछों वाले आदमी थे, चिलकुल बिदूषक जैसे ।” ‘थोड़ी देर में एक इक्केवाला रूपये माँगने आया । अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ, खिचड़ी डाढ़ी और काना ।’ ‘चुहिया—दोहरी देह की, काली ० कल्टूटी, नाटी, कुहपा, बड़े बड़े स्तरों वाली स्त्री ।’ कबड्डी के खेल का वर्णन ही जिस रोचकता और स्पष्टता संक्षिप्त किया है, क्या कोई विदेशी कलाकार वैसा वर्णन किसी किफेट-मेच का करेगा । रोमांस के हश्यों के वर्णन में मन के यौवन की श्वस्थ गन्ध है । और गम्भीर स्थलों का तो कहना ही क्या । अन्तर का विश्लेषण एकदम चाकत कर देने वाला है । प्रेम-चन्द जी के पात्र बोलने से भी अधिक सोचते हैं और सोचते क्या हैं ? भीतर गहरे से गहरे उत्तरते चले जाते हैं । भारतीय किसान की सजीव - मूक ममता ‘गो’ को ही किस कौशल से कथानक में गूँथा है । बहुत गहरी द्रवणशीलता, सिथितियों के बहुत गम्भीर परिचय और महान् ज्ञान के बिना क्या यह सम्भव है कि वह बार बार हमारे हृदय से खींच कर बरबस आँसू हमारी बरौनियों तक ले आवे । पता नहीं चलता कि अपने युग का यह सब से सजग कलाकार एकदम प्रकृत कलाकार कब और कहाँ हृदय को मथ देगा, मसांस देगा और जो कलाकार अपनी संस्कृत मर्म - स्पर्शिता से हमें रुला नहीं सकता उसे मैं बहुत हल्का कलाकार समझता हूँ ।

## प्रेमचंद्रम्

प्रेमाश्रम प्रेमचंद्रजी के प्रसिद्ध उपन्यासों में से है। किसानों और जमीदारों की जिस समस्या को उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति गोदान में सफलता पूर्वक चित्रित किया उसी को उन्होंने इस उपन्यास में भी उठाया। इसमें उन्होंने इस समस्या का एक समाधान भी प्रस्तुत किया। यदि उनका यह स्वप्न पूरा हो जाता तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आता।

प्रेमाश्रम की कहानी अँगरेजों के शासन की छाया में बोसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की भारतीय-जीवन की वास्तविक कहानी है। देश शहर और देहात में बेटा हुआ है। इसमें स्वेच्छाचारी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने किसानों को आंतंकित कर रखा है, क्रूर जमीदार हैं जिन्होंने उन्हे पीस दाला है, पुलिस और अदालत हैं जिन्होंने उन्हे चूस लिया है। इन डिपुटियों, तहसीलदारों, दारागाओं, जमीदारों, पटवारियों, सूदखोरों, बकीलों, डाकटरों कारिंदों, यहाँ तक कि चपरासियों के अत्याचारों से त्राण का मार्ग क्या कहों है ? है।

प्रेमाश्रम का वास्तविक संघर्ष जमीदारों और किसानों के बीच है जिसमें सरकारी कर्मचारी किसी न किसी रूप में सम्मिलित हैं। इस बाहरी संघर्ष के साथ ही एक आंतरिक संघर्ष भी उपन्यास में चल रहा है। वह संघर्ष है हिंसा और अहिंसा में, अत्याचार और प्रेम में, नीचता और उच्चाशय में। यथ में हिंसा अत्याचार और नीचता का चिह्न है ज्ञानशंकर और अहिंसा प्रेम और उच्चाशय की प्रतिमूर्ति है उसी का भाई प्रेमशंकर। किसानों का बाहरी संघर्ष प्रेम के आंतरिक संघर्ष का भाग बन जाता है। अतः कहना चाहिए कि उपन्यास में वास्तविक संघर्ष

असत् और सत् का है जिसमें सत् अंत में विजयी होता है ।

लखनपुर के जमीदार जटाशंकर और प्रभाशंकर दो भाई थे । जटाशंकर की मृत्यु हो चुकी थी, अतः प्रभाशंकर ही जमीदारी का काम संभालते थे । प्रभाशकर के तीन पुत्र थे दयाशंकर तेज शकर और पद्मशंकर । स्वर्गीय जटाशंकर के दो पुत्र थे प्रेमर्शकर और ज्ञानशंकर । ज्ञानशंकर के एक पुत्र था जिसका नाम मायाशंकर था । ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या लखनऊ के ताल्लुरेदार राय कमलानंद की पुत्री थी । कमलानंद की दूसरी लड़की गायत्री गौरखपुर की जमीदार थी ।

उपन्यास का प्रमुख पात्र ज्ञानशंकर है । जिन कारणों से जमीदारी प्रथा बदनाम हुई और जिन दोषों के कारण जमीदारों को घृणा की हाई संदेखा जाने लगा वे सब उससे चिपके हुए हैं । प्रारम्भ में गौसखों और वाद में फैजुल्लाह जैसे स्वेच्छाचारी कारिनों को नियुक्त करना उसीका काम था । वेगार और नज़ाराना लेना, अप्रसन्न होने पर गरीबों को पिटवाना, लगान में इजाफा करना, जमीन छुड़ा लेना, घर में आग लगावा देना, भूठे जुर्म में फँसा कर मुकदमा चलाना और जेल में डलवा कर किसानों को तवाह करना आदि में से उससे कुछ नहीं छूटा था ।

ज्ञानशंकर बहुत लोभी व्यक्ति था । स्वार्थ से मिल कर यह भावना और भी भयंकर हो गई थी । सम्मिलित कुदुम्ब की भावना को उसी ने विच्छिन्न किया । प्रभाशंकर से झगड़ा करके उसने बटवारा कराया । लखनपुर अपने हिस्सेमें लेलिया । थोड़े दिनों के उपरांत उसे अपने साले की मृत्यु का तार मिलता है । वह यह सोच कर बहुत प्रसन्न होता है कि राय कमलानंद का क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं है अतः उनकी जमीदारी

उसके पुत्र मायाशंकर के नाम हो सकती है। एक दिन पत्ती चलता है कि उसके बड़े भाई प्रेमशंकर जिनका बहुत दिनों से कोई पता न था जीवित हैं और अमेरिका से लौट कर आरहे हैं। पहले वह घबराता है कि लखनपुर का अब बटवारा होगा। पर सुरंत सोचता है बिरादरी इन्हे जाति-च्युत कर देगी। गायत्री के धन पर भी ज्ञानशंकर की हृषि पड़ती है। इलाका हस्तगत करने के लिए वह उसके साथ प्रेम का कुशल अभिनय करता है। देखने की बात है कि प्रभाशंकर उसके चचा थे, प्रेमशंकर सगे भाई, शय कमलानंद श्वसुर और गायत्री साली। ज्ञानशंकर ने चारों से छल किया। चचा को टोटे में रखा, श्वसुर और साली की जमीदारी अपने लड़के के नाम कराई और भाई को एक पैसा न दिया। यह दूसरी बात है कि उसके पुत्र ने ही उसे ऐसा आधात दिया जिससे वह सँभल न सका और अंत में अपने कुकर्माँ के लिए पश्चात्तप करता हुआ नदी में फूब कर मर गया।

ज्ञानशंकर छुद्र हृदय का प्राणी है। वह वस्तुओं को केवल अपने हृषिकोण सं देखता है। डिपुटी ज्वालासिंह उसके मित्र हैं। जब वे उसके मुकदमे को खारिज कर देते हैं तो ज्ञानशंकर उनकी सारे में निदा करता फिरता है। चचा से अप्रसन्न होने पर वह दयाशंकर का विरोध करने जाता है। ज्ञानशंकर मुँह के सामने और है, पीठ पीछे और। इसे चाहे उसका ओछापन समझिये या कूटनीति। जब दयाशंकर छूट जाता है तो ज्ञानशंकर चचा के सामने इस प्रकार बातें करता है मानो उसी ने ज्वालासिंह से सिफारिश करके उसे छुड़ा दिया हो। कार्य-सिद्धि के लिए वह भूठ बोल सकता है, फूट डाल सकता है, प्रेम का अभिनय कर सकता है, किसी के प्राण लेनेपर उतारू हो सकता है। प्रेमशंकर किसी प्रकार गांव छोड़ कर भाग जायँ यही वह सोचता रहता

है। प्रेमशंकर से कहता है 'जाति वाले आप को समाज-च्युत करना चाहते हैं' जाति वालों से कहता है। प्रेमशंकर वर्ण-च्यवस्था को नहीं मानते, देवताओं को गाली देते हैं। एक और अपने पति के विरुद्ध श्रद्धा को भढ़ाता है, दूसरी ओर श्रद्धा के विरुद्ध प्रेम-शंकर के मन में गाँठ डालना चाहता है। गायत्री के यहाँ पहुँच कर तो वह पूरा ढोंगी बन गया है। और यह देख कर कि राय-साहब उसके और गायत्री के बीच रोड़ा बनना चाहते हैं वह उनके खाने में विष मिला देता है। उसका सिद्धान्त है—

जीवन आर्नद से व्यतीत हो यह हमारा अभीष्ट है। यदि ससार स्वार्थपरता कह कर इसकी हँसी उड़ाये, निदा करे तो मैं उसकी सम्मति को पैरों तले कुचल डालूँगा।

रायसाहब के यहाँ गायत्री को देखकर उसके रूप के प्रति ज्ञान-शंकर को आकर्षण होता है। यह आकर्षण वासना में परिवर्तित हो जाता है और एक रात थ्रियेटर से लौटते समय वह अपना घृटना गायत्री की जाँघ में छुआता है। पर गायत्री को उसने ठीक से नहीं समझा था, अतः उसकी ओर से कोई उत्साह न देखकर सँभल जाता है। ज्ञानशंकर के आकर्षण में स्वार्थ प्रमुख था प्रेम-भावना गौण। जब गायत्री उसे अपना मैनेजर बनाती है तब उसे अपने वश में करने के लिए यह व्यक्ति कुछ उठा नहीं रखता। रियासत का सुप्रबन्ध करता है, भक्ति की ओर गायत्री का झुकाव देखकर स्वयं पूरा भक्त बन जाता है। बात यहाँ तक बढ़ी कि उसने गायत्री को विश्वास दिला दिया कि वह कृष्ण है और गायत्री राधा। अभिनय वास्तविकता में बदल गया। एक रात ज्ञानशंकर ने अपनी बातों के आकर्षण से गायत्री को कलेजे से लगा लिया। विद्या ने इस प्रेम-लीला को देख लिया और विष खाकर अपने प्राण दे दिये। पर ज्ञानशंकर को अपनी पत्नी की मृत्यु पर कुछ

भी दुःख न हुआ । वह हताश भी नहीं होता । गायत्री की जमी-दारी अपने पुत्र के नाम कराके ही छोड़ता है ।

ज्ञानशंकर मे बहुत से अवगुण हैं—दंभ है, स्वार्थ है, द्वेष है, संकीर्णता है, क्रूरता और छल है, ढोंग और चरित्रहीनता है । पर ये सारी दुर्बलताएँ लोभ से उद्भूत हैं । लोभ में वह ऐसा हूबा कि अंत में लोभ उसे ले हूबा ।

प्रेमशङ्कर ज्ञानशंकर के बड़े भाई हैं—एक ही पिता के दो विरोधी स्वभाव वाले दो पुत्र—एक ही डाल के फूल और काँटे । प्रेमशंकर ने कालेज से निकलते ही स्वदाजयान्दोलन में भाग लिया था और पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए वे अमरीका भाग गए थे । वहाँ उन्हे विचारों की स्वतन्त्रता तो मिली, पर शांति न मिली । वे इस परिणाम पर पहुँचे कि गाँवों का सरल जीवन ही वास्तविक सुख और शांति का जीवन है । देश लौटते ही उन्होंने ग्राम्य-सुधार का काम अपने हाथ में लिया । जमीदारी को वे किसान और सरकार के बीच एक प्रकार की दलाली समझते थे । इसी से जिस जमीदारी के लिए ज्ञानशंकर ने अपनी आत्मा तक को बेच डाला उसका परित्याग सहज-भाव से प्रेमशंकर ने किया ।

प्रेमशंकर कोरे सिद्धान्तवादी व्यक्ति न थे, अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करना भी जानते थे । उन्होंने कृषिशाला की नीव डाली । वरुणानंदी के किनारे एक फूस के मोपड़े से उनका आश्रम प्रारंभ हुआ । यह आश्रम वास्तव में सेवाश्रम था, प्रेमाभ्युम था । प्रेमशङ्कर किसानों के सुख-दुःख के भागी हुए । वे गाँवों में झगड़े रोकते, किसानों को कृषि की उन्नति के साधन बतलाते, बीमारी कैलने पर रोगियों को दवा देते और उनकी सेवा करते । हाजीपुर में भयंकर बाढ़ आई । उसमें मकान ढह गए । मवेशी वह गए । ऐसे संकट-काल में प्रेमशङ्कर ही काम आए ।

भानिवता उनमें पूर्णरूप से पाई जाती है । लंखनपुर के अभियुक्तों के साथ जब प्रेमशङ्कर को भी पुलिस ने अकारण पकड़ा लिया और प्रभाशङ्कर ने उन्हे जमानत पर छुड़ाना चाहा तो उन्होंने साफ़ मना कर दिया ।

प्रेमशङ्कर का सिद्धान्त था कि व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसका कर्म ही बुरा होता है । उदालासिंह खे जमीदारों पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने स्पष्ट ही कहा है, “इसमें उनका कोई दोष नहीं, प्रथा का दोष है ।” गोव वालों ने जब वकील ईर्कान-अली को घेर लिया तब प्रेमशङ्कर ने ही बीच में पड़ कर कहा, “खुन इनकी गर्दन पर नहीं, इनके पेशे की गर्दन पर सवार है ।” डा० प्रियनाथ को बचाने में तो वे अपने कंधे पर लाठी की चोट भी खा गए । इतना फिर भी कहना पड़ेगा कि मनुष्य के सभाव को पहचानने वाली गहरी हृषि उनके पास न थी । गोखलपुर के सनातनधर्म-सभा का समाचार जब पत्रों में छपता है तब वे झानशङ्कर को ‘दिल्य और निर्मल आत्मा’ बतलाते हैं । संभवतः वे आबश्यकता से अधिक भले आदमी थे ।

उनके चरित्र का घड़ा शुभ प्रभाव चारों ओर पड़ता है । उनके सन्पर्क में आकर सोभियों ने लोभ छोड़ा, जुआरियों ने जुआ, चोरों ने चोरी और शराबियों ने शराब । शीलमणि ने उन्हे ‘देवता’ कहा है । और क्या कहें ?

लाला प्रभाशङ्कर कुल-प्रतिष्ठा के प्रेसी है । झानशङ्कर जब बटवारे की बात करता है तो उन्हे बड़ी पीड़ा होती है । अपने बड़े भाई को वे बड़े आदर की हृषि से देखते थे । खानदान में जब कोई बखेड़ा उठता है तब सबसे पहिली चिता उन्हे यही होती है कि इससे उनके स्वर्गीय भाई की आत्मा को कष्ट पहुँचेगा । वे बड़ी उदार और कोमल वृत्ति के मनुष्य थे ।

मान-सर्यादा की भावना उनमें बहुतीत्र थी । रिश्वत के मामले में दयाशङ्कर के गिरफ्तार होने पर उसे छुड़ाने को वे आकुल हुए । इस आकुलता में यद्यपि पुत्र स्नेह काम कर रहा था, पर खान्दान की इज्जत का प्रश्न भी था । ठीक इसी प्रकार की आकुलता का अनुभव उन्होंने उस समय किया जब उनका भतीजा प्रेमशङ्कर हिरासत में आगया । वे दयाशङ्कर और प्रेम-शङ्कर में कोई अंतर न समझते थे । प्रेमशङ्कर की ज़मानत के लिए दौड़धृप करने में तो उन्होंने अपने आत्म-सम्मान का भी ध्यान न रखा—मजिस्ट्रेट के पैरों पर साफ़ा उतार कर रख दिया ।

लाला जी खाने-खिलाने के बड़े प्रेमी थे । प्रेमशङ्कर की ज़मानत के लिए उन्होंने दस हजार कर्ज़ लिए थे । जो बच रहे उन्हे दावतों में ढ़ड़ा दिया । पर लेखक ने बात को बहुत बढ़ाया है । चटनी चुराकर खाने, कोने में छिपकर चाँट उड़ाने तथा रयाज और मसालों की सुगन्ध लेने के लिए नानवाइयों की गली में चक्कर लगाने की जो चर्चा प्रेमचंदजी ने उनके संबंध में की है वह रसनालोंलुपता की अति में सम्मिलित है । संभवतः अस्वाभाविक है ।

राय कमलानंद लखनऊ के ताल्लुकेदार थे । वे जीवन के प्रति पूर्ण उत्साही और विचित्र व्यक्ति थे । घुड़दौड़, शिकार, पोलो और टैनिस के शौकीन, कई भाषाओं के जानकार, संगीतज्ञ वक्ता और कवि, स्वस्थ और प्रसन्न रायसाहब आकर्षण का केन्द्र थे । व्यवस्थापिका सभा के वे में बर थे । यद्यपि वे अपनी सम्मति निर्भक्ति से प्रकट करते, पर उनके विचार बड़े प्रतिक्रियावादी थे । इस देश के नेताओं में उनका विश्वास न था । अंगरेजों की कृपा को वह बहुत बहुत चीज़ समझते । उन्हें प्रसन्न करने के लिए डालियाँ देते । जो उनके क्रोध को सहन कर लेता वह उनका कृपा-पात्र बन जाता ।

क्षमतानन्द रसिक और विलासी थे । सौंदर्य, काव्य और सङ्गीत तीर्तों का उपभोग वे विलास के लिये करते । गाने बजाने में डूबे रहते, श्रृङ्गारी रचनाएँ सुनते और सुन्दरियों के बीच बैठते । वे शाक थे अतः मास, मदिरा और मैथुन उनकी उपासना पद्धति में सम्मिलित थे ।

रायसाहब योग का अभ्यास करते थे । लेखक से कई रथार्नों घेर उनके आत्मबल और यौगिक घमत्कारों की प्रशंसा की है जो अस्वाभाविक है । उन्होंने एक तीव्र हृष्टि से देखकर ही ज्ञानशङ्कर को इतना विमूढ़ कर दिया कि वे गायत्री के प्रति अपना आकर्षण छवीकार कर बैठे । भोजन के साथ वे विष खागए और पचा गए ।

सुखभोग ही रायसाहब के जीवन का प्रधान लक्ष्य था, अकाल में प्रजा का आर्त्तनन्द और पुत्र की मृत्यु का शोक भी उनके विलास की गति को शिथिल न कर सका ।

कमलानन्द अन्त में साधु होगए ।

मनोहर और उसका लड़का बलराज जभीदारी पुथा के विरुद्ध विद्रोह की वह धनि हैं जो बहुत दिनों से अत्याचार के नीचे दबी हुई थी । जैसे-जैसे मनोहर ज्ञानशङ्कर और उसके आदमियों की टक्कर मे आता है वैसे ही वैसे वह अधिक अक्खड़, अधिक क्रोधी अधिक स्वाभिमानी सिद्ध होता है । वह कष्ट भेलता है, पर सिर नहीं झुकाता । जब गौसखां उसकी पत्नी की बेइज्जती करता है तो वह उसे कत्ल कर देता है । अंत मे जेल में प्राणहत्या कर लेता है ।

कादिर मिया भले आदमी थे । वे ईश्वर-विश्वासी, उदार और विनोदी थे । हिंदू-मुसलमान के अंतर को वे समझते ही न थे । वे नीतिकुशल थे और हृदय से सबका भला चाहते थे । मनोहर के वे सच्चे मित्र थे और सबसे अधिक सच्चे किसान थे । एक बार पंचायत मे उन्होंने कहा था-

इसी धरती में सब कुछ होता है और सब कुछ इसी में समा जाता है। हम भी इसी धरती से पैदा हुए हैं और एक दिन इसी में समा जायेंगे। धरती के ही लिए छन्दधारियों के सिर गिर जाते हैं, हम भी अपने सिर गिरा देंगे।

**ज्वालासिह** न्याय-प्रिय व्यक्ति हैं। धीरे-धीरे गाँव वालों के प्रति उनकी सहानुभूति बढ़ती है। अपनी आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए वे अपनी नौकरी छोड़ कर अन्त में प्रेमाश्रम के निवासी बन जाते हैं।

मायाशङ्कर अपने पिता से एकदम भिन्न है—जैसे कीच में कमल उत्पन्न होगया हो। वह अपने विवेक और त्याग से सभी को चकित करता है। इसके विपरीत तेजशङ्कर और पद्मशङ्कर ईर्ष्यालु और मूर्ख हैं। अपनी दुर्बुद्धि के कारण तंत्र-मंत्र की साधना करते हुए वे अकारण मारे गए।

मुन्शी ईजादहुसेन जब तक ज्वालासिह की पेशी में रहे अपने को ‘जी हुजूर’ सिद्ध करते रहे। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के नाम पर ‘अंजुमने इत्तिहाद’ खोली और ‘यतीमखाने’ के बहाने काफ़ी लोगों को ठगा। पर वह दिन भी आया जब प्रेमशङ्कर के प्रभाव से वे सुधर गए।

पुरुष पात्रों में जो स्थान ज्ञानशंकर को प्राप्त है, स्त्री पात्रों में वही स्थान गायत्री को। गायत्री राय कमलानंद की विधवा लड़की और विद्या की बड़ी बहिन है। पिता के घर पर उसकी ज्ञानशंकर से भैंट होती है। ज्ञानशंकर ‘रूपवान, सौम्य, मृदु मुख’ मनुष्य थे। गायत्री मुरघ हो गई। वह उनसे विनोद करती, खिलाने पिलाने में उनका ध्यान रखती, उनके गुणों की प्रशंसा करती। यह सब कुछ सरलभाव से होता। पर ज्ञानशंकर इतने सरल न थे। वे उसे आकर्षित करना चाहते थे। अतः धीरे धीरे गायत्री

ने खिंचाव का अनुभव किया । थियेटर से लौटते समय जिस रात ज्ञानशंकर ने गायत्री को स्पर्श किया, उस समय वह चौंकी और उसे इस बात का पता चला कि वह किधर जारही थी । अपनी भूल पर वह पछताई, रोई । वह गोरखपुर लौट गई । बात वहीं थम गई ।

ज्ञानशंकर ने गायत्री के संबंध में पत्रों में प्रशंसात्मक लेख लिखे । उसकी दृष्टि उन लेखों पर पड़ी । इसी बीच सरकार से उसे 'रानी' की उपाधि मिली । इसका प्रतिदान गायत्री ने ज्ञानशंकर को अपनी रियासत का मैनेजर बनाकर दिया । ज्ञानशंकर ने गायत्री की आमदनी बढ़ाई, उसके यहाँ आने वाले अफसरों को प्रसन्न किया, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया । गायत्री की दबी भावना उमर आई । गायत्री में अनेक गुण थे । वह रूपवती थी, परिश्रमशीला थी, प्रजा-वत्सल थी, दानी थी, धार्मिक थी, पर सब मिलाकर सरला थी । ज्ञानशंकर के प्रति पहिले उसके हृदय में सदिच्छा का प्रादुर्भाव हुआ, यह सदिच्छा श्रद्धा में परिवर्तित हुई, यह श्रद्धा प्रेम में बदल गई । यह प्रेम उसे पतन की ओर ले गया ।

धर्म ही गायत्री का बल था और धर्म ही उसकी दुर्बलता । गोरखपुर में जब वृंदावनकी रासमंडली ने कृष्ण-मथुरा-गमन की लीला की तो गायत्री उस हृदय विदारक हृश्य को देखकर मूर्छित हो गई । एकांत कमरे में जब वह होश में आई तो उसने ज्ञानशंकर की गोद में सिर रखकर आकांक्षापूर्ण भाव से कहा, "मुझे वृंदावन ले चलो ।" काशी में नाटक की समाप्ति पर जब ज्ञानशंकर ने गायत्री से कहा, राधा ! तब तो वह बह गई और बात आलिंगन तक बढ़ गई, आगे बढ़ गई ।

इसके उपरांत गायत्री की आत्म-ग्लानि का काल आता है ।

धीरे-धीरे उसे निश्चय होगया कि ज्ञानशङ्कर धूर्त्वा व्यक्ति है। उसने रो-रो कर अपने मन के मैल का धोया। मायाशङ्कर को—जिसे उसने गोद ले लिया था—प्रेमशङ्कर की संरक्षकता में छाड़ वह यात्रा के लिए निकल पड़ी। प्रयाग, भूंसी, हरिद्वार, हर्षीकेश घूमकर वह चित्रकूट पहुँची। वहाँ पहाड़ की चोटी से गिरकर चूर-चूर होगई।

विद्या एक समझदार लड़ी है। अपने पति के प्रयत्नों में उसने कभी सहयोग न दिया। इतना होते हुए भी वह आदर्श हिन्दू गृहणी थी। उसके पिता राय कमलानन्द जब ज्ञानशङ्कर की चरित्र हीनता की बात उससे कहने हैं तो वह सहन नहीं कर पाती। उसका विश्वास था कि उसका पति लोभी चाहे कितना ही हो, चरित्र-हीन नहीं है। पर जब उसने अपनी आँखों से ज्ञानशङ्कर-मायत्री को आलिंगन-बछ देखा तो उसका विश्वास टूट गया। इस आघात को वह न सह सकी और विष खाकर उसने अपने प्राणों का अन्त किया।

बद्धा के चरित्र की विशेषता है धर्म और प्रेम में द्वन्द्व। वह प्राचीन संस्कारों से पूरा एक हिन्दू रमणी है। उसका पति विदेश चला गया था, अतः उसकी शुद्धि के लिए शास्त्रोक्त प्रायश्चित ही वह उचित समझती थी। उसकी पति—भक्ति भी अदृष्ट थी। अपने पति पर उसे बड़ा भारी विश्वास था। पति की उद्देश्यन सिद्धि के लिये उसने अपने सारे गहने उतार कर भेंट कर दिए। वह बड़त दिन अपनी बात पर अड़ी रही। पर अंत में उसे विश्वास होगया कि परोपकार प्रायश्चित से बड़ी वस्तु है। वह प्रेमशङ्कर के चरणों में आ गिरी।

शीलमणि ऐसी ही लड़ी है जैसी अफसरों की स्त्रियों प्रायः होती है—अपने पति के बढ़पन को अपना बढ़पन संमझने चाली, अपने पास काम के लिए आने चालों की अपने पति से सिफारिश

करने वाली, पर उसका सामान्य भुक्ताव न्याय और भलाई की ओर है। वह इस परिणाम पर पहुँचती है कि सरकारी नौकरी में व्यक्ति स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकता, अतः जब उसका पति अपने पद का परित्याग करता है तो उसे प्रसन्नता ही होती है। अपना शेष जीवन वह सन्तोष और सरलता से व्यर्तीत करती है।

विलासी एक साधारण स्त्री है। वैसे अपने पति मनोहर से वह अधिक बुद्धिमती और नीतिकुशल है। अपने जीवन में उसने बहुत दुःख उठाया।

**भारतवर्ष कृषि - प्रधान देश है।** परन्तु सच पूछिए तो किसान ही यहाँ सबसे अधिक दुःखी हैं। उनकी दशा बड़ी करुणोत्पादक है। इस दुर्दशा का मुख्य कारण है अशिक्षा। उनसे सब पशु जैसा व्यवहार करते हैं। अपढ़ होने से किसानों में सङ्घठन की भावना का उदय नहीं हो पाता। उनकी चेतनता यहाँ तक नष्ट होगई है कि यदि उनके सुधार के लिए कोई प्रयत्न करता है तो वे उसे सन्देह की विष्ट से देखते हैं। दुःख सहते सहते किसान भाग्यबादी होगया। दुःख में उसका जन्म होता है, दुःख में लालन - पालन और दुःख में उसकी मृत्यु। प्रेमशङ्कर ने अपने आश्रम की स्थापना कर गाँवों की सुख-समृद्धि गाँवों का लौटादी।

नैतिकता की भावना अति की सीमा तक पहुँची हुई प्रेमचन्द में पाई जाती है। गायत्री की भूल का एकमात्र प्रतिकार आत्म-हत्या है, मैं नहीं समझता। विद्या को भी उन्होंने अकारण विष सिला दिया। व्यक्ति को सुधारने के ये ढङ्ग नहीं हैं। तेजशङ्कर ने पद्मशङ्कर का गला काट डाला, फिर अपना। इससे लेखक के किस उद्देश्य की सिद्धि होती है? इस घटना से उपन्यास की मुख्य विचारधारा का सबध कहाँ है?

भाषा प्रेमाश्रम की सरल हिन्दुस्तानी है। मार्मिक उक्तियों का तो यह भण्डार है।

---

## प्रिय - प्रकाश

विरह ! अहं, कराहते हस् शब्द को,  
नितुर विधि ने अश्रुओं से है लिखा । — पंत

कृष्ण - चहित्र का मुख्य आधार श्रीमद्भागवत का दर्शन स्कन्ध है । इस महासमुद्र में से अगणित कवियों ने अनन्त भाव - मणियों का सञ्चय किया । निश्चय ही इन मणियों पर तराश सबकी अपनी है, अतः चमक अपनी - अपनी है । क्या विद्यापति, क्या सूर, क्या नन्ददास, क्या रीतिकाल के अनेक कवि और क्या आज के सत्यनारायणजी, रत्नाकरजी, 'हरिओंध' जी तथा श्री मैथिलीशरण गुप्त सभी ने कृष्ण - गोपियों के प्रेम को नवीन - नवीन रूप देकर यह धोषित किया है कि समय इस प्रसङ्ग की सरसता को क्षीण करने में असमर्थ है ।

विद्यापति ने संसार के समस्त सौन्दर्य, समस्त प्रेम और समस्त विरह - व्याकुलता को मथकर अपनी राधा का निर्माण किया । उनके राधा - कृष्ण विदर्घ नायक - नायिका हैं । विद्यापति की पदावलि नायिका की वयः - संधि, नखशिख के वर्णन, सख्यः स्नाना के चित्र, प्रेम की अठखेलियों, दूती की चुरुता, सखी की शिक्षा, अभिसार की तत्परता, मिलन और विदर्घ - विलास के प्रसङ्ग, मान और मान - भङ्ग के दृश्य तथा विरह की व्याकुलता से लहराकर पाठक को अपूर्व प्रेम - रस से सिक्क कर देती है । विद्यापति के द्वारा उहाम - प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है । राधा - कृष्ण का मिलन, प्रेम और प्रेम का, आवेग और आवेग का मिलन है काम ( Sex ) को कला प्रदान करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है, पर

पीड़ा से उनका ज्ञाण परिचय है, यद्यपि इस लघु परिचय में भी उन्होंने नारी हृदय के दुःख को पहचानने का प्रयत्न किया है।

सूर का काव्य एक और यदि कृष्ण-प्रेम से उद्भूत आलहाद की प्रसन्न सहिता है तो दूसरी और उनकी विरह व्यथा से उत्पन्न अशाधि व्याकुलता का वारिधि है। गोपियों के विरह के जीवन में उनके प्रबल प्रेम का परिचायक गोपी-उद्घव सम्बाद है जो 'भ्रमर-गीत' के नाम से प्रसिद्ध है। भ्रमर-गीत का भूलभाव तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्गुण ज्ञान की समकक्षता में संगुण भक्ति की स्थापना है जिसके लिए गोपियों ने ज्ञानार्जन को प्रेमाराधन के सामने शुद्ध सिद्ध करके, नारी की कोमलता के लिए उसे असहनीय बता कर, उपाल-उपासियों की 'अनन्य-आवना पर आधात करने वाला होने से उसे अधार्घनीय उहरा कर अस्वाभाविक' प्रभाणित किया है। सूर की गोपियाँ अनन्य उन्हेमयी होने के साथ ही, व्यंग्यमयी भी हैं। उन्होंने कभी कुञ्जा को लेकर और कभी कृष्ण को भौरा घनाकर कस कस कह उपालम्भ दिए हैं और स्थल स्थल पर उद्घव की चतुरता की खिल्ली उढ़ाई है। फिर भी सूर की गोपियों भोली और दीन हैं। सूर के आवर्णों की अनेकरूपता अनोखेज्ञानिकता और सरसता देजोड़ है।

नन्ददास की गोपियाँ थड़ी सर्कशीला हैं और वे उद्घव को 'तुकों ब तुकों' उत्तर देती हुई निरुद्धर करती हैं। नन्ददास में मस्तिष्क के सामने हृदय कुछ दृष्टता-सा दिखाई देता है। दर्शन काव्य का सहगामी होकर काव्य में घुस आया है और अलंकार उसे आभूषित करते दिखाई देते हैं।

ज्ञान के विरोध में प्रेम की विजय उद्घव-शतक में भी है। अज के उन्हें सन्ते बातावरण के संपर्क में आते ही उद्घव के

ज्ञान का गुमान घट गया । वे गुरु बनकर आये थे, चेला बनकर लौटे । 'रत्नाकर' जी की गोपियाँ जितनी सरल हैं उतनी ही चतुर । वे जितनी विवश हैं उतनी ही बाकूपदु । उनकी वाक्य-चातुरी विनोद-मिश्रित है, अतः तकों में शुष्कता का आभास तक नहीं ।

इस परम्परा में भगवान् के व्यक्तित्व को एक अनूठे ही ढंग से प्रस्तुत करने वाले श्री मैथिलीशरणजी गुप्त के 'द्वापर' की महत्त्वा और कृष्ण-काव्य से उसके विशिष्ट स्थान पर बहुत कम व्यक्तियों की दृष्टि पड़ी है । 'गोपी' शीर्षक रचना में यद्यपि बहुत कुछ प्राचीन कवियों के तर्कों का सहारा लिया गया है—वही ज्ञान का तिरस्कार और प्रेम की महिमा का उद्घोष, वही 'निरुण' 'निरीह' 'निराकार' 'योग' शब्दों को अपने अपने पक्ष में घटाने का प्रयत्न, वही रस-चर्चा, वही भोलापन, वही विवशता, वही त्याग और वही अनन्यता वहां मिलेगी—पर एक नवीन सजीवता के साथ । थोड़ी अलौकिकता भी अंथ के अन्त में संस्कारों की प्रेरणा से प्रवेश कर गई है जैसे—एक मूर्ति, आधे में राधा, आधे में हरि पूरे । साथ ही 'उद्धव' शीर्षक प्रसङ्ग में उस ज्ञानी ने 'गोपियों की गोष्ठी' का जो वर्णन किया है, उपमाओं की वह राशि, रम्य कल्पनाओं की एक अमूल्य निधि है । वहां एक से एक मौलिक, एक से एक सरस, एक से एक गुम्फित भावों की विस्तृत लड़ी को लिए पंक्ति गुप्तजी की प्रभावशालिनी लेखनी से निकली है—

अहा ! गोपियों की यह गोष्ठी  
वर्षा की ऊषा—सी,  
व्यस्त—ससम्ब्रम उठ दौड़े की  
सखलित ललित भूषा—सी ।

उस अकान—सी, ठीक मध्य में  
जो पथ के आई हो,  
कूद गए मृग की हरिणी—सी  
जो न कूद पाई हो !

अवश अचलता—सी, जिससे हो  
रस — चंचलता चूती,  
कठिन मान की हठ—समाप्ति—सी  
खोज रही जो दूती ।

सम्पुटिता होकर भी अलि को  
धर न सकी नलिनी—सी,  
अथवा शून्य—बृन्त धर उड़कर  
मैडराई अलिनी—सी ।

चंद्रोदय की बाट जोहती  
तिमिर—तार—माला सी ।  
एक एक ब्रेज—बाला बैठी  
जागल्क ज्वाला—सी ।

—द्वापिर

‘प्रिय प्रवास’ में आकर उपाध्याय जी का हष्टिकोण बदल रखा । वे आधुनिक परिस्थितियों से भी प्रभावित हैं । उद्धव के द्वारा उन्होंने भी योग की थोड़ी चर्चा कराई है पर कृष्ण के प्रेमी हृदयका वर्णन करके उन्होंने अन्य कवियों से अधिक परिमाण में ‘तुल्यानुराग’ की प्रतिष्ठा की है । सूर के कृष्ण को किसी किसी ने अत्यन्त निष्ठुर बतलाया है । देखा जाय तो सूर के कृष्ण भी गोपियों से मिलने में चाहे किसी कारण से विवश हों, पर उनसे विमुख नहीं थे । उद्धव से उन्होंने स्पष्ट ही कहा था, ‘सूर चित्

तें टरत नाहीं राधिका की प्रीति ।' इत्नाकर के कृष्ण ने तो अपनी विरह-व्यथा 'नैकु कही बैननि, अनेक कही नैननि सौं, रही-सही सोऊ कहि दीन्ही हिचकीन सौं ।'" हरिओधजी के कृष्ण कुछ अधिक व्यथित हैं, यद्यपि उनकी दृष्टि में प्रेम की अपेक्षा कर्त्तव्य का मूल्य अधिक है। विश्व का प्रेम उन्हें व्यक्तिगत प्रेम से अधिक प्रिय है। कृष्ण लोक-सेवा में व्यस्त हैं, अतः नहीं आ सकते। उनकी गोपियाँ नन्ददास की भौति तर्क नहीं करतीं, अबुध अबला बतला कर अपने को योग की अनधिकारिणी समझती हैं, अपनी त्याग—शक्ति की चर्चा करती हुई उद्घव का ध्यान 'रोने-धोने विकल बनने दग्ध-होने न सोने' की ओर ले जाकर प्रेम की गरिमा उन्हें समझाना चाहती हैं। राधा भी 'निर्लिप्ता और सच्यता' होने पर कृष्ण के लिए अपनी व्याकुलता व्यक्त कर ही चेती हैं—मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से बिछता हूँ। फिर भी वे बहुत ऊँची उठती हैं। वे अपने दुःख से नहीं, व्यथित ब्रजबासियों के दुःख से दुःखी हैं। कृष्ण के गुणों का भी 'प्रिय-प्रवास' में विकास हुआ है। बार-बार उनकी शिष्टता, धिनोद, सेषा, दयालुता, प्रेम—भावना आदि की चर्चा हुई है।

राधा-कृष्ण प्रेम की परम्परा में उपाध्यायजी के नायक-नायिका में अन्य कृष्ण-प्रेमी कवियों के कुछ गुण परिष्कृत रूप में पाए जाते हैं। विद्यापति का अनुराग उनकी राधा में है और संयत रूप में, सूर की सगुणोपासना उनमें है और अधिक व्याख्या के साथ। नन्ददास की महितष्क-प्रधानता भी उनमें है जो मोह और प्रणय के अन्तर के बर्णन में प्रकट हुई है। 'इत्नाकर'जी की भाँति उनकी गोपियाँ अनन्य अनुरक्ता भी हैं, यहाँ तक कि एक स्थान पर तो बहु-विवाह-प्रथा को समर्थन भी उन्होंने अदूरदर्शिता से किया है। दूसरी ओर विद्यापति की

सधुरता उपाध्याय जी को प्राप्त नहीं है, सूर की सी भावों की अनंतता उन्हे नहीं मिली, नन्ददोस के तर्कों से भी वे बच्चिव हैं और रत्नाकर के से सजीव अनुभाव—चित्रण की भी उनमें कमी है। फिर भी उपाध्याय जी की दो बड़ी विशेषताएँ हैं—मर्यादा और सेत्रा—भावना जिनकी ओर अन्य कवियों का ध्यान नहीं गया।

ब्रजबासियों के प्राण कृष्ण कंस के निमन्त्रण पर अकूर के साथ मथुरा चले जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते। उनके इस 'प्रवास' का बर्णन ही इस ग्रन्थ का विषय है, अत इसका नाम 'प्रिय-प्रवास' रखा गया है।

प्रिय प्रवास के मुख-पृष्ठ पर ही 'भिन्नतुकांत कविता का एक महाकाव्य' लिखा मिलता है। यह वाक्यांश उपाध्याय जी की साठ पृष्ठों की भूमिका का सार या प्रिय-प्रवास के गले का साकीज अथवा ढोल है। नायक, छन्द, सर्ग, रस, वर्णन की आवश्यकताओं की पूर्ति साकेत की भाँति यीं इसमें भी है। राधा-कृष्ण जैसे लोकप्रिय व्यक्ति नायक-नायिका हैं, सप्तदश जिसमें सर्ग है, घुमा फिरा कर सात छन्दों का जिसमें प्रयोग है, शङ्कार और करुण की जिसमें प्रधानता है, नगरी (मथुरा), सरिता (यमुना), सारी अनुओं, दिवस-रात्रि के सभी प्रहरों और न जाने कितने वृक्षों, लताओं, पुष्पों और पक्षियों के जिसमें वर्णन हैं पर प्रबन्ध के नाम प्रिय-प्रवास साकेत से भी आगे बढ़ा हुआ है—उसका अग्रज जो है! साकेत में तो आठवें सर्ग से ही प्रबन्ध खड़ित मिलता है, पर प्रिय-प्रवास में उसका प्रारम्भ सातवें सर्ग से ही कर दिया है। साकेत में द्वादश सर्ग पर यह बात समाप्त हो जाती है, पर प्रिय-प्रवास में यह 'रोनाधोना' सत्रहवें सर्ग तक अर्थात् दस सर्गों में चलता है।

उपाध्याय जी संक्षेप—प्रिय व्यक्ति नहीं हैं। प्रथम पाँच सर्गों में जिन में कथा बँधकर चलती है केवल एक रात की घटनाएँ वर्णित हैं। यह वात नहीं है कि उपाध्याय जी ने कृष्ण—चरित्र संबन्धी घटनाओं की उपेक्षा की हो। कृष्ण के जन्म, उनके बड़े होने, घुटने चलने, दौड़कर गोद में आने, क्रीड़ा करने के विवरण बड़े विस्तार से दिये हैं। कालिनाम, दावानल, गोवर्धनधारण, अघासुर, व्योमासुर आदि की कथाएँ जितना स्थान घेर सकती थीं उतने से कम में फैल फूट कर नहीं बैठी हैं। रास का वर्णन पूरे रस के साथ किया है। भ्रमर-गीत भी परिवर्तित रूप में आया है। नंद, यशोदा, राधा, गोपियों, सखाओं, बृद्धों की वियोग-दशा का चित्रण भी पूर्ण मार्मिकता के साथ मिलेगा। पर उपाध्याय जी का यदि यह विचार रहा हो कि जब वर्णन करना है तब आगे लिख दिया तो क्या और पीछे लिख दिया तो क्या प्रत्येक दशा में महाकाव्य बन जाता है, सो नहीं। पिछले दस सर्गों के वर्णन जिनमें कृष्ण की युवाकाल तक की प्रमुख घटनाएँ सम्मिलित हैं 'वियोग' के अन्तर्गत आते हैं और उसके अधीन होने से स्वतन्त्र कथानक और प्रबन्ध की शक्ति उनसे छिन जाती है। अतः प्रिय प्रवास भी साकेत की भाँति महाकाव्य नहीं।

यह काव्य-ग्रन्थ संस्कृत के वर्ण-वृत्तों में लिखा गया है। इसमें उन्होंने मालिनी, मन्दाक्रांता, वंशस्थ, वसंततिलका, द्रुत-विलंबित, शादूल-विक्रीड़ित तथा शिखरिणी सात छन्दों का प्रयोग किया है। कविता अन्त्यानुप्रासहीन ( अतुकांत ) है, यह ठीक है, पर भिन्न तुकांत होने से किसी तुर्कात ग्रन्थ से इसका माधुर्य कम नहीं। गणों में बन्धन आहे कितना ही हो, पर एक एक पंक्ति उस बंधन की तपस्या में निखरकर खराद पर तराशी जाकर, एक विचित्र गति और माधुर्य मलका देती है। छन्दों में माधुर्य

भरने के लिये उपाध्याय जी ने भी कम प्रयत्न नहीं किया । छन्द तो एक ढाँचा है । सार-वस्तु शब्द हैं । भाषा में जितना लालित्य संभव था उन्होंने भरा है । इसके लिये अनुप्रास का हृदय खोल कर उपयोग किया है । पंचदश सर्ग के मध्य में तो उन्होंने धूम मचा दी है ।

सानुस्वार शब्दों के प्रयोग से भी कहीं कहीं गूँज भरी है-

कलोलकारी खग—वृंद कूजिता,  
सदैव सानद मिलिंद—गुंजिता ।  
रही सुकुञ्जे बन में विराजिता,  
प्रफुल्लता, पल्लविता, लतामयी ।

कहीं कहीं तुक-यद्यपि अपवाद स्वरूप ही-चारों पंक्तियों तक  
में विद्यमान है-

विपुल—ललित-लीला-धाम आमोद—प्याले,  
सकल-कलित-क्रीड़ा औ कला में निराले ।  
अनुपम बनमाला को गले बीच डाले,  
कब उमग मिलैंगे लोक—लावण्य बाले ॥

भाषा प्रिय-प्रवास की संस्कृतगर्भित है । पंक्तियाँ दीर्घ समासों से लदी हुई हैं । प्रधानता संस्कृत के तत्सम प्रयोगों की है, पर साथ में ब्रजभाषा के अनेक शब्दों जैसे सुश्रन, ढिंग, सिगरी, बैंडी, बिसूरना, बगरना, भाखना, फारसी अरबी के कुछ चलते शब्दों जैसे गरीबनि ( अ० ) दिलजले ( फा० ), ताब ( फा० )- के प्रयोग हैं । इन पर कोई आपत्ति नहीं । फिर भी संस्कृत के ऐसे सीधे प्रयोग जैसे आदौ, उरसि, स्वञ्जायया खटकते हैं, गद्य के ऐसे प्रयोग जैसे इसलिए, के लिये, अतः,

शनैः शनैः, पुनः पुनः, वस्तुतः, प्रायः, यथारथ्य स्वर्वे लगती हैं, शब्दों के रूपों का ऐसा तोड़ना जैसे नहिं, वैसि, विच, अच्छा नहीं लगता, मात्राओं का ऐसा बढ़ाना जैसे 'शशी' 'पत्ती' 'वृत्ती' कोई सौंदर्य-वृद्धि नहीं करता और छन्द-भङ्ग न होने देने के लिये ऐसे शब्दों को अपनाना जैसे पै, लौं, बौं रुचिकर नहीं, या फिर शब्दों को इकठे, अकले, लौटाल रूप में विकृत करना किसी हृषि से श्रेयस्कर नहीं। अपने शब्दों के प्रयोग पर उपाध्याय जी ने एक बहुत बड़ा तर्क यह उपस्थित किया है कि अन्य लेखक क्योंकि इस प्रकार के (अशुद्ध) प्रयोग करते हैं अतः वे भी कर सकते हैं। उपाध्यायजी पद्म में भी वाक्य को पूर्णरूप में लिखने के अभ्यासी हैं। प्रत्येक पंक्ति में या फिर जहाँ वाक्य समाप्त होता है 'आ', 'थी', 'है' लिखा अवश्य मिलेगा। कभी-कभी तो यह सन्देह होने लगता है कि उपाध्याय जी पहिले गद्य में सोचते हैं फिर पद्म में लिखते हैं। उनके वाक्यों का अन्वय सरलता से होनाता है। निम्न-लिखित पंक्तियों पर हृषि डालिये—

(अ) कोई उम्हें न सकता कर था कभी भी ।

वे कार्य औ वरस द्वादश की अवस्था ।

(आ) जिलोक आता उनको प्रफुल्लिता ।

महा हुई, गोप—कुमार मंडली ।

(इ) यह दिन वह था औ एक है आज का भी ।

कहीं-कहीं शब्द भाव को प्रकट करने में असमर्थ हैं—

यदि पथिक 'दिखाता' तो यही पूछती थीं ।

प्रिय सुत यह आता क्या कहीं या 'दिखाया' ।

प्रिय-प्रवास में एक दर्जन स्थानों पर छन्दोभङ्ग है। सेषु कौं दीर्घ और दीर्घ को लघु पढ़ने की प्रथा है, सालित्य रक्षा के लिये स्वरूप परिवर्तन करने में दोष नहीं, आदि तकाँ के स्थान

पर उन शब्दों के पर्यायों का प्रयोग कर देना था या फिर भाव को अन्य शब्दों में व्यक्त करना था—

(१) सकल 'कामिनी' की कल • कणठता ।

(२) देखा विहार हस 'यामिनी' में जिन्होने ।

(३) कैसे ऊधो कुदिन 'अननि' मध्य होते बुरे हैं । (पचम संस्करण)

रूप - गुण सम्पन्ना राधा इस काच्य की नायिका हैं, उपाध्याय जी के रूप - लर्णन में कोई नवीनता या विशेषता तो नहीं । चिरपरिचित उपमानों के सहारे एक सुन्दरी बालिका का आभासमात्र उन्होंने दिया है - 'राकेन्दु विम्बानना' 'सूरगहगी', 'सोने - सी काति', 'कंज से हृण' आदि । कली कुञ्चित लम्बमान अलके कहते ही एक हृश्य क्षणभर के लिये नेत्रों के सामने घूमता है, पर तुरन्त बिलीन हो जाता है । 'लोल - कटाक्षपात - निपुणा' तथा 'भ्रूभंगिमा परिंडता' के विशेषण प्रिय - प्रवास की राधा के व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं पढ़ते क्योंकि उपाध्याय जी ने अपनी राधा को वही 'सद्' के बोझ से लाद दिया है यहाँ तक कि वज्र और अलंकारों के साथ भी यह चिपका हुआ है - सद्वस्त्रा, सद्लंकृता, सच्छालाञ्जितापरा, सद्भाषातिरता, सत्प्रेम सम्प्रेषिता आदि ।

राधा की स्थिति यह है कि उसके पिता और कृष्ण के पिता घनिष्ठ मित्र थे । बाल्यकाल में ये दोनों शिशु साथ साथ बढ़े, खेले और फिर प्रेम में पगे । राधा ने अपना हृदय कृष्ण को अर्पित किया और मन में उन्हे पतिष्ठप से प्राप्त करने की कामना की । ठीक इसी समय कृष्ण कभी न लौटने के लिये मथुरा चले गये । राधा ने यह रात तड़प - तड़प कर काटी । अधीरता मिश्रित आश्वासन, अतेशङ्का, प्रेम, व्याकुलता की

व्यंजना एक साथ करने वाली हन दो पंक्तियों के अंतर में राधा के अंतर के दर्शन कीजिए—

प्रिय स्वजन किसी के क्या न जाते कहीं है ।

पर हृदय न जाने दग्ध क्यों हा रहा है ?

पवन दूत में राधा के हृदय की पीड़ा, सर्यादा और सुहृदयता तीनों पूरी पूरी व्यक्त हुई हैं । अपने संदेश की उन्हें चिंता है अवश्य, पर उससे अधिक ध्यान है पवन की असाधानी सं 'लज्जाशीला युवति' के विकृत-वसना होने का, भ्रमर-भ्रमरी के रस-पान की बाधा का, जलान्ता कृषक-ललनाओं का, दोगी पथिकों का तथा ढीठ भौंरों से परेशान बालाओं का । कृष्ण को अपनी दशा बतलाने के जो उपाय राधा ने पवन को बतलाए हैं वे बड़े मार्मिक तो हैं, पर इच्छा होती है कि पवन के सामने भी वे केवल व्यंजना से काम लेते । मार्मिक स्थलों पर पाठकों की बुद्धि पर भी थोड़ा विश्वास करना चाहिए—

कोई प्यारा —कुसुम कुम्हला भौन में जो पढ़ा हो ।

तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसे तू ।

यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला ।

स्लाना हो हो कमल-पग को चूमना चाहती है ।

उद्घव के सामने अपनी शिष्टता, सौम्यता, संयम और स्नेह को परिचय राधा ने बड़े उपयुक्त ढंग से दिया है । एक स्थल पर राधा ने कृष्ण-प्राप्ति की आकृक्षा को जगत-हित-कामना से प्रबल बतला दिया है । इस पर एक आदर्शवादी चट से आक्षेप कर बैठे । पता नहीं ऐसे व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहते हैं या सीधे ब्रह्मलोक से उतर कर आतोचना करने आते हैं । पहिले तो हृदय में किसी कामना का होना और उसके अनुरूप

काम करना दो बातें हैं। फिर राधा के हृदय का धाव भी अभी पूरा नहीं भरा है और उसके शरीर में हृदय के स्थान पर पत्थर का टुकड़ा भी नहीं है-

मैं नारी हूँ, तरल-उर हूँ, प्यार से बंचिता हूँ ।  
जो होनी हूँ विकल-विमना-व्यस्त बैचित्र्य क्या है ?

प्यार और लोकहित-भावना के दोनों कूलों का स्पर्श करती हुई राधा की भाव-धारा बही है। हृदय से तो वे यही चाहती हैं कि श्यामघन से मिलन हो जाता, पर प्रेम के लिए प्रिय को कर्त्तव्य से विमुख नहीं करना चाहती। प्रेम और कर्त्तव्य में जहाँ संघर्ष उपस्थित हो, व्यष्टि और समष्टि की हित-कामना में से जहाँ एक को चुनना पड़े वहाँ अपने स्वार्थ की बलि दे देनी चाहिए। राधा ने यही किया है। सच्चे प्रेमियों ने सदैव ऐसा ही किया है। हम भी राधा से यही आशा करते हैं। उसके प्रेम की शोभा इसी में थी।

प्रेम की पीड़ा उसके व्यक्तित्व को दबा भीहीं पाती यह उसके व्यक्तित्व का महत्व है। प्रेम में निराश होकर जो अकर्मण बन जाता है उसे मैं तुच्छ समझता हूँ। ऐसे प्राणी के प्रति दया चाहे कितनी ही उत्पन्न हो, आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। शूरत के देवदास उपन्यास से पावर्ती जितनी महान् प्रतीत होती है देवदास क्या आधा भी उतना आकर्षक लगता है ? देवदास न केवल प्रेम का निर्वाह किया है, पार्वती ने प्रेम और कर्त्तव्य दोनों का। देवदास केवल घुल घुल कर मरना जानता था, पार्वती घुल घुल कर जीना। देवदास घुलने वाले प्रेम की मोमबत्ती है, पार्वती उस घत्ती की शिखा जो जलती है, जलाती है पर अकाश भी फैलाती है। देवदास जैसे अकर्मण प्रेमी (Passivo

lover) के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती है, परं पार्वती के प्रति श्रद्धा। दुःख दोनों में से किसी का कम नहीं है। राधा 'पारो' में भी महान् है। उससे भी तीखी पीड़ा को जहाँ उसने पिया है वहाँ अपने कर्त्तव्य के क्षेत्र को विस्तृत भी रखा है। नंद, यशोदा, गोपबालाओं, गोपों में से ऐसा कौन है जिसके दुःख को अपनी सेवा से उसने कम नहीं किया? पशु, पक्षी, कीट, पतंगों तक उसकी ममता विस्तृत है। परं राधा की आन्तरिक पीड़ा इतनी स्पर्शिणी है कि वह पाठक को बरौनियों से ओसू छनकर मलकर्ती है-

हो उद्विग्ना परम जन यों पूछती थीं यशोदा,  
क्या आवेंगे न अब ब्रज में जीवनाधार भेरे?  
तो वे धीरे मधुर-स्वर से हो विनीता बतार्ती,  
हाँ आवेंगे, व्यथित-ब्रज को श्याम कैसे तर्जेंगे?

आता ऐसा कथन करते वारि राधा दृगों में,  
बूँदों बूँदों टपक पड़ता गाल पै जो कभी था।  
ओ ओँखों से लदुख उसको देख पाती यशोदा,  
तो धीरे यों कथन करती खिन्न हो तू न बेटी॥

राधा और उर्मिला बीसवीं शताब्दी के समान प्रतिभाशाली दी हिंदी कवियों की तूलिकाओं, से चित्रित दो करुण-मधुर चित्र हैं। उन दोनों में समता इतनी है कि वे दोनों प्रेमिकाएँ हैं, दोनों विरह-व्यथिता हैं। परन्तु दोनों की स्थिति भिन्न होने से दोनों का विकास दो भिन्न मार्गों से हुआ है। राधा कुमारी है, संयत प्रेमिका है, उर्मिला विवाहिता है घर की स्वच्छन्द रानी है। कृष्ण के मथुरा गमन से पहिले की उन कीड़ाओं की उपाध्यायजी ने स्वीकार नहीं किया जिनका वर्णन विद्यापति

और सूर ने विस्तार से किया है। रावा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे के घर आते जाते थे पर मर्यादा भङ्ग कभी नहीं हुई। प्रणय का विकास हुआ है, पर कामनाएँ अंतर में ही घुमड़ती रही हैं। 'सविधि वरण' करने पर ही ये पूरी हो सकती थीं। उर्मिला को हँसी विनोद और 'परिरंभन' की स्वतंत्रता है। साकेत का प्रथम सर्ग इसी चित्रण में समाप्त हुआ है। अपने अपने प्रेमियों के घर छोड़ने पर दोनों के छटपटाने अथवा मूर्छित होने में इतना अंतर है कि जहाँ उर्मिला सोचती है कि हाय लक्ष्मण अब बहुत दिन के उपरान्त मिलेंगे वहाँ राधा सोच भी नहीं सकती कि कृष्ण कितने दिन बाद मिलेंगे? मिलेंगे भी अथवा नहीं। उर्मिला के विरह वर्णन में गुप्तजी ने गृहस्थी की एक ऐसी बात का यहाँ तक कि एकान्त की घटनाओं का भी उल्लेख किया है। उपाध्यायजी वैसा नहीं कर सके क्योंकि उनकी राधा को यह सौभाग्य प्राप्त ही नहीं हुआ। उसके हृदय में केवल दर्शन की उत्कण्ठा है। लक्ष्मण लौट कर आते हैं तो उर्मिला यौवन—हानि के थोड़े खेद के साथ उन्हें भेट कर धन्य हो जाती है, और कृष्ण—सखा उद्घव आते हैं तो राधा विधि के विधान को स्वीकार करती हुई जीवन भर कुमारी रहने के ब्रत को पूर्ण करने का आशीर्वाद माँगती है। उर्मिला ने यौवन का अनुभव किया, थोड़ा खोया और फिर उसकी उमड़न को प्राप्त किया, पर राधा ने कभी यह जाना हो नहीं कि यौवन कब आया और कब चला गया। दोनों कवियों ने अपनी अपनी नायिकाओं का मानसिक विकास बहुत स्वाभाविक रखा है। उर्मिला की गति है बासना, वियोग और प्रेम-मानिनी, विरहणी और पत्नी, राधा की गति है प्रणय तीव्रतर प्रणय और तीव्रतम प्रणय-प्रेमिका, वियोगिनी और लोक-सेविका। उर्मिला जब अपने पति को द्विवारा प्राप्त करती है, तब तक उसके अरमान ढीले होगए हैं,

पर राधा का आन्तरिक आवेश अपने उच्चतर सोपानों पर चढ़ रहा है। अतः अपने संयत आवेग को यदि वह सेवा में परिवर्तित ( Transfer ) न करती तो जीवित न रहती, जीवित रहती तो विक्षिप्त होजाती। जहाँ तक वर्णन का संबन्ध है वहाँ हमें उपाध्यायजी का वर्णन अधिक मार्मिक और स्वाभाविक प्रतीत होता है।

कृष्ण से मधुरतम पुरुष व्यक्तित्व की कल्पना सभवतः संसार के साहित्य में कहीं न हुई हो। सभी कवियों की भाँति उपाध्यायजी के कृष्ण भी परम सुन्दर, सुकुमार कला - प्रिय, सरस - हृदय गुणवान् व्यक्ति हैं। वे महापुरुष हैं। क्या नन्द, क्या यशोदा, क्या गोप, क्या आभीर और क्या गोपियों सब उन्हे उनके गुणों के कारण स्मरण करते हैं। प्रिय प्रवास में कृष्ण का चरित्र इतना व्यक्त नहीं हुआ जितना वर्णित हुआ है। प्रथम सर्ग में वंशी बजाने की उनकी निपुणता का परिचय ही हम काव्य - मञ्च पर पाते हैं, या फिर विदा होते समय यशोदा माँ के चरण स्पर्श करते उन्हें देखते हैं और थोड़ा उद्धव को विदा करते समय अपने प्रेमी हृदय का परिचय देते। कृष्ण अधिकतर पट के पीछे ही रहते हैं। इतनै पर भी उनका पूरा स्वरूप भलक जाता है। इस गुण - वर्णन में भी जाति, देश और लोक - हितकारी का उनका रूप बहुत प्रसुख है। संभवतः यह आधुनिक समय की भाँग की प्रतिष्ठनि है—

(अ) सबजात औ जन्म - धरा निष्ठि मै,  
न भीत हूँगा विषकालं सर्प से।

(अ) प्रवाह होते तक शेष - श्वास के,  
स - रक्त होते तक एक भी शिर।

स-शक्त होते तक एक लोम के,  
किया करूँगा हित-सर्वभूत का ।

कृष्ण को महापुरुष के रूप में चित्रित करने के लिये जैसे उनमें सर्वभूत हित-रत गुण की वृद्धि की है उसी प्रकार गोपियों के साथ गो-रस सम्बन्धी छेइछाड़ और चीर-हरण जैसी लीलाओं को छाँट दिया है । रास के वर्णन में केवल गोपियाँ ही नहीं गोप भी हैं - पूरी विमोहित हुई' यदि गोपिकाएँ, तो गोपवृन्द अति मुग्ध हुए स्वरों से । कृष्ण सम्मिलित हैं । सबके पास आकर सरस बात करते हैं, पर क्रीड़ा गोप-गोपियों में ही हो रही है । गोपियाँ पुष्प वर्षी करती हैं तो 'पिय अंक में'; गोप 'स-पल्लव, स-पुष्प मनोज्ञ शाखा' भेट करते हैं तो अपनी प्रेमिकाओं के कर में । कृष्ण प्रकृति में अपनी हृषि दौड़ाते हुए सतीत्व - महिमा की घोषणा करते हैं—

( १ ) ये भाखने पति-रता-अवलम्बिता का,  
कैसा प्रमोदमय जीवन है दिखाता ।

( २ ) ये यौ ब्रजेन्दु कहते ललना-सती का,  
स्वामी ब्रिना सब तमोमय है दिखाता ॥

अलौकिक घटनाओं की कहीं कहीं तो कवि ने व्याख्या कर दी है जैसे ऊँगली पर गोवर्धन धारण करने का उन्होंने यह अर्थ लगाया है कि घोर वर्षी में गिरि - गुहाओं में दौड़ कर कृष्ण ब्रजबासियों की सुविधा का विधान इस त्वरा से कर रहे थे कि 'सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया ऊँगली पर श्याम ने ।' यहों एक मुहावरे की चाल से ही उपाध्याय जी ने मात कर दिया । पर जादू तो सर पर चढ़कर बोलता है । अलौकिकता कहीं कहीं आ ही गई है जैसे काली के शीश पर खड़े होने में —

फणीश शीशोपरि राजती रही,  
सुमूर्ति शोभामयि श्री मुकुन्द की ।

इस महापुरुष का हृदय भी पीड़ित है । परमात्मा के साथ भी निरंकुश व्यवहार करने वाले प्रेम की अपवादहीन निर्ममता आश्रय का विषय है । राम और कृष्ण दोनों को अपनी स्नेह-संगिनियों के साथ निष्ठुर व्यवहार करके जीवन भर चुप-चुप सिसकना पड़ा है । इस जगत में जो जितना बड़ा है वह उतना दुःखी है । कृष्ण के हृदय में गोकुल की ममता है, माता-पिता की चिता है, गोपियों की निर्मल स्मृति है, सखाओं की प्रीति है, और राधा के लिये अजस्त आँसुओं का निर्भर है । राधा को जो सन्देश मिला है उसमें ये पंक्तियाँ कितनी विकल हैं ।

उत्कण्ठा के विवश नम को, भूमि को, पादपोंको,  
ताराओं को, मनुज मुख को प्रायशः देखता हूँ ।

प्रिय-प्रवास में करुणा की जो सरिता बही है उसमें सब से पृथुल धारा यशोदा के शोक की है । कृष्ण जिस प्रभात में गमन करने वाले हैं उसकी पूर्व रात्रि यशोदा कुल-देवता और जगदम्बा की प्रार्थना में ही बिताती हैं । कृष्ण की शय्या के पास बैठ कर वे जोर से रो भी नहीं सकतीं । सिसकती जाती हैं, विनय करती जाती हैं और बार बार धीरे से चादर हटा कर शुत का भोला मुखङ्गा देखती जाती हैं । प्रेम अनेक आशंकाओं को जन्म देता है और प्रत्येक आशङ्का पर माता का हृदय सिहर उठता है । विदा करते समय छोटी से छोटी बातों की चिंता में भारा की ममता देखी जासकती है ।

यशोदा की प्रतीक्षा अत्यन्त स्वाभाविक ढङ्ग पर चित्रित हुई है । पुत्र के लिए फलों, मेर्वों और विभिन्न पकवानों को सँभालकर

खबने से अधिक माँ का बातसह्य और किस बात से प्रकट हो सकता था ? जरा सी आहट पर चौंक पड़ना, किसी को आते देख कर अंतर का आशा से भर जाना और उसके निकल जाने पर उर का धक-धक करने लगना कुषण की स्मृति को उभारने वाले नित्य कर्मों के दुहराए जाने पर उन्हे किसी बहाने से रोकना आदि ऐसी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि कवि माता के अन्तर में सहज—भाव से बहुत गहरा उत्तर गया है ।

अदि दधि मथने को चैठतीं दासियाँ थीं  
मथन-रब उन्हे था चैन लेने न देता ।  
यह यह कह के ही रोक देनी उन्हे थीं,  
सुम सब मिलके ब्या कान को फोड़ दोगी ॥

यशोदा-उद्धव प्रसङ्ग में भूत वर्तमान भविष्य की कितनी स्मृतियाँ पीड़ायें और विफल आराएँ मूर्त्तिमती होगई हैं ! कुषण की कीड़ाओं के स्मरण, उनके सुख की अपवर चिता, छिन्न आकांक्षाओं की अपूर्ति, जह, चेतन वस्तुओं से भावोदीपन की तीव्र अनुभूति में जो यशोदा का हृदय बहा है वह घने शोक के एक सूने वातावरण की सृष्टि हमारे अन्तर में कर जाता है । प्रगाढ़ ममता की दुर्घटता में क्षण भर को यशोदा के हृदय में देवकी के प्रति ईर्ष्या जगती है—हीता जाता ममतनय भी अन्य का लाडला है, पर माता की उज्ज्वल उद्धारत । तुरन्त उस भाव को दबा देती है—हा ऐसी ही व्यथित अघ कर्यों देवकी को करूँगी ।

काठव के अन्त में यशोदा को ‘व्यथिता, मूर्छिता और विपन्ना’ दिखाकर कवि ने एक भग्न हृदय को करुणा के निराधार शून्य में सदैव के लिए लटकता छोड़ दिया है ।

यशोदा के दुःख का समकक्षी ही नन्द का दुःख है। कंस के निमन्त्रण पर सुनसान निशीथ में सुख पर हाथ रखकर चिता-सुद्धा में बैठने, व्याकुलता से निर्जन कक्ष में घूमने, उच्छ्रवास फेंकने, चुपचुप आँसू ढलकाने से ही पिता के दुःख का चित्रण बिना एक शब्द के उच्चारण कराए हुआ है। अपने पुत्रों का मथुरा पहुँचा कर गोकुल लौटने का कठोर काम भी नन्द को ही करना पड़ा। कृष्ण की सेवाओं का स्मरण कर वे भी उनके वियोग में तड़पते दिखाये गए हैं। उन्हे कवि ने संयत और गंभीर रखा है। यह सम्भवतः उनके पुरुष होने का दण्ड है। पर इससे उनकी व्यथा और गहरी होगई है, इसमें सन्देह नहीं।

प्राकृतिक छाताओं का विभाजन उपाध्याय जी ने इस ढंग से कर लिया है कि इससे उमड़े काम में भी सहूलियत होगई है, भाव प्रसार को भी अवकाश मिला है और किसी को यह शिकायत भी नहीं हो सकती कि कहने के लिए कुछ रह गया है। यह विभाजन इतना स्पष्ट ( Obvious ) है कि उसे पाने के लिये 'गहरे पानी पैठ' की आवश्यकता नहीं है। प्रथम सर्ग 'संध्यापटी' पर अङ्कित है। दूसरे सर्ग का प्रारम्भ जब होता है तब 'द्विघटी निशा' गत होचुकी थी। तृतीय सर्ग 'अद्व॑·रात्रि' को लेकर चलता है। चतुर्थ सर्ग रात्रि के 'चतुर्थ ( अंतिम ) प्रहर' में समाप्त होता है। पञ्चम सर्ग में स्वभावतः 'छागई व्योम लाली ।' एकादश सर्ग में एक गोप 'निदाघ' का वर्णन करता है। द्वादश में एक आभीर के सुख से 'वर्षा' काल का दृश्य उपस्थित कराया गया है। चतुर्दश में एक गोपी 'शरद' की कमनीयता का उल्लेख करती है। और षोडश सर्ग में स्वयं कवि 'मधु-साद' की शोभा दिखलाता है। रहे वृक्ष, लताएँ। यह काम नक्स सर्ग को सौंपा गया है। वृक्षों में जम्बु, रसाल, कहस्ब,

निम्ब, फालेसा, निम्बू, औवला, लीची, दाढ़िम, नारिकेल, इमली, शिशपा, इङ्गदी, जारङ्गी, अमरुद, विलव, बदरी, सागौन, ताली, तमाल, केला, शालमली, अशोक, पारिजात, मधुक, पीपल, बट, पनस, आत के नाम आए हैं। उरास्थ के एक एक छुन्द मे चृक्षों के बंश का बर्णन है। यदि हस समय ये सब वृक्ष वहाँ एकत्र न मिलें तो कृष्ण के समय में अध्यश्य उग आए होगे। इस विशद विरद्भवर्णन खे पहिले ही उपाध्यायजी ने चृक्षों का बंश—वृक्ष दिया है जिसमे 'आत' जैसे आतताई या कम महत्त्व शाली पादपों के नाम छूट गये हैं, पर कस मे गढ़बड़ी नहीं है—

जम्बू, अम्ब, कदम्ब, निम्ब, फलसा, जम्बीर औ आँवलों।

लीची, दाढ़िम, नारिकेल इमलों औ शिशपा हंगुदी ॥

नारंगी, अमरुद, विलव, बदरी, सागौन शालादि भी।

श्रेणीवद् तमाल ताल कदली औ शालमली ये खड़े ॥

ऊचे दाढ़िम से रसाल-तरु ये औ आम से शिशपा।

यों निम्नोन्चे ग्रसंख्य—पादप—कसे वृंदाटवी बीच ये ॥

फिर इनकी प्रियाओं—मेधाविनी आधबी, प्रलोभनीयो खवंगलतिका, असितो प्रियंगु, तपोरता रत्तिका, मञ्जु-इन्जकान्तताओं का बर्णन है। अतिथियों में एकाकी जीव भी हैं और सप्तमीक प्राणी भी, जैसे कलापी-केकिनी, कपोत-कपोती, शुक, पषोहा, शारिका, चकोरी, लाल, शाखाघृण (बन्दर), अरने, चीते, बैल सुरभी। ब्रज-भूमि के ब्रकृति-प्रांगण में शिशुओं की क्रीड़ा उद्घवजी ने कुछ काल के उपरान्त देखी। यह खवाभाविक भी था। पञ्चदश सर्ग में जहाँ वे एक उन्मत्ता गोपी को कुञ्ज में धूमते देखते हैं वहाँ शुमन शिशुओं से उपवन-ओंगन जगमगा रहा है। वहाँ बालरु भी हैं, बालिकाएँ भी। नाम-

सुनिये—जूही, पाटल, चमोली, वेला, चम्पा, बंधूक, श्यामवटा, सूर्यमुखी । इनके अङ्ग इतने खिल गए हैं कि भ्रमरों से इनकी छेड़छाड़ भी प्रारम्भ होगई है । इसके अतिरिक्त 'क्षिति' का वर्णन 'पद - चिह्न' के रूप में, 'जल' का सर और सरिता (यमुना) के रूप में, 'पावक' का दावाग्नि के रूप में 'गगन' का सन्ध्या, यामिनी, प्रभात के रूप में और 'समीर' का पवन - दूत के रूप में पाया जाता है दी ।

दिवस के अवसान से यामिनी के अन्त तक के ही वर्णन प्रियप्रवास में इस लिए अधिक हैं कि काव्य का वातावरण विषादपूर्ण है । यह बात ध्यान देने की है उपाध्याय जी ने इन प्रहरों को 'तमस - निर्मित' रखा है । ब्रजवासियों से कृष्ण को छुड़ाने वाली इस कृष्ण पक्ष की रात को कृष्ण - पक्ष की कैसे कहे ? बाह्य प्रकृति और आन्तरिक प्रकृति में सामब्जस्य प्रिय-प्रवास में सर्वत्र है । प्रकृति मानवीय भावनाओं से कहीं ऐकाकार होगई है, कहीं उसका अङ्ग बन गई है । काव्य के प्रारम्भ में सन्ध्या का अत्यन्त सरल वर्णन है । उन प्रारम्भिक सोलह पंक्तियों में केवल 'वर्ण' और 'ध्वनि' को ही कवि ने भरा, पर ध्वनि हो ही रही है कि अचानक वंशी बज उठती है, दिशाओं में लालिमा मिलने नहीं पाई कि 'सजल - नीरद सी कल - कांति' वाले कृष्ण दिखाई पड़ते हैं । कृष्ण नेत्रों से छिपते हैं कि सन्ध्या का तम गढ़ा होजाता है और मुरली की ध्वनि जैसे धीरे धीरे पवन में विलीन होती है वैसे ही नीरवता छाती जाती है । तम और नक्षत्रों की भावुकता—अभावुकता, जनविलोचन तथा कमल - लोचन की कमल - लोचन के लिए यह प्यास जिसमें आगे के कथानक का आभास भी है कवि की गहरी आँदूता की परिचायिका है—

यह अभावुकना तम - पुज की,  
मह सकी नहिं तारक - मडली ।  
वह विकास - विवर्द्धन के लिये,  
निकलने न भ - मंडल में लगी ॥

'तदपि दर्शक - लोचन - लालसा,  
फलवनी न हुई हुई तिलमात्र भी ।  
नयन की लख के यह दीनता,  
मकुचने सरसीरुह भी लगे ॥

उपाध्याय जी ने प्रकृति का हृदय पहिचाना है । कृष्ण के सथुरा-गमन की हृदय-विदारक सूत्रना से पहिले प्रकृति में तम भर दिया है । कृष्ण - वियोग की चिन्ता में मग्न नन्द को दिखाने के पूर्व सभीर शांत, पादप शांत, व्योम शांत, तारक शांत, दीप-शिखा शांत, भीगुर शांत ... सब शांत हैं । राधा उस रात कुछ अधिक विकल हैं । उनके चारों ओर दिशाएँ रो रही हैं, दीप-ज्योति मलिन पढ़ गई है । व्योम के उर में पीड़ा की अनल-शिखाएँ फूट निकली हैं । और प्रभातकाल में जब तक कृष्ण विदा हो भी नहीं पाते कि प्रकृति ओस - बिंदुओं के रूप में रोती दिखाई गई है । नन्द के प्रत्यागमन पर सूर्य पहिले से ही कौपता हुआ निकलता है ।

ऐसी प्रकृति के अंतर में सहानुभूति को स्थापना स्वाभाविक थी जिसका बहुत सुन्दर उपयोग उपाध्याय जी ने पवन को लेकर उसी प्रकार किया जिस प्रकार कालिदास के यज्ञ ने मेघ को लेकर । कालिदास की माँति ही उपाध्यायजी ने अपने दूत को पथ - निर्देश किया और स्थान - परिचय कराया और साथ ही संकेतों से दशा - निवेदन का काम सौंपा । वृक्षों, वेजियों और

पुष्पों के वर्णन में अस्वाभाविकता केवल इतनी है कि उन्होंने तांत्र बौध दिया है। नहीं तो उनके रूप, रङ्ग, आकार और गुणों से पूरी जानकारी प्रकट की है। ऋतुओं के वर्णन भी सकारण हैं। श्रीमद वर्णन दावाग्नि के समय किया है, वर्षा का वर्णन गोबद्धन—धारण की घटना के समय, शरद का वर्णन रासलीला के पूर्व और वसन्त का वर्णन उद्घव-राधा के परिचय के समय। शरद ऋतु जैसे अपनी अनुकूलता से सुहावनी बनी। श्रीमद और वर्षा जैसे अपनी भयङ्करता से विकराल प्रतीत हुई हैं। उसी प्रकार वसन्त अपनी प्रतिकूलता से पीड़ादायक सिद्ध हुआ। ऋतुओं के इन वर्णनों में उनकी समस्त विशेषताएँ शब्दों की कक्षणा, आद्रेता, कमनीयता और मधुरता के सहारे प्रदर्शित की गई हैं।

- (अ) तवा समा थी तपती वैसुन्धरा,  
सुक्लिंग वर्षारत तस-व्योम था। (श्रीमद)
- (आ) जलद थे दल के दल आरहे,  
उमड़ते, घिरते, बज धैरते। (वर्षा)
- (इ) अत्युज्ज्वला पहने तारक-मुक्त-माला  
दिव्यांक्रा वन अलौकिक कौमदी से।  
शोभाभरी परम मुर्गकरी हुई थी,  
राका-कलाकर-मुखी रजनी-पुरञ्ची (शरद)
- (ई) मुकोपलैं थीं तस-अंक में लसी,  
स-गङ्गरागा अनुराग—रंजिता (वसंत)

आलंकारिक रूप में प्रकृति का उपयोग जैसे सब करते हैं वसे ही उपाध्यायजी ने भी किया है। प्रकृति को कृष्ण-वियोग से छिन्न तो दिखाना था ही, पर उसे कहीं कहीं उद्घसीन

( indifferent ) भी चित्रित किया है जैसे पञ्चदशा सर्ग में गोपी की व्यथा को वहुत से विकसित युष्म नहीं समझ पाते । सब से बड़ा कास उपाध्यायजी ने प्रकृति से यह लिया कि उससे ब्रज-वासियों के हृदय, के घाव को भरवाया । इसी के सहारे राधा को अपूर्व शांति मिली है । प्रकृति में कृष्ण के अङ्ग - प्रत्यङ्ग की शोभा के दर्शन से जहाँ अन्य विरहिणियों को पीड़ा होती वहाँ राधा के उर में आनन्द का स्रोत फूट पड़ता है—

तेरा होना विकल दयिते बुद्धिमत्ता नहीं है,  
क्या प्यारे की वदन - छवि तू इन्हु में है न पानी ।

प्रत्येक कलाकार की अपनी कमियाँ होती हैं । कृष्ण के जीवन की सारी घटनाओं को दुहराने की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिये उन्हें अनेक पात्र नियुक्त करने पड़े हैं । उद्घव से एक पात्र अपनी कथा समाप्त करता है कि दूसरा छेड़ देता है । इससे चाहे ब्रजवासियों की शिष्टता ( Etiquette ) और कृष्ण के प्रति उनकी व्यापक समता का पता चलता हो पर बातों 'का तार' न दूटने से एक प्रकार की उकताहट ( Monotony ) उत्पन्न होती है । कहीं कहीं कवि पंक्तियों के भीतर से निकल कर एक घटना को दूसरी से जोड़ता प्रतीत होता है । इससे कला - भावना पर निश्चय ही आघात पहुँचता है--

आओ, आओ, सहृदय - जनो सङ्ग आभीर छोडो ।  
देखो बैठो सदन कहतीं क्या कई कामिनी हैं ॥  
रोते रोते विपुल लिय की लाल आँखे हुई हैं ।  
जो रोती है कथन पहले हूं उसी का सुनाता ॥

इस्ल अन्थ की भाषा यद्यपि कहीं कहीं अपरिचित सीं लंगती है, फिर भी उपाध्याय सीं ने आभीर आदि को बुलवाते समय

अथवा करुणा के अधिक आवेश में उसे अपेक्षाकृत सरल कर दिया है। मोह और प्रणय में सूक्ष्म विस्तृत अतर दिखलाना तथा नवधा भक्ति की अपने भावानुकूल व्याख्या करना राधा की आयु के बहुत अनुकूल चाहे पड़े अथवा नहीं, पर उद्घब जैसे ज्ञानी व्यक्ति को बच्चों की भौति समझाने की आवश्यकता नहीं थी। प्रिय-प्रवास को पढ़ने से इतना पता अवश्य चलता है कि कवि का हृदय अत्यन्त कोमल है। उपाध्यायजी गुप्तजी की टक्कर के ही कवि हैं। और प्रिय-प्रवास साकेत से किसी बात में कम नहीं है। सर्ग की दीर्घता को ठीक रखने के लिये कवि ने पात्रों के मुख से विरह-व्यंजना तो आवश्यकता से अधिक कुछ दूर तक अवश्य कराई है, पर वैसे छन्द, भाषा, भाव, गुप्तजी के समान ही उसकी उज्ज्ञली पर खेलते हैं। अभिव्यक्ति को सबल बनाने के साधन भी उसके पास पर्याप्त हैं। प्रथम सर्ग में कवि ने प्रकृति के बीच अपने नायक को दिखाकर यह प्रत्यक्ष किया है कि ब्रज-वासी किस सहज-भाव से प्रकृति के अंचल में पले थे। वहाँ प्रकृति और प्राणी एक ही वस्तु के दो अंग प्रतीत होते हैं। वर्णन करते समय कवि की दृष्टि प्रकृति पर भी है और प्राणियों पर भी। वह भावों में बहकर न पृथ्वी को भूलता है और न आकाश को। वहाँ वंशी-वादन का आयोजन है। बहुत से प्राणी एकत्र हैं, पर कवि ने किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया। केवल वातावरण का चित्रण अपने में पूर्ण और विलक्षण है। आगामी घटनाओं की सूचना भी कही वातावरण की उदासी और कहीं पात्रों की आशङ्काओं के द्वारा दी है। कषण की विदाई पर ब्रज-वासियों के साथ कृष्ण के तोते और उनकी गायों की विकलता प्राणियों की विकलता में भिलकर उसे धनी-भूत कर रही है। हश्य और वस्तु वर्णन में भी उपाध्यायजी को

धूरी सफलता मिली है। ऋतुओं और कालि—नाग का वर्णन कितनी सजीवता से किया है? करुणा के चित्रण से उपाध्यायनी सिद्ध-हस्त हैं ही। गोप-गोपियों का कृष्ण के भ्रम में उद्धव को घेरना भी अत्यन्त श्वासाविक है। कहीं कहीं व्यंजना का प्रयोग हस चतुराई से किया है कि सहज लक्षित नहीं हो पाती जैसे राधा का ऐसे कुञ्ज में बैठना जो 'समावृता 'श्यामल—पुष्प' संकुला' थी। भावों की व्यंजना भी कुछ स्थलों पर सटीक हुई है।

(क) रोमों क भी अवलि जिसके रङ्ग में ही रँगी है।  
कोई देही बन अवनि में भूल कैसे उसे दे?

(ख) सोधे-दूबी अलक जब है श्याम की याद आती।  
ऊधो मेरे हृदय पर तो सौप है लोट जाता।

इन पक्षियों के पढ़ने मान्न से प्रतीत होता है जैसे कोई चुहिया बड़ी कठिनता से खिसकती गिड़गिड़ाती हुई किसी के पास आ रही हो—

आई यारे निकट भ्रम से एक बृद्धा प्रवीणा,  
हाथों से छू कमल-मुख को प्यार से ली बलाएँ।  
पीछे बोली दुखित स्वर से तू कहीं जा न बेटा,  
तेरी माता अहह कितनी बाजली हो रही है।

प्रिय-प्रवास प्रेम के वियोग-पक्ष का करुण-निर्दर्शन है।  
इसमें प्रेम की, 'आदर', सख्य, 'स्नेह', 'वात्सल्य', 'भक्ति', और  
'प्रणय' सभी वृक्षियों का चित्रण पूर्ण तल्लीनता से हुआ है  
जिसमें लीन होने पर हृदय बार बार यही सोचता रह जाता है—

यदि विरह विधाता ने सृजा विश्व में था,

तब इमुति रखने में कौनसी चातुरी थी?

## साकेत

आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल का यह व्यंग्य कि “साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उमिंबा ‘काव्य की उपेक्षिता’ न रह जाय” कोई अर्थ नहीं रखता। नवीन कथानकों के साथ ही जब प्राचीन आस्थानों को एक भिन्न हष्टिकोण से प्रहरण करने पर नवीन काव्य-प्रन्थों का सूजन हो सकता है और होता रहा है तब मैथिलीशरणजी के प्रयास पर आकेप करना कुछ जँचता नहीं। बात यह है कि रामचरितमानस भारतीय भानस में कुछ ऐसा बस गया है कि तहँ किमि और समाय’ की स्थिति उत्पन्न होगई है। केशव की रामचन्द्रिका तुलसी द्वारा अकित उन भानुवंशी की चरित्र-प्रभा के सामने जैसे फीकी पढ़ गई, मैथिलीशरण का साकेत—नक्षत्र भी ‘भानुकुल के निष्कलङ्क मयङ्क’ की ‘चरित’—व्योत्सना के सामने वैसे ही टिमटिमाता है। यदि मानस न होता तो ‘रामचंद्रिका’ और उज्ज्वल रूप में चमकती, यदि मानस में अवगाहन करने का पुण्य—पर्व न प्राप्त होता तो ‘साकेत’ के दर्शन को साहित्य-प्रेमी और भी उत्कण्ठा से लपकते। यह दूसरी स्थिति है। लेकिन मानस अनन्त लहरों से हमें रस-सिक्क करने में समर्थ है, अतः ‘चंद्रिका’ न झलकती, ‘साकेत’ का निर्माण न होता, यह तो कोई तर्क नहीं है। मानस के तट पर साकेत का निर्माण और ऊपर से चंद्रिका का उसकी रसभरी ऊर्मियों से गले मिलने आना क्या साहित्य-दर्शकों के लिए और भी कौतुक की वस्तु नहीं है, उनकी वैभवचृद्धि नहीं है !

यह बात सुनते सुनते आप पुराने होगए होंगे कि टैगोर ने प्राचीन काव्यों की कुछ उपेक्षिताओं को स्मरण किया, आचार्य

द्विवेदीजी ने उस आकांक्षा को हिन्दी वालों के सामने रखा और हिंदी कवियों में से मैथिलीशरणजी ने अपने गुरु को एक दिन यह हृष्ट-सूचना दी—

लक्ष्मण के शर की अनी ननाकर ठाँकी,  
मैंने विरहिन की एक मूर्ति है आँकी ।  
आसू नयनों में, हँसी बदन पर बांकी,  
फांटे समेटती, फूल छोटती फ़ोकी ॥

जब पाठकों ने इस भाँकी के दर्शन किए तब उन्हें पता चला कि उन्होंने केवल उर्मिला की मूर्ति ही अंकित नहीं की, कैकेयी का उद्धार भी किया है, मारडबी के हृष्टय-कमल को भी खोला है अतिकीर्ति की सूकता भी भङ्ग की है । केशव के समचन्द्रजी से यदि मैथिलीशरणजी की भेंट हो जाती सो हगुमान की भाँसि उनकी पीठ भी थपथपाते हुए वे कहते 'धाह भाई ! गये एक काज को अलेक करि आये हो ।'

कभी कभी लेखिनी कवि के वश में नहीं रहती इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण साकेत है । उर्मिला का विरह - वर्णन ही यदि गुम जी का उद्देश्य रहा हो तो हम इस धात को खिना किसी प्रतिवाद-भय के कहना चाहते हैं कि वे लक्ष्य - भ्रष्ट होगए हैं । मैथिली-शरणजी को साकेत मे यदि कहीं सफ़लता नहीं मिली तो विरह-वर्णन में । मिलन का वर्णन वे सुन्दर कर सकते हैं । प्रथम और अंतिम सर्ग में उर्मिला - लक्ष्मण मिलन के दोनों स्थल अत्यन्त सजीव हैं । नवम सर्ग में काढ़य ने उनका साथ छोड़ दिया है जिसकी पूर्ति उन्होंने चमत्कार के द्वारा की है । यों अस्सी प्रुष्ठों में चार-छः स्थल सुन्दर बन ही पड़े हैं । साकेत के 'निवेदन' में उन्होंने कहा

है 'नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष) रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है।' इसके विपरीत हमारा निवेदन है कि यदि नवम सर्ग को वे आधा कर दें और विरह से असंबंधित रूखे प्रसङ्गों को निकाल दें तो अनुपात (Proportion) और रस दोनों दृष्टियों से वह सर्ग श्रेष्ठ हो जाय। इससे पूरे साकेत का 'ही कुछ और रूपरूप हो जायगा। उमिला-लद्दमण को लेकर वे चले हैं, पर उनकी राम-भावना के कारण सीता-राम के रूप का रङ्ग यदि अधिक गहरा नहीं तो कम गहरा भी नहीं है। उमिला-विरह की कथा कहते समय उन्हे यह भी ध्यान आया कि चलो लगते हाथ पूरे मानस की कथा ही कह डालें तो क्या बुरा है। इससे उन्होंने अपनी कथा को यद्यपि अयोध्याकांड से ही प्रारम्भ किया, पर कोई कांड ऐसा नहीं है जो कहीं अनायास और कहीं बरवश न घुस आया हो। ग्रन्थ का नाम साकेत है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि घटनाएँ साकेत (अयोध्या) में घटी हैं। कवि को विवश होकर चित्रकूट जाना पड़ता है—सम्प्रति साकेत—समाज वहीं है सारा।' नहीं तो स्थान परिवर्तित न हो इसके लिए गुप्तजी ने साकेत में ही सज्जीवनी-जड़ी मँगा दी, साकेत में ही शत्रुघ्न के मुख से राम की वन-यात्रा की कथा कहला दी और साकेत में ही विशिष्ठ की योग-शक्ति से लङ्घा में राम की विजय दिखला दी। प्रथम आठ सर्गों में अयोध्याकांड की कथा है। दशम सर्ग में उमिला सरयू से 'बालकांड' की कथा दुहराती है। एकादश सर्ग में 'अरण्य-कांड' की आधी कथा शत्रुघ्न सुनाते हैं, बाकी आधी और साथ ही 'किछिकधा', 'सुन्दर' और थोड़ी 'लङ्घा' काण्डों की कथा हनुमान सुनाते हैं। लङ्घा काण्ड की जो कथा रह गई है उसे द्वादश सर्ग में विशिष्ठ अपने जादू से क्षितिज-पट पर दिखा देते

हैं । रह गया उत्तरकांड । वह एकादश सर्ग में उत्तर आया है । शत्रुघ्ने के मुख से साकेत का वैभव वर्णन एक प्रकार से राम-राज्य का वर्णन है । तात्पर्य यह है कि उर्मिला के प्रति कवियों ने जो उपेक्षा दिखलाई उसे मैथिलीशरण जी दूर करना चाहते थे । राम को वे ईश्वर माते हैं । उनके प्रति भी पूर्ण भावोद्रेक प्रकट करना चाहते थे । और साकेत में ही रामचरित की पूरी कथा भी कहना चाहते थे । परिणाम यह हुआ कि न तो उर्मिला शीर्ष-सन पर प्रतिष्ठित हो पाई और न साकेत निर्देष प्रबन्ध - काव्य हो पाया । पिछले दो सर्गों में जो उन्होंने कथा न कहकर उसे पात्रों द्वारा कहलाया अथवा दिखाया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों सर्ग प्रबन्ध की दूसरी दृटी टँग हैं जो लटक कर रह गई हैं ।

लक्ष्मण और उर्मिला इस प्रबन्ध - काव्य के नायक - नायिका नहीं हैं । गुप्तजी का प्रयत्न तो यही रहा है कि वे इस युग्म को अपने काव्य के नायक - नायिका बनावें । पर उनके आराध्य राम इसके नायक बन बँठे हैं । उर्मिला ने यद्यपि साकेत के बहुत पृष्ठ घेरे हैं - आरम्भ मध्य, अन्त में सभी स्थलों पर वह आ धमकती है, पर इससे क्या हाता है ? उसे केवल मुख्य पात्रों का पद उसी प्रकार से दिया जा सकता है जिस प्रकार चन्द्रगुप्त नाटक में चाणक्य को । अतः साकेत के 'कार्य' के लिये पहिले 'उर्मिला के विरह वर्णन' का निश्चित करने का विचार करें और फिर प्रश्न - बाचक चिह्न लगाते फिरें तो क्या लाभ ? साकेत का कार्य है 'आर्य - सभ्यता की प्रतिष्ठा ।' असंदिग्ध शब्दों में मैथिलीशरण जी ने अपने इस हृषिक्षेण को व्यक्त किया है । संदेह न रह जाय अतः बार - बार इस बात को स्पष्ट करते चले हैं । राम

को बन भेजते समय जब दशरथ विद्वल होते हैं तब वे विपद्-  
भंजन कहते हैं—

मुझे या आप ही बाहर पिचरना,

धरा का धर्म-भय या दूर करना ।

साकेत से विदा होते समय गुरु वशिष्ठ भी हसका हमरण  
दिलाते हैं—

इरो भूमि का भार भाय से लभ्य तुम,  
करो आर्य-सम वन्यचरों को सभ्य तुम ।

चिन्नकूट-प्रसङ्ग में यह उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया है।  
गान्न-रत सीता 'भोली कोल-किरात-भिल्ल-बालाओं' को  
अपनो कल्पना-पटी पर लाती हुई यही तो कहती है, 'तो, मेरा  
नागर 'भाव-भैंट जो लाया।' वही राम और सीता के वार्ता-  
लाप का मुख्य-विषय भी यही है। रावण की बर्बरता से दबी  
यज्ञ-प्रथा को फिर प्रचलित देखने और वेद-वाणी को फिर  
मूँजते सुनने का जो स्वप्न राम देखते हैं उससे ऐसा प्रतीत  
होता है मानों राम-रावण का युद्ध दो सभ्यताओं का युद्ध है—  
आर्य-सभ्यता और अनार्य-सभ्यता का संघर्ष है—

मैं दूगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से ।

यहीं तक नहीं, एकादश सर्ग में शत्रुघ्न राम के कार्यों का  
विवरण देते देते धूम-फिर कर इस बात पर आते हैं—

जयजयकार किया मुनियों ने, दस्युराज यों ध्वस्त हुआ।

आर्य-सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आर्य-धर्म आश्वस्त हुआ ॥

और साकेत के अन्त में विरहिणी उमिला जब अपने खोये यौवन धन का स्मरण करती हुई विकल होती है वष लक्ष्मण उस लघु-हानि को एक महान-लाभ के समुद्र में, उस समुद्र में जिसके लिये इस दपति ने स्वयं इतना ताप सहा, हुआते हुये अत्यन्त हर्ष-पूर्वक घोषित करते हैं—

घरा—धाम को राम—राज्य की जय माने दो ।

साकेत को महाकाव्य कहने का जो भ्रम हुआ है उसका मुख्य कारण यह है कि उसमें साहित्यर्पणकार के अनुसार महाकाव्य के बहुत से लक्षणों की पूर्णि का प्रयत्न किया गया है । प्राद्यम में गणेश को लेकर मंगलाचरण है और सरस्वती को लेकर बन्दना । कथा लोक-प्रसिद्ध नायक की है ही जो सद्वंश जात ज्ञात्रिय है । आठ सर्गों के स्थान पर बारह सर्ग हैं । नवम सर्ग को छोड़ कर प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग है और सर्ग के अन्त में छन्द को बदल दिया है । प्रधान रस शृङ्खार ( विप्रलंभ ) है । वीर, करुण आदि आये हैं, पर गौण-रूप से । धर्म, अर्थ, काम मोक्ष में से धर्म की सिद्धि होती है । वर्णनों में नगर ( साकेत ), प्रेम, यात्रा प्रभात, संध्या, रजनी, सरिता, ( सरयू, गंगा ) पर्वत ( चित्रकूट ), घट-शृङ्खुओं सृगया, वन, रण—सज्जा, युद्ध आदि के वर्णन हैं । इसके अतिरिक्त कला, देशानुराग, दास्पत्य-सम्बन्ध, जड़वाद ( Materialism ), राजा-प्रजा के सम्बन्ध, उपयोगितावाद, नारी की महत्ता आदि पर भी व्याख्यान हैं । यह सब होते हुए भी साकेत महाकाव्य नहीं हैं, क्योंकि ये सारी बातें एक दम बाहरी ( Formalities ) हैं । जिसका प्रबन्ध ही खंडित है वह महाकाव्य कैसे हो जायगा ? महाकाव्य के लिये बार बातों के निर्वाह की अपूर्व-

मता कवि मे होनी चाहिये । ये चार बातें हैं—प्रबन्धंवद्धि  
कथानक, चरित्र-चित्रण, दृश्य-वर्णन और रस । कथानक पहिली  
आवश्यकता है । और संक्षेप में कहना चाहे तो महाकाव्य में  
कथानक विराट हो, साथ ही काव्यत्व महान् हो । प्रयत्नज  
होते हुये भी गुप्तजीकी काव्यक्रमता में कोई सदैह नहीं कर  
सकता । और कथानक भी उनके सामने जैसा फैला पड़ा था,  
उसकी महानता में भी अविश्वास का कोई कारण नहीं था,  
परन्तु उस कथानक का वै ठीक से उपयोग नहीं कर सके ।

एकादश और द्वादश सर्ग में जब उन्होंने हृदय खोल कर राम के  
वन-पर्यटन, राम-रावण युद्ध और दण—सज्जा आदि के वर्णन  
किये हैं तब उन्हे रवतन्त्र—वर्णन का स्वरूप देने में क्या हानि  
धी । थोड़े से उल्ट—फेर के साथ ही प्रबंध के अल्परण रहने से  
अब जो साकेत में ही सारी घटनाओं के विवरण अथवा दर्शन  
की अस्वाभाविकता आई वह न आ पाती और निश्चय ही  
साकेत को महाकाव्य का सूप भी प्राप्त हो जाता । स्थान—ऐक्य  
का दोष रहता । वह दोष तो अब भी है । घटनाओं का स्थल  
लैसे साकेत है वैसे ही वन । 'सम्प्रति साकेत—समाज वहीं है  
सदा' में साकेत शब्द आने से साकेत में घटनायें घटने लगीं ।  
यह तर्क है अथवा भावुकता ? उमिला नायिका न रहती । वह  
तो अब भी नहीं है ।

अन्तिम दो सर्गों में राम की वन-यात्रा की घटनाओं को  
तीन व्यक्तियों द्वारा उल्लेख है । शत्रुघ्न ने किसी व्यवसायी के  
मुख की बातें जो भरत के सामने दुहराई हैं वे और भी लम्बी  
होती तब भी अरवाभाविकता न आती, क्योंकि वे लोग फुरसत  
से हैं जितनी देर चाहे बाते कर सकते हैं । परन्तु इन्हाँ के

पास इतना समय नहीं है। उन्होंने तीन सौ लम्बी पंक्तियों में जो विवरण दिया है वह क्या तीस पंक्तियों में नहीं समेटा जा सकता था ? जैसे जैसे वे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे लद्धण का ध्यान करके हमारा धड़कता हुआ बहु कहता है, “जल्दी कहो भाई, जल्दी……” इसका नाम ‘थोड़े मे वृत्तांत’ है ! कारण यह है कि गुप्त जी ‘बीज तुल्य वृत्त’ का बहाना लेते हैं, आकांक्षा है घटनाओं और चरित्रों की जड़ों, शाखाओं, पत्तों और फलों सब को प्रदर्शित करने की। हनुमान ने वीस पंक्तियों में चिभीषण का विवरण दिया है। दो पंक्तियों में यह काम हो सकता था, पर इससे उसका चरित्र-चित्रण होने से रह जाता ! साकेत का कवि बहुत लोभी कवि है। यदि लोभ अधिक था तो अच्छल फैलाना चाहिये था, यदि अच्छल छोटा था तब लोभ कम करना चाहिये था ।

इस बात को हम फिर दुहराना चाहते हैं कि मैथिलीशरण जी की अनिच्छा ( हार्दिक नहीं, काव्यगत ) होने पर भी राम ही साकेत के नायक हैं। सभी सर्ग उनके गाथा को लेकर चलते हैं। प्रथम, नवम, दशम और द्वादश राम अतिम अंश वाल्मीकि से उनके चरित्र से असंबंधित प्रतीत होंगे। प्रथम सर्ग में उर्मिला-लद्धण के हास-परिहास के बीच मुख्य बात है राम की अभिषेक-चर्चा-‘कल प्रिये निज आर्य का अभिषेक है।’ इसीकी प्रसन्नता में वे दोनों और दिनों से कुछ सवेरे उठे थे। चित्रांकन भी अभिषेक-प्रसङ्ग को लेकर चला है। नवम सर्ग में विरह की सारी भावनायें उर्मिला की गौरषंभावना के अधीन हैं। यह गौरव-भावना है उसके पति का राम-चरणानुरागी होना। दशम में विवाह की गाथा है। उर्मिला का लद्धण से विवाह भी राम-सीता परिणय पर अवलंबित था। इसी से उसके शंकित-हृदय ने एक बार सोचा-

प्रभु चाप जो न चढ़ा सके ? अंतिम सर्ग के उर्मिला - लद्मण मिलन की आनन्द - सरिता इस उल्लास-सिधु की ओर उन्मुख है ही - धरा-धाम को राम - राज्य की जय गाने दो । इससे थोड़े पहिले ही लक्ष्य - प्राप्ति होगई है —

देवर - भाभी मिले, मिले सब भाई भाई,  
बरसे भू पर फूल, जयन्वनि ऊपर छाई ।

प्राचीन कथानक के घट मे भी गुप्त जी ने नवीन कल्पनाओं का अमृत भरा है जिसके पान मे निश्चय ही एक भिन्न स्वाद है । राम-सीता के साथ लद्मण-उर्मिला, भरत-मांडवी और शत्रुघ्न-श्रतिकीर्ति के युग्मों की एकदम नवीन रूप में भाँकी कराई है । उक्तीशव्या की निस्पृह ममता और भी गद्दी और निर्मल - कोमल है । कैकेयी की लांछना निरूल ही नहीं पावन भी करदी है । रावण में सहदेयता की खोज और सुमित्रा में ज्ञात्राणी - भाव एकदम नई चीजें हैं । विवाह, विरह और मिलन-काल मे 'सुल-ज्ञण' दासी को उर्मिला की सखी बनाकर उसे भाव - जगत की स्वाभाविक साधिन बना दिया है । सीता के साथ उर्मिला के अपने प्रियतम के प्रथम दर्शन पर आत्म - सर्मरण की गाथा भी मधुर है । लद्मण को उद्धृत दिखाना स्वाभाविक नहीं हुआ । राम के लिये अथवा किसी के लिये हो उनका क्रोध सुन्दर और उपमुक्त शब्दों में व्यक्त नहीं हुआ । यही क्रोध - प्रदर्शन सीता के सामने विलक्षण सुन्दर हो उठा है —

उठा पिता के भी विरुद्ध मैं, किंतु आर्य - भार्या हो तुम,  
इससे तुम्हे ज्ञान करता हू, अवला हो, आर्या हो तुम ।

चरित्रों में सबसे अधिक सफलता मिली गुप्तजी को कै केयी की मूर्ति खड़ी करने में । उनके अग्न्य सभी चरित्र सरल हैं । हम चाहे तो एक एक शब्द में उनका चरित्र - चित्रण कर सकते हैं

राम पुरुषोत्तम हैं, सीता और माण्डवी पतिप्राणा, कौशल्या माता हैं, मुमित्रा ज्ञत्राणी, दशरथ धर्म - सङ्कट हैं, भरत-लक्ष्मण भ्रातृ स्नेही, परन्तु कैकेयी के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है कि वह किस समय क्या कर वैठे। उसके भाषों का उतार - चढ़ाव बड़े मजो-चैझानिक ढङ्ग से कवि ने दिखाया है। अपने पुत्र के अनिष्ट साधन के लिए माता को तत्पर करना, किरना दुःसाध्य काम है ! साकेत की कैकेयी के सामने राम-भरत का प्रश्न नहीं है, दो राम का प्रश्न है। राम के प्रति कैकेयी की ममता को समझने के लिए यह मान लेना चाहिये कि भरत और राम दोनों उसी के गर्भ सं उत्पन्न हुए हैं। राम के राज्याभिषेक की कल्पना से आह्लादित होना, मथरा के सप्तनीपुत्र और औरस - पुत्र के भेद - भाव पर खोफ प्रकट करते हुए भविष्य में राम की माता कहलाने का विश्वास और गर्व बचाए रखना और आगे चलकर चित्रकूट में राम को अपनी गोदी में पाल कर बड़े करने की स्मृति से अपने वात्सल्य का परिचय देना यह साफ़ सिद्ध करता है कि कैकेया राम को अपने पुत्र के अतिरिक्त कुछ समझती ही न थी। मंथरा अतर में मातृ - प्रेम को उमार कर, सौतिया-डाह को उकसा कर और संशय के विषबीज का व्यपन कर मानिनी कैकेयी को छोड़ जाती है। इस आवेशकाल में उससे वह अग्रुम कर्म हो जाता है जिसके लिये वह युग - युग से कलंकित है जिसके लिये किसी भी कलहातुरा खी को 'कैकेयी' कहा जाता है। राम के प्रति अपनी ममता, साथ ही भूलभरे कर्म के न्याय पक्ष को वह बड़े विश्वास के साथ व्यक्त करती है —

भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का,  
प्रतिहिंसा ने लेलिया स्थान तब भय का ।  
तुम पर भी ऐसी भ्रौंति भरत से पाती,  
तो उसे मनाने भी न यहा मै आती ।

यह कठोरा कैकेयी धीरे धीरे फिर अपने वास्तविक रूप में आती है। पहिला आघात लगता है उसे दशरथ की मृत्यु का। उस समय 'होना उसको उपहास हुआ।' दूसरा आघात लगता है उसके 'जुधित - पुत्र-स्नेह' को पुत्र की कठोर कर्कश विरक्ति-भरी खिन्न बाणी का। जिसके लिये स्नेह तोड़ा, धर्म छोड़ा, न्याय फेंका, वही उपकूल न होकर तिरस्कार करे! भाव - परिवर्तन का यह कैसा अमोघ साधन है! कैकेयी की क्रूरता दर्प - भावना, द्वेषवृत्ति सब वह जाती हैं। वह एकदम निर्मल हो जाती है, एकदम कोमल, एकदम माता, एकदम विनम्र, एकदम गद-गद्, एकदम अधीर। उसका नैराश्य-पूर्ण अनुताप - दग्ध हृदय राम को सम्बोधन करते हुये कहता है—

अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता,

करती है तुमसे चिनय आज यह माता।

कैकेयी के चरित्र का यह विश्लेषण, यह पतनोत्थान और यह पश्चात्ताप-प्रदर्शन मानस की 'गरति गलानि कुटिल कैकेयी' के चित्र से अधिक मौलिक और अधिक पूर्ण होने के कारण निश्चय ही अधिक श्लाघनीय है।

गुप्त जी संयोग-काल के कवि हैं, यह कह चुके हैं। साकेत में उमिला-लक्ष्मण के तीन मिलन - स्थल हैं—प्रथम नवम और द्वादश के उत्तराधि। तीनों ही अत्यन्त सजीव हैं। अष्टम सर्ग में राम-सीता का एक दूसरे की आँखों के सामने रहना और एकादश में भरत-मांडवी का पास बैठकर बातें करना यह सिद्ध करता है कि गुप्त जी प्राणवान कवि हैं, नवम सर्ग में भी संयोग-काल के चित्रों को, चाहे वे देवर-भाभी के विनोद पल के हों या लक्ष्मण - उमिला के आलिङ्गन - चुम्बन आदि की सृति के, सरसता की दृष्टि से आप (जैसे—माई मुख-लज्जा उसी छाती में

छिपाई थी ) पृथक् कर सकते हैं । प्रथम सर्ग उर्मिला के यौवन-निर्भर सा सरस, आकर्षक और वेगवान है । नवम सर्ग में जहाँ अपने जीवन-मध्याह में विरह-ताप से सरिता-सी सूखी उर्मिला दिखाई गई है वहाँ काव्य की धारा भी क्षीण हो गई है और शब्दों के रुखे रोड़ों के दीर्घ-पथ को पार करती हुई यह तन्वगी पय-स्त्रिनी कठिनाई से आगे बढ़ती है । अमित छन्द-डगों से चौदह वर्ष की कठोर भूमि को पार कर अन्त में फिर एक बार उर्मिला की भाँति ही उमंग से भर कर काव्य-धारा लक्ष्मण के प्रेम-पयोधि की ओर मुड़ जाती है । उर्मिला की उस सूखी विरह-दशा की साक्षिणी सी सुलक्षणा-भावुकता ने भी कवि को चकित-हसित दृष्टि से देखकर मंच से विदा होते होते कहा होगा—बोलो तो कविराज कहाँ ये रंग भरे थे ?

उपा-काल में अरुण-पट पहने हुए उषा-सी कमनीय उर्मिला का सौदर्य अपूर्व है । उस कनकवर्णी तरुणी के हीरकों में जड़े गोल नीलम से बड़े बड़े नेत्र, पद्मराग से अधर, मोतियों से दाँत, घन-पटल से केश तथा कांत कपोल उसके रूप को अनिद्य बना रहे हैं । वह ललित कलाओ-चित्र, गान, नृत्य में दक्ष तथा शिष्ट साहित्यिक दयंग्यपूर्ण परिहास करने में पटु है । उसके शरीर में यौवन की उमंग और मन में प्रेम का आवेग है । उर्मिला एक साथ ही मानमयी, प्रेममयी, विनोदमयी तथा भक्तिमयी है ।

यह भोगमयी उर्मिला वियोगमयी बनती है और वियोग को जीत कर फिर संयोगमयी होती है । नवम सर्ग के उत्तरार्द्ध में जैसे सीता गंभीर अनुग्रह से गुहा में उर्मिला—लक्ष्मण मिलन करती है उसी प्रकार सुलक्षणा द्वादश के उत्तरार्द्ध में लक्ष्मण—उर्मिला मिलन देखकर सरक जाती हैं । इन दोनों का सरकना ही एक कविता है । चित्रकूट में जैसे उर्मिला का गला रुद्ध करत-

कवि की भावुकता का साक्षी है उसी प्रकार द्वादश में मैना का मुखर होना भी। उस एक ही पंक्ति में कवि ने चौदह वर्ष का वह विरह उड़ेल दिया जिसे—

तिल तिल काट रही थी दृग—जलधार ।

**विरह - विकास और विरह - वर्णन की** जो स्फुरेखा है यदि उसे विस्तार न दिया जाता तो साकेत की मार्मिकता द्विगुणित हो जाती। लक्ष्मण के पृथक् होते समय सीता के कंधे पर उर्मिला के आँसुओं का भर भर बरसना, भारतीय ललनाओं के चरित्र के अनुरूप 'प्रिय पथ के विघ्न' न बनने का निश्चय करना, सुमन्त्र के लौटने के पूर्व उसके मुख का पीला और शरीर का कृश पड़ना वह प्रसन्नता से उन्हें विदा न कर सकी इस पर उसका बार बार पछताना, मानस-मंदिर में पति की प्रतिमा स्थापित कर जलते हृदय की आरती से आराध्यदेव की पूजा में रत रह कर अभाव में जीना कुछ कम सुन्दर नहीं है।

उर्मिला के विरह-वर्णन में कई स्थलों पर सुन्दर भाव झलक मारते हैं। उर्मिला की सहानुभूति पशु पक्षियों तक विस्तृत हो गई है। शिशिर मानस के जल को जमा देता है यही सोचकर उर्मिला उससे प्रार्थना करती है कि वह उसके मानस-भाजन में नयन - नीर को जमादे। इसे वह मोती सा सुरक्षित रखेगी और लक्ष्मण को भेट करेगी। विशाल दुःख को छोटे से छोटे रूप में समेट कर रखने का इससे सरल और कौनसा उपाय हो सकता था? वह चरण - धूलि स्पर्श करने के लिये लक्ष्मण के निकट बन मे छिपकर रहने की कामना करती है। इस अभिलाषा में कितना सुख है कितना दुःख! भूली - भूली उर्मिला ने अपनी तूली से जो विरहिणी की चिता पर देर से पहुँचे प्रेमी को रुलाकर प्रेमिका की मुखाकृति का पुष्प उगाया है उससे पाठकों के हृदय

पर कितनी गहरी चोट पहुँचती है। दशम सर्ग में घन-बिंदुओं में परिवर्तिन होने के लिये अश्रु-बिंदुओं को सरयू की भेट किया है। इस भावना में कितना विषाद है, कितना प्रेम, कितनी वेदना ! उर्मिला की विक्षिप्तावस्था में वन से लौटते लद्दमण का चित्र उपस्थित कर प्रेम और कर्त्तव्य का जो संघर्ष दिखाया है वह भी विलक्षण मार्मिकता लिए हुए है।

यह सब कुछ सुनकर लगेगा मानो 'नवम' सर्ग कितना सरस है ! परन्तु ये गिनी चुनी पंक्तियाँ हैं, गिने चुने स्थल - बिहृत समस्थल के हरियाले खंड । नवम सर्ग में सैकिंड सैकिंड पर छन्द बदलता है जिससे निश्चय ही इस का संग्रह यथेष्ट परिमाण में नहीं हो पाता । सरसता का स्थान आलंकारिक चमत्कार ने ले लिया है जिससे भाव को सहायता नहीं पहुँचती, भाव-चयत के स्थान को खाने, पीने, पहनने तथा चिड़ियों को गिनने के काम ने ले लिया है । कहीं सौंस से आकाश में फफोले पड़ने की कहीं बूँदों के शरीर को स्पर्श करते ही भाप बनकर छू - मन्तर होजाने की, कहीं मलयानिल के लू बनने की अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पनाएँ हैं । नवम सर्ग का विरह-वर्णन कवि के प्राणों की प्रेरणा से नहीं निकला । उसका यह विश्वास है कि ज्यादा कहने से अच्छा कहा जाता है । इसी से बहुत जितनी देर दृष्टिपथ मे ठहरनी चाहिये थीं उससे अधिक देर ठहरी है । चित्रकूट, बादल, नदी, किसान, किरण, होली, शतदल आदि के वर्णन बहुत कुछ स्वतंत्र कविताएँ सी हैं जो पूर्णरूप से पच नहीं पाई हैं । यों कोई न कोई कारण प्रत्येक बात का दिया जा सकता है । कहीं - कहीं कल्पनाएँ बड़ी विचित्र सी हैं जैसे फूल को 'लता का आँसू' कहना । सुमन में जो रम्यता भरी हुई है वह उसे लता की हूक का परिणाम सिद्ध होने में बाधक होती ही है । और यह कितने

च्याश्चर्य की वात है कि उर्मिला के इस दीर्घकालीन विरह के जीवन में परिवार का कोई प्राणी प्रवेश नहीं पता। उसके एकांत निवास के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह उस कुल की वधु ही नहीं है।

साकेत का वर्णन एक अत्यन्त समृद्धशाली नगरी का दर्शन है जिसमें प्रत्येक ओंगन में शिशुओं की अनिवार्य कलित् · क्रीड़ा और आधि-व्याधि की पूर्ण शांति से यद्यपि आदर्श की गन्ध आगई है, पर 'दधि विलोङ्गन' 'शास्त्र मंथन' की ध्वनि और यज्ञ-युप तथा कीर्ति-स्तम्भों के दर्शन से उसके तात्कालिक रूप को प्रत्यक्ष किया गया है।

प्रकृति - धर्णन में अधिकतर तो वस्तुओं का विवरणमात्र है, जैसे दशम सर्ग में प्रभात का वर्णन। पठ्चम सर्ग का बन-वर्णन भी ऐसा ही है। केवल छाया का वर्णन वहाँ चित्रमय भी है, इस्य भी और भावपूर्ण भी। प्रथम सर्ग में प्रभात का वर्णन कुछ अधिक ललित् · कल्पना - कलित है। वहाँ पृष्ठभूमि के रूप में प्रभात की लालिमा उर्मिला के सौदर्य को दिगुणित कर रही है अथवा अपने सौदर्य को अगणित कहा नहीं जा सकता। प्रकृति को कवि ने परिस्थितियों से प्रभावित भी किया है और उसे मानवीय भावों को गहरा बनाने वाला भी रखा है। दशरथ के शबदाह से पूर्व प्रकृति को एक विधवा के रूप में दिखाया है, और चित्रकूट में भरत की कार्य · समाप्ति पर उसे हँसते किलकिलाते। द्वादश सर्ग में युद्ध - यात्रा के अवसर पर शत्रुघ्न त्वरयु की उज्ज्वल धारा को 'साँस लेकर' निहारते हैं। नवम सर्ग में उर्मिला के दिन प्रकृति के साथ ही कटते और ढलते हैं। भावों की लपेट में वहाँ प्रकृति के न जाने कितने रूप खुलते हैं। गुप्तजी ने उर्मिला के विरह-वर्णन को बहुत कुछ षट्क्रतु वर्णन

मै इछु कर दिया है । प्रकृति भी उसके साथ सहानुभूति करती दिखाई देती है । ग्रीष्म में इधर दीन-दृग् दुःखी हैं, उधर मीन मृग विकल्प हैं, हेमन्त में यदि उमिला घर में दुबली थी तो पद्मिनी सर में जाल-शेष थी, शिशिर में मकड़ी सहानुभूति दिखाती ज्योंकि वह भी तो उमिला जैसी जाल-गता थी । बसंत में घटूपदी ( भ्रमरी ) भी उसी प्रकार पश्च में गतिहीन बैठी थी जिस प्रकार निज सज्ज में सप्तपदा ( विवाहिता ) उमिला । इसी प्रकार उमिला के आँसू देख लता भी फूल के रूप में अपने आँसू झड़ली थी । गुप्तजी ने विराट् दृश्यों को कहीं विराट् और कहीं कहीं लघु चित्रों में बांधने की सफल योजना की है—

( अ ) तम में क्षिति-लोक सुस यों,

अलि नीलोत्पल में प्रसुत ज्यों । ( द्वाषम सर्ग )

( आ ) वन-मुद्रा में चित्रकूट का नग जङ्गा । ( पंचम सर्ग )

( इ ) हुआ विदीर्ण जहों तहों श्वेत आवरण जीर्ण,  
छोम शांख-कंचुक धरे विपधर-सा विस्तीर्ण । ( नवम सर्ग )

साकेत में अध्युनिकता का पुट यहों बहों है । मैथिलीशरण-जी ने जैसा दिखाया है जैसा ब्रेता में नहीं होता था, ऐसी आपत्ति हम नहीं करते । फिर भी ग्रन्थ में कुछ ऐसे संदर्भ हैं जिनस यह घता चलता है कि साकृत का निर्माण बीसवीं शताब्दी में हुआ है । शङ्का यह नहीं है कि राम के बन जाते समय जनता उनके रथ के 'आगे लेटी' अथवा नहीं, उसने 'उनसे रौद' कर जाने को कहा था अथवा नहीं, 'लोकमत' को ओर उनका ध्यान श्राक्षित किया था अथवा नहीं, राम ने 'विनते-विद्रोह' शब्द का प्रयोग किया होगा अथवा नहीं ? इसी प्रकार सीमा पर पहुँच कर जगवान् राम मोर्त्य-भूमि के गुणानुवाद में साकेत के राम की अस्ति तल्लीक हुए थे अथवा नहीं ? द्वादश सर्ग में सेना को

उत्तोजित करते समय भरत-खण्ड पर अत्याचार करने वालों को नस्क मिलने की अभिशाप-भावना, दस्युओं के हाथ में कुल-लक्ष्मी के पड़ने पर क्षोभ-भावना और वैरियों को मारने की उत्तो-जना-वृत्ति शत्रुघ्न के हृदय में जगी, सैनिकों के हृदय में जगाई गई अथवा नहीं ? निवेदन इतना ही है कि ब्रेता की कथा को कहते समय कवि बीसवीं शताब्दी के भारत और उसकी राज-नीतिक हलचल को भी भूला नहीं है, इसे संभवतः उसका हृदय भी अस्वीकार न करे ।

दशरथ का परिवार एक सम्पन्न हिंदू परिवार का चित्र है और उसका वातावरण एक सनातनधर्मी गृह का वातावरण है, देवताओं की पूजा जहाँ होती रहती है और जहाँ किसी स्वार्थ को लेकर कोई छीं कुछ दिन को कलह उत्पन्न कर देती है जिसे मिटाने के लिए कुटुम्ब-भावना को अनुग्रह रखने के लिए, मिलकर रहने के लिए परिवार के अन्य व्यक्ति त्याग करने को तत्पर रहते हैं । होम करते समय सनातन-धर्मियों के विश्वासानुसार पितृपरितोष के चिह्न-स्वरूप इस हृश्य पर ध्यान दीजिये—

होगई होम की शिखा समुज्ज्वल दूनी,  
मंदानिल में मिल लिली धूप की धूनी ।

‘प्रसाद’, ‘गुप्त’, ‘उपाध्याय’ और गुरुभक्तसिंहजी में से विनोद अथवा हास्य का विधान केवल गुप्तजी ने थाढ़ा-बहुत किया है । प्रथम सर्ग में उर्मिला-लक्ष्मण की विनोद-धार्ता गुद-गुदी उत्पन्न करने वाली है । एकादश सर्ग में हीर्ष जटाधारी धनुर्धर भरत से माण्डवी का पीछे से चुप आकर यह कहना कि ‘जटा और प्रत्यञ्चा में कौन लम्बी निकली ?’ पक्ष पल के लिए उस विषाद-मग्न वातावरण में मुसिकान की किरण दौड़ाता है । नवम-सर्ग में देवर-भाभी अथवा ननद-भाभी को लेकर मज्जाक की

स्मृतियों को हम नमकीन कहें अथवा मधुर निश्चय नहीं कर पते। अंतिम सर्ग में युद्ध की उस उछलकूद वाली स्थिति में जहाँ 'केतु भक्तका रहे थे, वज्र भक्तका रहे थे, शश भक्तका रहे थे, लोग टक्कटका रहे थे' और नगर जगेया जगर-मगर जग-मगा रहे थे' शत्रुघ्न 'न बानर ही यश लेलें' के लोभ को सामने रख सैनिकों को उत्तोजित कर रहे हैं। वशिष्ठ की शांत वाणी के छींटों से जब इस भक्तकाने और भक्तकाने का उफान शांत होता है तब सैनिकों की स्थिरों ने इस कमाल से मुँह बना कर 'बानर यश लेगए' कहा है कि सैनिक खिसियाते हुए भी मुसका उठे होंगे। लंका में हनुमान के मैं वह हूँ जो जला गया था 'लङ्घा पहिले' वाक्य से ऐसा प्रत द्वेता है मानो कोई बन्दर किसी खिड़की में से मुँह निकालकर अपनी विचित्र मुद्रा से हमें हँसा गया हो।

साक्षेत में गुप्तजी ने 'कला' पर अपने विचार प्रकट किए हैं। गमचरितमनस में तुलसी ने कविता क्या है, कविता कैसे लिखी जाती है, कविता किसके लिये लिखी जाती है, कविता कहाँ तक लोक-प्रिय होती धाहिए, कविता का लक्ष्य क्या है आदि प्रश्नों पर विचार किया है, मैथिलीशरणजी 'कला कला के लिए' ( Art for the sake of art ) सिद्धान्त को नहीं आनते, 'कला जीवन के लिए' ( Art for the sake of Life ) बाले सिद्धांत को मानते हैं। वे हृदय से आदर्शवादी ( Idealist ) हैं तथ्यवादी ( Realist ) नहीं। सुन्दर को सुन्दरतर बनाना और असुन्दर को उभरने न देना उनका लक्ष्य रहता है। कला सम्बन्धी धारणाओं में प्रेमचन्द्रजी और गुप्तजी एक हैं। हमारा विश्वास है कि इतनी स्पष्ट च्यास्त्रया कोई गद्य से भी नहीं कर सकता था—

(१) अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला ।

( कला की परिभाषा )

(२) सुन्दर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला ।

( श्लील - अश्लील पर धारणा )

(३) जो अपूर्ण, कला उसी की पूर्णि है । ( कला की महत्त्वा )

अनेक परिवर्तनों को स्त्रीकार करते हुए भी गुप्त जी अपने कथानक के सृजन में तुलसी के बहुत ऋणी हैं इस बात को उदाहरण देकर सिद्ध करने की सम्भवतः आवश्यकता नहीं है । गीता के सिद्धान्त भी अनेक स्थलों पर अनुचाद होकर आये हैं । रहीम, बिहारी आदि कवियों के सुन्दर भाव भी स्मृति ख्याल में रह गए हैं । दशम सर्ग में जिसके प्रारम्भ में ही कर्वि ने कालिदास की जय मनाई है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेघदूत की कल्पना का गुप्तजी ने उपयोग किया हो । जैसे यक्ष अपनी विरह-गाथा मेघ को सुनाता है, उसी प्रकार उर्मिला अपनी जीवन-गाथा सरयू को सुनाती है और जैसे यक्ष उसकी मौनता को सज्जन की मौनता मानकर यह विश्वास कर लेता है कि मेघ ने उसके कार्य को सहर्ष स्वीकौर कर लिया उसी प्रकार लक्ष्मण की चरणरङ्ग छूने की अभिलाषा में अपने आँसुओं को भेट करती हुई उर्मिला यक्ष का सा यह विश्वास प्रकट करती है —

अनुमोदन या विरोध है ?

मुझको क्या यह आज बोध है ?

मन के प्रतिकूल तो कहीं,

करते लोग कुभावना नहीं ।

तुझको कल कांत - नादिनी,

गिनती हूँ अनुकूल - वादिनी !

साक्षेत के नवीन संस्करणों में गुप्तजी ने यहाँ वहाँ बहुत से परिवर्तन किये हैं—कहीं शब्द के, कहीं पंक्तियों और कहीं कहीं

पूरे पद के। आट दस स्थलों पर ऐसे परिवर्तन हृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से दो का उच्चलेख करते हैं। एक नवम सर्ग में 'विरह संग अभिसार भी' पद है। उससे किसी विशेष सौदर्य की वृद्धि नहीं हुई। उनके किसी भी गीत में वांछित कोमलता और स्वर-सरसता नहीं है। सम्भवतः यह पद 'नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था' की एक छोटी किस्त है। पर ऐसे सर्ग में दशरथ के मृत्युकाल के समय कुछ पर्कियाँ बढ़ाकर राम-वियोग के ताप से छूटपटाकर मरने वाले व्यक्ति को कौशल्या के अनन्त उत्सर्गपर्णी नारी हृदय की छाया में अपूर्व शान्ति प्रदान की है। पहिले यह बात नहीं आ पाई थी—

पाकर दशरथ जैसा दानी,  
कर चुकी भोगिनी मनमानी।  
माँगो तुम भी कुछ पटरानी,  
दूँ लेकर आँखों का पानी।

'मागूँगी क्यों न नाथ तुमसे,  
दो यही मुझे कल्पद्रुम से।  
कैकेयी हों चाहे जैसी,  
सुन-विचित्रता न हों मुझ जैसी।'

"क्या यही माग कर लेती हो,  
या मरण-शाति तुम देती हो?"

अन्तर के भाव को बाहर प्रकट करने के लिये गुप्तजी ने पात्रों की मुद्राओं और अङ्ग - भङ्गियों का सधे हाथ से अङ्कन किया है। स्नेह में उर्मिला की 'लतित नीवा भंगी', मंथरा पद्म क्रोध करते समय कैकेयी की भोंहों का वक्ष होना, तथा कपोलों पर बातों का हिलना, लच्छण की डॉट पर उसका अपने ओढ़ों को चबाकर रहजाना, बन जाने की उमंग में सीता का 'कनखि ओं

से राम की आर 'देखना' और चित्रकूट में धनुष के सहारे बैठे राम के सामने तिरछे घूम कर निकल जाना, भरत का हाथ में जटाएं लिए शांत मुद्रा से बैठना अथवा शत्रुघ्न का छानी निकाल कर अश्वारूढ़ होना मानो पात्रों को हमारे सामने ही खड़ा कर देना है। नीचे की पंक्तियों में राम की सुकुमारता, दशरथ की कातरता और कैकेयी की कठोरता एक साथ खिच आई हैं—

पकड़ कर राम की ठोड़ी, ठहर के,

तथा उनका वदन उस ओर करके ।

कहा गत-वैर्य होकर भूपवर ने—

खली है देख दू क्या आज करने !

अभागिन ! देख कोई क्या कहेगा हूँ

यही चौदह बरस बन में रहेगा !

कैकेयी की झुण्डि का विकृत होना मनोवैज्ञानिक ढंग पर रखा गया है। क्रोध की दशा में हार को तोड़ना, चित्र को चूर करना, मतवालों के समान घूमना भी बहुत स्वाभाविक है। अपनी योग-माया से जब वशिष्ठ ने मूर्छित लक्ष्मण को दिखाया है तब उर्मिला के उर-स्पंदन का मंद पड़ना और लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के वध पर मुख पर लज्जा-लाली का छाना यह सिद्ध करता है कि घटनाओं के व्यस्त-वर्णन में भी कवि की हाइ लक्ष्य-स्थल पर टिकी हुई है।

कहीं कहीं जहाँ पंक्तियाँ अत्यन्त शिथिल सी प्रतीत होती हैं वहाँ भी गुप्तजी ने अपनी बुद्धि से किसी न किसी कौशल का प्रयोग किया है। जैसे दशरथ का सीता को स्मरण करते समय जानकी न कह कर 'उर्मिला वहू की बड़ी बहन' कहना, शब्दों का व्यर्थ खर्च-सा लगेगा, पर इससे उन्हें उर्मिला की याद आ जाती है और वे तुरन्त कहते हैं, "उर्मिला, यहाँ है हाय बहू !"

जयद्वय-वध में इस चातुरी ( art ) का प्रयोग उन्होंने किया है—  
 ‘उत्तर दिशा से उत्तरा की याद उनको आगई।’ द्वितीय सर्ग के  
 अन्त में जहाँ उन्होंने लिखा है ‘चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र  
 पीछे आश्वन जैसे’ वहाँ ऐसा लगता है कि। उपमान अत्यन्त  
 साधारण हैं, पर इनमें भी एक तो नित्य-संगका भाव भरा हुआ  
 है और दूसरे वर्ण-साम्य भी है—भाद्र ( श्याम-राम ), आश्वन  
 ( धवल-लक्ष्मण ) । निम्नलिखित ‘वर्णन में भी भरती’ नहीं है,  
 यदि ‘कर युग’ का अर्थ राम-लक्ष्मण, ‘कटि’ का सीता, ‘पुतली’  
 का उर्मिला समझ लिया जाय ! चौथी पंक्ति तब कितनी सुन्दर  
 हो जायगी —

मेरे कर युग है टूट चुके,  
 कटि टूट चुकी, सुख छूट चुके,  
 आँखों की पुतली निकल पड़ी,  
 वह यहीं कही है विकल पड़ी ।

कथा का विकास बहुत कुछ कथोपकथन-शैली पर हुआ है ।  
 कथोपकथन पर छंद और तुक की भौति गुप्तजी ने पूर्ण अधिकार  
 कर लिया है । कथोपकथन के आधार पर द्वितीय सर्ग में चल-  
 चित्रों की त्वरा भर दी है । एक कोने में मंथरा-कैकेयी संवाद है ।  
 कैमरा घूमता है । वह कौशल्या और सीता को देवार्चन में रत  
 दिखाता है । कैमरा और मुड़ता है । हमें उर्मिला-लक्ष्मण बैठे  
 दिखाई देते हैं । एक अन्य कोण में राम-सीता समुपस्थित हैं ।  
 उन्हें भी छोड़ कर हम दशरथ और वशिष्ठ दो वृद्धों को बात करते  
 देखते हैं । एक ही स्थल के भिन्न भिन्न अंशों में साकेत के सभी  
 पात्रों के रूप, वय, शील का परिचय कैसी चातुरी से दिया है !

कहीं किसी क्रिया द्वारा, कहीं किसी वातावरण द्वारा कहीं  
 किसी कथन द्वारा और कहीं किसी भावना द्वारा आगामी

मातृ गुणगन्ध था कर्णिकार का भाग' में, ( कनेर में गन्ध होते हुये भी गन्ध नहीं मानी जाती ) कहीं रसायन-ज्ञान सम्बन्धी जैसे 'उस रुदन्ती विरहिणी' में या फिर जहाँ दो चित्रों का घपला कर दिया है जैसे नीचे की पंक्तियों में कुमुदिनी का चित्र पूर्ण करते करते कोक घुसा दिया है । इससे जो भावधारा बँध कर चल रही थी वह विच्छिन्न होगई ।

आगे जीवन की संध्या है, देखें बपा हो आली ?

तू कहती है—‘चन्द्रोदय ही काली में उजियाली’ ?

सिर - आँखों पर क्यों न कुमुदिनी लेगी वह पद - लाली ?

किन्तु करेंगे कोक - शोक की तरे जो खबाली ?

फिर प्रभान होगा क्या सचमुच ?' तो कृतार्थ यह चेरी ।

खड़ी बोली के कवियों में निससंदेह मैथिलीशरण जी की रचनाओं में जो प्रसाद गुण है वह ईर्ष्या की वस्तु है । गुप्तजो की अपनी कमियों अलग हैं और वे अत्यन्त सपष्ट हैं । तुक के आश्रह के लिये कभी कभी वे बहुत गढ़बड़ करते हैं । 'उपमो-चित्स्तनी और ठोक'-ठनी,' 'राई-रत्ती और तत्ती' 'मल्ली और लल्ली' आदि प्रयोग तो हैं ही, शब्दों में भी 'शशी' 'प्रती' 'लौं' 'कै' आदि लिखना इसलिए खटकता है कि थोड़ा इधर उधर करने से ये ही प्रयोग खड़ी बोली के अनुरूप हो सकते थे ? जैसे 'जब लौं' 'तब लौं' के स्थान पर 'जब तक' 'तब तक' लिखा जा सकता था । अब कैं दिन के लिये खेद यह के स्थान पर 'कितने दिन के लिये खेद यह ?' होसकता था । 'शशी' के स्थान पर तीन मात्राओं का 'इन्दु' 'चन्द्र', में से कोई पर्याय ले लेना था । प्रत्येक शब्द में एक विशेष अर्थ भरा रहता है । उसक विकृत रूप से भी वही भाव व्यंजित हो यह आवश्यक नहीं । साकेत के आरन्भ में 'शारदा' की बन्दना वाला 'पसार दे' शब्द

ऐसा ही है। गुप्तजी जब लिखते हैं, “इधर भी निज वरद-पाणि पसार दे” सब ऐसा लगता है कि किसी से, भीख मर्गने के लिये ‘हाथ पसारने’ को कह रहे हैं। ‘पावर’ ‘धूड़’ ‘डकार’ के प्रयोग भी सचिकर नहीं। ‘लेखनी अब किस लिए विलंब’ या ‘लेखनी लिख उनका भी हाल’ आलहाके ढङ्क की “हाँ की बातें तौ हाँ रहि गईं”, अब आगे कौ सुनो हवाल” जैसी व्यर्थ तुकबन्दियाँ हैं।

‘उपेक्षिता उमिला’ की खोज (Discovery) न होने पर भी साकेत जैसे किसी ग्रन्थ की सृष्टि आवश्य होती। मैथिली-शरणजी की भक्ति-भावना के निकास के लिये यह आवश्यक था। ऐसा होता तो ‘हम सबसे अविच्छिन्न’ राम क्या अष्टम सर्न में अपने नाम-माहात्म्य और गुण-कर्म-स्वभाव कथन की महत्त्वा अपने मुख से वैसे ही घोषित करते जैसे गीता में कृष्ण ने—

जो नाम मात्र हो स्मरण मदीय करेंगे,  
वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे।  
पर जो मेरा गुण, कर्म, स्वभाव धरेंगे,  
वे श्रीरों को भी नार पार उतरेंगे।

साकेत खड़ी थोकी का अत्यन्त लोक-प्रिय ग्रन्थ है और सच बात यह है कि मैथिलीशरण जी भारतीय जनता के बहुत ही प्यारे कवि हैं। साकेत में उन्होंने धर्म-पाण, आदर्श-प्रिय राम-सनेही जनता के मर्म को सपर्श किया है। इससे साकेत जितने दिन खड़ा रहना चाहिये था, उससे कुछ अधिक दिन ही खड़ा रहेगा।

अति अगाध जे सरितवर  
जो नृप सेतु कराहि,  
चढ़ि पिर्पालिकउ परम लबु  
विनु श्रम पारहि जाहि।

## कामायनी

कामायनी मानवी संस्कृति और शाश्वत मानवीय मनो-विकारों का महाकाव्य - रूपक ( Allegory-Epic ) है। इसमें 'प्रसाद' के काव्य की समस्त विशेषताओं का सन्निवेश उनके उत्कृष्टतम् रूप में हुआ है। इसकी प्रशंसा में विनम्रता के साथ इतना कहा जा सकता है कि विश्व साहित्य की श्रेष्ठतम् रचनाओं की पंक्ति में जगमगाने के लिए हिन्दी ने एक अमूल्य काव्य-रत्न प्रसव किया है जिसका अक्षय आलोक कभी मंद न होगा।

जैसा 'प्रसाद' ने आमुख में स्वीकार किया है कामायनी की कथा का आधार मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण और साथ ही ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद् तथा श्रीमद्भागवत हैं। वैवस्वत मनु को कवि ने ऐतिहासिक पुरुष ही माना है। उसका विश्वास है—

मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। राम कृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं।

एक बात प्रसाद ने और भी कही है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है—

यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण होगया है। इसीलिये मनु, श्रद्धा और इडा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए, साकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

इस घोषणा से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि को इतिहास की अधिक चिता है, रूपक की नहीं। सम्पूर्ण आमुख में इसी ऐतिहासिक सत्य को पाने के लिए कवि आकुल है। पर कामायनी के अध्ययन से पता चलता है कि स्थूल कथा के ढाँचे के साथ रूपक की कल्पना भी कवि ने कर ली थी। ग्रन्थ

में रूपक के प्रति उपेक्षा किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती, उसके प्रति आग्रह ही प्रकट होता है। कामायनी में अनायास कुछ भी नहीं, बड़त संभल संभल कर कवि ने उसकी रचना की है।

### —मनोवैज्ञानिक विश्लेषण—

कामायनी में मनु, श्रद्धा ( कामायनी ) और इडा, मन श्रद्धा और बुद्धि के प्रतीक हैं। कामायनी इस दृष्टि से अन्तःकरण में वृत्तियों के विकास की गाथा भी कहर्ता है। मनु का मन है जो अतुल वैभव के विनाश पर 'चिंता' मन हो जाता है। चिंताकाल समाप्त होते ही उस मन में 'आशा' का उदय होता है। इस आशा को लेकर मन जी रहा है कि एक नारी के मन से जिसका निर्माण केवल समर्पण ( श्रद्धा ) से हुआ है उस मन का संयोग होता है। इन दो हृदयों के निकटता में आते ही पुरुष के मन में 'काम' जगता है। पुरुष का मन और अधिक नैकल्य के लिये व्यग्र होता है। तुरन्त 'बासना' आ धमकती है। नारी के मन को इस बात का पता चलता है तो आत्म - समर्पण से 'पहिले उसमें 'लज्जा' का संचार होता है। पुरुष का मन 'कर्म' के दो पथों की ओर अग्रसर होता है (१) कर्म - कांड की दिशा में, जिसे कवि ने यज्ञ द्वारा पूरा कराया है और (२) भोग - कर्म की ओर जिसे गार्हस्थ्य धर्म के भीतर लेकर कर्म में सम्मिलित किया है। मन जिसे अनुराग की दृष्टि से देखता है उसे ऐसा जकड़ कर रखना चाहता है कि किसी दूसरे की दृष्टि भी उस पर न पड़े। मनु श्रद्धा के प्रेम में से बात्सल्य का अंश भी पृथक् होते देखना नहीं चाहते। इस पर आज हम घोर स्वार्थ कहकर संभव है अस्वाभाविकता का

आरोप करें क्योंकि पिता की अनुभूति से सम्पन्न होने के कारण हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता पर मनु ने पुत्र का मुख नहीं देखा है, अतः वात्सल्य का न उमड़ना और उसके वेग के मूल्य को न जानना उसके लिए अस्वाभाविक नहीं है ।

यही अलृप्त मन एक और युवती ( 'इड़ा' ) के मनके सम्पर्क में आता है । इस काव्य में श्रद्धा पत्नी है, इड़ा प्रेमिका । पत्नी और प्रेमिका में अंतर यह होता है कि पत्नी पूर्ण आत्म-समर्पण कर देती है, प्रेमिका अपने अस्तित्व को बनाए रखती है । श्रद्धा ने अपने को देकर अपना सब कुछ खो दिया इड़ा ने अपने को न देकर आकर्षण को जीवित रखा और मनु को उङ्गली पर नचाया । उसने जितना काम उससे लिया उसका वर्णन श्रद्धा के 'स्वप्न' में मिलता है । पुरुष का मन जब ऐसी नारी के मन पर जिसमें बुद्धि की प्रमुखता है अधिकार नहीं जमा पाता तब 'संघर्ष' होना स्वाभाविक है और इसके उपरान्त विरक्ति ( निर्वेद ) भी ।

ठेस खाकर यह अपमानित मन फिर श्रद्धा की ओर झुकता है । इस बार श्रद्धा उसे सांसारिक सुख की ओर न लेजाकर पारलौकिक सुख की ओर ले जाता है । उसे लोकोच्चर रूप के 'दर्शन' कराती है और इस 'रहस्य' से परिचय कराती है कि श्रद्धा विना सब विश्रृंखलतामात्र है । इस स्थिति में पहुँच कर 'आनन्द' की उपलब्धि क्यों न होती ?

इस प्रकार तीन प्राणियों की कहानी के साथ साथ यह तीन मनों की कहानी है । और भी विचार करें तो केवल एक मन की कहानी है । यह एक मन सबका अपना अपना मन है । यहीं से रूपक की भावना उठती है ।

## —कथा—

कामायनी के रूपक को स्पष्ट करने के लिए पहिले स्थूल कथा का संक्षेप में वर्णन करते हैं। प्रलय द्वारा विलासी देवों की सृष्टि के नष्ट होने पर सूर्योदय के साथ मुस्करा कर प्रकृति जीवन की 'आशा' को फिर मनु के हृदय में जागरित कर जाती है। मनु एकाकीपन के भार से विकल्प ही हैं कि 'श्रद्धा' के दर्शन होते हैं जो उनकी सहचरी बनती हैं। एक दिन मनु अंतरिक्ष से 'काम' की यह वाणी सुनते हैं कि वह देवताओं की सृष्टि के विलीन होने पर यद्यपि अङ्गी से अनङ्गी होगया है, पर अत्यन्त है। श्रद्धा के प्रति ज्योत्स्ना-धौत रजनी में मनु के हृदय में 'वासना' जगती है। श्रद्धा का मन भी ढीला होता है। ठोक उसी समय श्रद्धा के मन में 'लज्जा' उगती है। मनु यज्ञ 'कर्म' में लीन होते हैं और दम्पति सोमरस का पान कर उच्चोजना के वशीभूत। कुछ दिन ढलने पर मातृत्व-भाव से दबी, पर मातृत्व-भाव में मग्न श्रद्धा आगन्तुक जात के लिए एक मनहर कुटिया का निर्माण करती है और ऊनी वस्त्रों को बुन आगामी मुख्य-विधान की कल्पना करती है और वे श्रद्धा को छोड़ कर चले जाते हैं। यदि कहीं यह नाटक होता तो यहाँ चिता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कम, ईर्ष्या के दृश्यों पर प्रथम अंक की बड़ी स्वाभाविक समाप्ति होती।

'इडा' सर्ग से कथा दूसरी ओर मुड़ती है। सारस्वत प्रदेश में 'इडा' से मिलन होता है। इडा को अपने ध्वस्त राज्य के पुनर्निर्माण के लिये एक कर्मशील व्यक्ति की आवश्यकता थी, मनु को अपनी अवरुद्ध बुद्धि के उपयोग के लिये नवीन कार्य-

क्षेत्र की—‘दोऊ वानिक बने।’ इधर श्रद्धा ‘स्वान’ में वह सब कुछ देखती है जो मनु करते हैं और जगकर उन्हे लौटाने को चल पड़ती है। इड़ा दिन-दिन एक ओर मनु को मोहित करती और दूसरी ओर खिचती जा रही है। मनु उस पर पूर्ण अधिकार जमाना चाहते हैं। इस अधिकार-चेष्टा से प्रजा अप्रसन्न होती है और एक खंड-प्रलय के समय आश्रय न पाने पर मनु की धृष्टिता पर जुब्द हो उसे ललकारती है। इस पर राजा (मनु) और प्रजा में ‘संघर्ष’ (युद्ध) प्रारंभ होता है। श्रद्धा इस योच आ पहुँचती है। वह धायल मनु को अपने कोमल करों से स्पर्श कर पीड़ा-हीन करती है। मनु श्रद्धा के आचरण पर चकित होकर उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इड़ा से उन्हें विरक्ति (‘निर्वेद’) उत्पन्न होती है पर श्रद्धा से और्खे मिलाने का साहस भी उनमें नहीं है अरुः प्रभातकाल में कहीं खिसक जाते हैं। इस प्रकार इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद चार दृश्यों का दूसरा अंक समाप्त हुआ।

श्रद्धा अपने शुत्र कुमार को इड़ा को सौंप कर मनु की खोज में निकलती है। एक गुहा में वह उन्हे पाती है। मनु वहाँ अनंत में नृत्यरत नटेश (शिव) के ‘दर्शन’ करते हैं। श्रद्धा इसके उपरान्त उनका हाथ पकड़ कर उन्हे हिमवान के ऊपर चढ़ा लेजाती है और बहुत ऊँचे पहुँच कर अधर में स्थित इच्छा, क्रिया और ज्ञान लोकों का ‘रहस्य’ खोलती है। अंतिम सर्ग में इड़ा और कुमार प्रजा को लेकर ‘मानस’-तट के निवासी श्रद्धामनु से मिलने आते हैं। चारों ओर ‘आनंद’ की वर्षी कर कवि अपनी कथा को समाप्त करता है। ये ‘दर्शन’ ‘रहस्य’ और ‘आनंद’ के तीन दृश्यों का तीसरा और अंतिम अङ्क है। इस प्रकार तीन पात्रों का तीन अंकों का यह ‘सुखांत’ नाटक अथवा पंद्रह सर्गों का महाकाव्य समाप्त होता है।

## —रूपक—

प्रत्येक प्राणी का मन न जाने कितनी चिंताआ का निवास-स्थान है। चिंता किसी न किसी प्रकार के अभाव से उत्पन्न होती है। प्रसाद ने चिंता को 'अभाव की चपल बालिका' ठीक ही कहा है। अभाव दो प्रकार के होते हैं ( १ ) शरीर संबंधी और (२) मन संबंधी। अभाव के साथ अशांति आती है। इस अशांति से मुक्ति पाने का मार्ग ( आशा के रूप में ) मन को दिखाई देता है। वह है श्रद्धा के साथ आंतरिक चित्तन ( सुख-भोग )। श्रद्धा के साथ जैसे-जैसे मन रहता है या यों कहिए कि वाहा संघर्ष को त्याग मन ज्यों-ज्यों श्रद्धा ( आस्था ) पूर्वक अंतर की गहराई में उतरता है त्यों-त्यों सुख का अनुभव करता जाता है। काम, लड्जा, कर्म इस लीनता के चरण-चिह्न हैं। वृत्तियों को अंत-मुँखी करने की इच्छा का जगना 'काम', उसमे तीव्रता आना 'वासना' कभी-कभी उसमें व्याघात पड़ना 'लड्जा' और उत्कटता से उस पथ पर अग्रसर होना 'कर्म' ( संभोग ) है। कर्म में जो यज्ञ को सम्मिलित किया है उसे हम मन को सात्त्विक बनाये रखने वाला एक साधन मानते हैं। आंतरिक चित्तन में सात्त्विकता बहुत बढ़ी वस्तु है। इतने अत्मुँखी होने पर मन में सहसा अधिकार-भावना जगती है। वह देखता है कि जैसे जैसे वह इस पथ पर बढ़ता जारहा है वैसे-वैसे व्यक्तित्वही न होता जारहा है। यह वह सहन नहीं कर पाता और लौट पड़ता है। जहाँ था वहीं आजाता है।

दूसरे पथ का अनुसरण करते ही मन बुद्धि ( इडा ) के जाल में फँस जाता है, नवीन-नवीन कल्पनाओं ( स्वान ) को उसके सहारे सत्य में परिणात होते देखता है। यहों देखता है कि इस बुद्धि का कार्य-क्रम अनंत है। जितना बढ़ता है उतनी प्यास-

अधिकार-भावना को लेकर मन बढ़ा था वह अधूरा रह गई । असंतुष्ट होने पर बुद्धि से उसका भगवा ( संघर्ष ) होता है और फिर उससे उदासीनता ( निर्वेद ) उत्पन्न होजाती है । सत् पथ को त्याग संघर्ष के पथ में पड़ आज मन घायल पड़ा है ।

ठीक इसी समय बिना बुलाए श्रद्धा फिर आती है । मन संकोच का अनुभव करता है, पर श्रद्धा उसका पीछा नहीं छोड़ती । यह श्रद्धा इस बार मन को और ऊँचा उठाकर पारलौकिक सुख के गिरि पर ले चलती है । मन को अलौकिक शक्ति की भलक दिखाई देती है । क्रिया, इच्छा और ज्ञान को भस्म कर अर्थात् जागरण, स्वान और सुषुप्ति से आगे बढ़, मन श्रद्धा के साथ ( समाधि अवस्था में ) केवल आनन्द का अनुभव करता है । अतः चिन्ता के विषादमग्न वातावरण से मुक्त हो मन, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इडा ( बुद्धि ), स्वप्न ( बुद्धि-कर्म ) संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य ( रहस्योद्घाटन ) के स्तरों को पार करता आनन्द-लोक का अधिवासी बनता है ।

कामायनी को बहुत सचेत होकर प्रसाद ने लिखा है । इतने सहज ढग से कोई अन्य व्यक्ति रूपक का निर्वाह कर सकता था हमें तो विश्वास नहीं होता । रहस्य सर्ग का प्रारम्भिक वर्णन पढ़िये । प्रतीत ऐसा होता है कि दो पथिकों के हिमालय पर चढ़ने का वर्णन ही वहाँ है । पर क्या 'नील तमस' में उस 'उधर्व देश' तक जाने वाले 'पथ' की अनिर्दिष्टता, 'पथिकों' का 'ऊपर बढ़ना' और 'प्रतिकूल पवन' का उन्हें धक्का देना, नीचे स्थित उन सभी बस्तुओं का जो अत्यन्त रम्य प्रतीत होती हैं वहाँ पहुँच कर अत्यन्त 'छोटा' दिखाई देना मनु का 'साहस छूटना' जिन्हें वह नीचे छोड़ आया है उनके लिए उसके हृदय में फिर ममता का जगना और 'देश-काल रहित' अवकाश में पहुँचने

पर भी श्रद्धों का उसे सँभालते हुए इस प्रकार समझाना पथिकों के श्रम का कोरा वर्णन ही है क्या ?

इम बढ़ दूर निकल आए अब,  
करने का अवसर म ठिठोली ।

---

### —इच्छा, कर्म, ज्ञाने—

ऐहस्य शीर्षक सर्ग में श्रद्धा ने मनु को इच्छा का रागारुण, कर्म का श्यामल और ज्ञान का रजतोज्ज्वल तीन लोक दिखाये हैं और उनके सामंजस्य में जीवन का वास्तविक सुख बताया है। 'केवल इच्छा' पंगु है। उसे कर्म का सहारा चाहिए। 'केवल कर्म' अंधा है। उस पर विवेक या ज्ञान का नियन्त्रण होना चाहिए। मनु दोनों स्थितियों को देख चुके हैं। 'केवल ज्ञान' भी संसार में विपरीत फैलाने वाला है क्योंकि ज्ञानी जब 'इच्छा और कर्म' को भुटलाते हैं' तब संसार का विकास कैसे होगा ?

पहिले किसी वस्तु का ज्ञान होता है। फिर उसके सम्बन्ध में इच्छा उत्पन्न होती है। और तब इच्छा की पूर्ति के लिये मनुष्य कर्म में लीन होता है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया की इस प्रसिद्ध ज्याँ से ऐहस्य सर्ग के इच्छा, कर्म, ज्ञान के त्रिकूप को भिन्न समझना चाहिए। इन्द्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध का दास होना, भाषना के अनुकूल पाप-पुण्य का सूजन करना ही माया है। यह इच्छा-लोक है। जियति की प्रेरणा से किसी न किसी प्रकार की इच्छा प्राणी को कर्म में लीन रखती है। यहाँ केवल श्रम है, विश्राम नहीं। यहाँ आने पर कल्पना दुकड़े-दुकड़े होजाती है। इस संघर्ष में केवल शक्तिशाली विजयी होना है। कर्म में लीन होने वाले अपने अपने संस्कारों के अनुसार

जन्म जन्मान्तर में भटकते फिरते हैं। यह कर्मलोक की व्याख्या है। शास्त्र-ज्ञान के अभिमानी, जीवन से उदासीन, वुद्धि के अनुयायी, तप में लीन, मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति ज्ञानलाक के निवासी हैं। इससे प्रतीत होता है कि कोई नवीन बात तो प्रसाद से नहीं कही। अद्वा की मुसिकान की ज्वाला से इन तीनों लोकों को भस्म कर कवि ने मनु को 'दिव्य अनाहत' का अधिकारी लिखा है। यह तुरीयावस्था है जब क्रिया ( जागरण ) इच्छा ( स्वप्न ) और ज्ञान ( सुषुप्ति ) की अवस्था को पार कर साधक शुद्ध चेतन की अनुभूति का आनन्द लेता है। कामायनी का चमत्कार यही तो है कि जो आप को बाहर दिखाई देगा वह अंतर में भी। इच्छा, ज्ञान, क्रिया के लोक क्या वास्तव में बाहर दिखाई दिए हैं ?

'इच्छा' और 'कर्म' का स्वरूप तो प्रसाद ने ठीक रखा है, पर ज्ञान-तत्त्व को अधिक चिंतन से नहीं ब्रह्मण किया। उसके स्वरूप को बहुत हल्का प्रदर्शित किया है। आजकल के कुछ दम्भी सन्यासियों पर ही जिनका साक्षात्कार प्रचुरता से संभवतः काशी में होता रहता हो उनकी दृष्टि पढ़ी है। जीवन-रस से भिन्न रस की उन्होंने उपेक्षा-सी की है। इस पर किंचित आश्वर्य होता है। आनन्द सर्ग में आत्मानुभूति की व्यापकता को, सबको अपना समझने की वृत्ति को, उन्होंने जीवन का सब से बड़ा आदर्श माना है। यह तो ठीक है, पर इसके लिए ज्ञान को तुच्छ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हों के शब्दों में देखिए —

न्याय, तपस, ऐश्वर्य में पगे  
ये प्राणी चमकीले लगते,  
इस निदाघ मर में, सूखे से  
खोतों के तट जैसे जगते ।

सामंजस्य चले करने ये  
किन्तु विषमता फैलाते हैं,  
मूल स्वत्व कुछ और बताते  
इच्छाओं को झुठलाते हैं ।

### -पात्र-

मनु एक दीर्घकाय स्वस्थ व्यक्ति हैं, 'पुरुष' हैं। पुरुष शब्द का उच्चारण करते ही पौरुष का भाव ध्वनित होता है। कवि ने प्रथम सर्ग में ही उनके शरीर की हृदय-गठन और सबलता का परिचय देने के लिए उनकी हृदय माँसपेशियों और स्वस्थ शिराओं की चर्चा की है। आखेट-व्यसनी मनु की कल्पना भी एक हृदय सबल स्फूर्तियुक्त पुरुष की भावना ही सामने लाती है। और आगे चलकर जब प्रजा और प्रकृति के सम्मिलित विद्रोह का सामना करने के लिए मनु अपना धनुष उठाते हैं तब शक्ति का दुरुपयोग करने से यद्यपि अत्याचारी या बर्बर कहकर उनकी असंयत बुद्धि और अनियंत्रित हृदय का तिरस्कार करने की इच्छा भी जागरित होती है, पर उनके पौरुष पर एक प्रकार का आश्वर्य होता ही है। स्वभाव से मनु अत्यन्त चितनशील हैं और सिद्धांत से घोर व्यष्टिवादी या स्वार्थी। कामायनों की वे उक्तियों जो इस काव्य-भवन की जगमगाती मणियों हैं, प्रायः मनु के मुख से ही निकली हैं। वे सब कुछ अपने चरणों में भुकते देखना चाहते हैं। 'अहं' और 'उच्छ्रुत्यता' से उनके चरित्र का निर्माण हुआ है। वे देना नहीं जानते केवल लेना जानते हैं। सभी को नियमों में बौध कर रखना चाहते हैं, स्वयं नियमों से परे रहना चाहते हैं। अद्वा और इडा दोनों के प्रति उन्हें आकर्षण होता है, पर इस स्वामित्व-भावना के कारण न वे

श्रद्धा को अपना सके और न इड़ा को प्राप्त कर सके । जीवन के कदु अनुभवों ने मनु के 'अहं' को जब जला दिया, 'अमरता के जर्जर दंभ' को जब पीस दिया तब वास्तविक आनन्द उन्हें प्राप्त हुआ । एकाधिपत्य के प्रबल समर्थक ने अपने व्यक्तित्व को श्रद्धा की अनुकम्पा से व्यापक बना डाला—

मनु ने कुछ कुछ मुसक्या कर  
कैलास और दिखलाया  
बोले “देखों कि यहाँ पर  
कोई भी नहीं पराया ॥

हम अन्य न और कुँकुम्बी  
हम केवल एक हमी हैं,  
हुम सब मेरे अवयव हों  
जिसमें कुछ कमी नहीं है ।”

अलौकिक सुन्दरी 'श्रद्धा' नारी का मङ्गल रूप है । कैवल्य को मर्लता से उसका निर्माण हुआ है । उसकी ममता पशुओं तक विरतृत है । स्नेह की वह देवी है । हिसा और स्वार्थ का वह घोर विरोध करती है, कस्तुरा का मार्ग दिखलाती है । ममु दो बार उसे छोड़ कर भागते हैं और श्रद्धा दोनों बार मन में मैल न लाती हुई मनु के हृदय का बोझ हल्का करती है । प्रेम में विश्वासघात के दोषी मनु को श्रद्धा का अपनामा नारी हृदय की अनंत ज्ञान का परिचय देता है । यहाँ नारी ने नर को पशाजित कर दिया । सच पूछो तो प्रेम में नारी ने नर को सदैव पशाजित किया है—क्या सीता ने राम को, क्या राधा ने कृष्ण को और क्या गोपा ने खुद को । छाया के समान मनु का साथ उसने दिया है । वह ऐसी छाया है जो ताप-दग्ध शरीर को ही नहीं, ल्याकुल मानस को भी शीतल रखती है । उसी के शब्दों में—

## देहर कुछ कोई नहीं रहे ।

बैभव-विहीना संध्या के उदास वातावरण में कामायनी का विरह वर्णन कितना स्वाभाविक और विषाद को घनीभूत करने वाला है और कितने थोड़े शब्दों में किस मार्भिकता से व्यक्त किया गया है । किसी के विरह-वर्णन में एक साथ आप सवा सौ पृष्ठ काले करदें तो इससे यह तो पता चल जायगा कि आप एक बात को फैलाकर कह सकते हैं, या किसी के वियोग की कथा को एकसे ढङ्ग पर दस विरहिणियों के द्वारा व्यक्त कराएँ तो यह भी पता लग जायगा कि विरह एक प्रकार का दौरा है जो बारी बारी कभी किसी को और कभी किसी को उठता है । महाकाव्य में वर्णन के विस्तार का, जो अधिकार प्राप्त है उसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आप उसे ऐसा विस्तार दें कि वह अपना प्रभाव ही खो बैठे । पाठकों के मस्तिष्कों के पात्रों की भी एक माप है जिसमें अधिक रस डालने से उछलने लगता है । अधिक विस्तृत वर्णन में सम - रसता नहीं रह सकती, अतः अच्छे कवि इस बात का ध्यान रखते हैं कि अपनी ओर से उचित परिणाम में ही किसी रस को पिलावें । अशोकबृज के नीचे बैठी सीता का विरह - वर्णन कितना संयत है, कितना संक्षिप्त और कितना प्रभावशाली ! इसी सुरुचि का परिचय प्रसादजी ने 'स्वान' सर्ग में दिया है । प्रकृति के प्रतीकों के सहारे कामायनी के क्षीण शरीर का आभास, प्रकृति के प्रसन्न वातावरण के सम्पर्क से पीड़ा की तीव्रता का अनुभव, अतीत की मधुर घड़ियों का स्मरण थोड़े से आँसू और बालक के 'मा' शब्द के उच्चारण से एक गहरा आघात-- और बस !

इडा आर्कषक है, प्रेरणामयी है । अद्वा ने उसे 'मस्तिष्क की चिर अनृप्ति' कहा है । वह मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है--

हाँ तुम ही हो अपने सहाय

जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय  
जितने विचार संस्कार रहे उसका न दूसरा है उपाय  
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन  
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन  
सबका नियमन शासन करते वस बढ़ा चलो अपनी द्वमता  
तुमही इसके निर्णायक हो, हो कहीं विषमता या समता  
तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय  
यश अखिल लोक में रहे छाय ।

कवि ने कुछ तो रूपक के आग्रह से और कुछ विशेष उद्देश्य  
से उसे कठोर-हृदया बनाया है। उसकी हृदता से मनु के 'अहं'  
को धक्का लगता है जिससे उनका उर कोमल होकर श्रद्धा को  
उत्सर्ग-भावना से पिघलता है ।

श्रद्धा विश्वास है, इड़ा बुद्धि । श्रद्धा आत्म-समर्पण है, इड़ा  
अंकुश । मनु ने दोनों को अभाव की अवस्था में प्राप्त किया ।  
जब मनु का मन ज्ञाधित था तब श्रद्धा आई । उसने प्रेम दिया ।  
जब मस्तिष्क विज्ञुब्ध था तब इड़ा आई । उसने कर्म-पथ  
सुझाया । दोनों अनन्य सुन्दरी हैं । एक मनु के मन के अभाव  
को भरती है दूसरी बुद्धि के । एक उसे हृदय की गहराई में  
उत्तारती है, दूसरी उसे प्रकृति से संघर्ष करना और तत्त्वों पर  
त्रिजय प्राप्त करना सिखलाती है । दोनों उसे चिन्ता से मुक्त  
करती हैं । मनु दोनों को ठीक न समझ सके । उन्होंने एक के  
प्रेम को स्वीकार न किया दूसरी उसे प्रेम दे नहीं सकी । एक  
उसे प्रेम की व्यापकता सिखलाती है जिसे वह पहिले समझ  
नहीं पाता, दूसरी 'निर्वाधित अधिकार' पर आक्षेप करती है  
जिसे वह स्वीकार नहीं करता । एक उसे ज्ञान कर देती है,

दूसरी संकट में डाल देती है। एक उसके विरह में व्याकुल होती है, दूसरी उदासीन रहती है। एक उसे खोकर पाती है, दूसरी उस खोये हुये को पाकर फिर निश्चिन्त होकर खो देती है। दोनों दुख का समाधान हैं। एक दुख की जीवन में सार्थकता सिद्ध करती है, दूसरी विज्ञान की सहायता से उसे चूणा करने की सम्मति देती है। कवि का सन्देश है कि श्रद्धा ही आनन्द विवायिनी है, पर इड़ा भी व्यर्थ नहीं है। हाँ, उससे जीवन भर चिपके मत रहो। अपनी सतति को उस्सौंप सावना में लीन हो जाओ। हस प्रकार सृष्टि का विकास भी चलता रहेगा और आत्मा का विकास भी। व्यक्ति की हृषि से कामयनी ही एकान्त मगल-प्रदायिनी है। लोक के सुख का उपभोग करने के उपरान्त, लोक संविरक्त होते हुये लोक-कल्याण में अनुरक्त रहना कामयना के कवि का विश्व को-उस विश्व जो आज के यत्र युग में घार जड़वादी ( Materialistic ) होकर अपनी ही जटिलताओं में फँसा हुआ ( इड़ा सर्ग में काम का मानव - सृष्टि का अभिशाप आज की बास्तविक दशा का प्रतिबिव है ) तड़प रहा है, शाति का एक सन्नातन - संदेश है—

वह 'कामयनी' जगत की,  
मङ्गल कामना अकेली ।-

### —आख्येप—

आचार्य पण्डित रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'छिन्दी साहित्य के इतिहास' में प्रसाद जी की विचार - धारा में कई दाष हूँडे हैं। उनका कहना है कि जब दोनों (इड़ा, शृद्धा) अलग - अलग सूचाएँ करके रखी गई हैं तब एक को दूसरी से शून्य कहना ( सिर चढ़ी रही पाया न हृदय ) और दूसरी को पहिली से शून्य न कहना,

गड़बड़ मे ढालता है। इस आक्षेप का उत्तर यह है कि शुक्ल जी जिसं भूल कहते हैं, उसका ज्ञान 'प्रसाद' जी को था। कामायनी ने इड़ा के हाथ जब कुमार को सौंपा है तब जीवन की समरसता और सफलता के लिए उसने अद्वा और बुद्धि दोनों के योग पर जोर दिया है। इसी से उसने कहा है—

यह तर्कमयी तू श्रद्धामय  
तू मननशील कर कार्य अभय  
इसका तू सब संताप निचय  
हर ले, हो मानव भाग्य उदय  
सब की समरसता कर प्रचार  
मेरे सुत सुन मा की पुकार

यह खुली हुई बात है कि अपने संस्कारों के कारण शुक्लजी रहस्यवाद के अकारण विरोधी थे। कामायनी में प्रसाद के 'संवेदन' शब्द के प्रयोग पर उनके आक्षेप का आधार ही यह है कि 'रहस्यवाद की परम्परा में' चेतना से असंतोष की रुद्धि चली आरही है' अतः प्रसाद ने 'संवेदन का तिरस्कार' किया है। पर वात वैसी नहीं है। 'आशा' सर्ग में ('चिंता' के अतर्गत नहीं, जैसा शुक्लजी ने लिखा है) संयम से रहने और तप करने के कारण युवक मनु ने नवीन शारीरिक बल प्राप्त किया अतः स्वास्थ्य-सम्पन्नता की दशा में किसी सङ्गिनी के सम्पर्क के लिये विकल होना अत्यन्त स्वाभाविक था। इसी प्रसङ्ग में 'संवेदन' शब्द आया है—

तप से संयम का संचित बल  
नृषित और व्याकुल था आज,  
अद्वाहस कर उठा रिक्त का  
यह अधीर तम, सूना राज।

भनु का मन था विकल हो उठा  
 संवेदन से खाकर चौट,  
 संवेदन, जीवन जगती को  
 जो कदुता से देता थोट ।

आह कल्पना का सुन्दर यह  
 जगत मधुर कितना होता,  
 सुख स्वप्नों का दल छाया मे  
 पुलकित हो जगता सोता ।

संवेदन का और हृदय का  
 वह सघर्ष न होसकता,  
 फिर अभाव असफलताओं की  
 गाथा कौन कहाँ बकता ।

कब तक और अकेले ? कह दो  
 है मेरे जीवन बोलो,  
 किसे सुनाऊँ कथा ? कहो मत  
 अपनी निधि न ध्यर्थ खोलो ।

यहाँ 'संवेदन' शब्द सहजुभूति-प्रदर्शन या प्रेम-प्राप्ति की आकांक्षा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जीवन में कदुता या पीड़ा इसीलिए है कि हम ऐसी आशा थोड़े वैठे रहते हैं कि कहीं कोई हमारे हृदय को समझने-सँभालने वाला भी होता। पर हाथ आती है सूनी निराशा। संवेदन (स्नेह-प्राप्ति) और हृदय का इसी से मानो संघर्ष (विशेष) चल रहा है। परिणाम-स्वरूप जीवन में अभाव और असफलताएँ हैं। यदि केवल कल्पना से काम चल जाता तब भी जीवन में हताश स्थितियों का सामना न करना पड़ता, पर हृदय तो चाहता है साकार आधार ! प्रत्यक्ष (Practical) प्रमाण !!

शुक्लजी के अनुसार 'संवेदन' को बोध-वृत्ति के अर्थ में 'व्यवहृत' इसलिए नहीं मान सकते कि यदि कदुता का कारण केवल यह है कि हमे ज्ञान होता है अर्थात् हम चेतन हैं जड़ नहीं, तब कवि ने निराशा से वचने का मार्ग जो 'कल्पना का सुन्दर जगत' बतलाया है, वह व्यर्थ होजाता है, क्योंकि कल्पना में भी तो संवेदन से छुटकारा नहीं। यहाँ 'संवेदन' शब्द अपने से भिन्न किसी के हृदय में प्रणायानुभूति जगाने की इच्छा के अर्थ में ही आया है। इसी से मनु अंत में एक कराह के साथ पूछते हैं—

कब तक और अकेले ?

'सधर्ष' सर्ग में जो 'संवेदन' शब्द आया है उसका अर्थ तो पक्षियों से ही स्पष्ट है। फिर पता नहीं शुक्लजी ने कैसे आक्षेप किया है ? देखिए—

तुमने योगक्षेम से अधिक संचय बाला,  
लोभ सिखाकर इस विचार सङ्कट में डाला ।  
इम संवेदन-शील हो चले यही मिला सुख,  
कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख ।

यहाँ लोभ से उत्पन्न और कृत्रिम ( काल्पनिक ) दुःख पर कष्टानुभव के अर्थ में संवेदन शब्द आया है। लोभ और कृत्रिम दुःख निंद्य और अनावश्यक हैं, अत अवास्तविक । पर वास्तविक दुःख पर कष्टानुभव का अर्थ शुक्लजी ने कैसे भिजाया, यह समझते नहीं बनता। इन्हीं पंक्तियों से यह ध्वनित है कि 'योगक्षेम' (आवश्यकताओं की पूर्ति) के लिए तो सञ्चय करना ही पड़ेगा। कृत्रिम दुःख के संबन्ध में 'प्रसाद' के विचार 'एक घूंट' एकाकी नाटक के इस कथोपकथन में देखिए—

मुकुल—( वात काटते हुए ) ठहरिए तो, क्या फिर 'दुःख' नाम की कोई वस्तु हई नहीं ?

आनन्द-होगा रहीं । हम लोग उसे खोज निकालने का प्रयत्न करो करे ? अपने काल्पनिक अभाव, शोक, ग्लानि और दुख के काजल आँखों के आँसू में धोल कर सृष्टि के सुन्दर कपोलों को क्यों कल्पित करे ?

‘दूसरों की पीड़ा के ‘संवेदन’ का विरोध कामायनी में नहीं है । मनु प्रारंभ से स्वार्थी अवश्य हैं, पर अनेक प्रकार के मानसिक सघर्षों को पार कर अंत में वह भी सँभल गए हैं । इड़ा भी श्रद्धा से मिलकर इतनी खबी नहीं रही है और कामायनी ( श्रद्धा ) तो ममता का ही जैसे प्रतीक है —

श्रद्धा —

अपने में सब कुछ भर कैसे  
व्यक्ति विकास करेगा ?

वह एकात् स्वार्थ भीषण है  
अपना नाश करेगा ।

श्रौतों को हँसते देखो मनु  
हँसा और सुख पाओ,  
अपने सुख को विस्तृत करलो  
सब को सुखी बनाओ ।

इड़ा —

‘श्रति मधुर वचन विश्वास-भूल ।

मुझ को न कभी ये जॉय भूल ।

हे देवि तुम्हारा स्नेह प्रवल,  
वन दिव्य श्रेय उद्गम अविरल,  
आकर्षण घन सा वितरे जल,  
निर्वासित हों संताप सकल ।”

मनु—

सब की सेवा न पराई  
वह अपनी सुख ससृति है ।

शुक्लजी का तीसरा आचेप ‘इच्छा कर्म और ज्ञान’ के सामंजस्य में श्रद्धा के स्थान पर है—

‘जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है । पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रकृति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा । पीछे आया हुआ ज्ञान भी बुद्धिव्यवसायात्मक ज्ञान ही है, ( योगियों या रहस्यवादियों का पर-ज्ञान नहीं ) यह बात ‘सदा चलता है बुद्धिन्चक’ से स्पष्ट है ।

जहाँ रागारण कंदुक-सा, भावमयी प्रतिमा का मन्दिर’ इच्छा-विन्दु मिलता है वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अतर्गत है, अतः रति-काम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है । पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है ।’

मनु जब इड़ा से प्रथम बार मिलते हैं और जीवन की अशांति का समाधान वे उससे चाहते हैं तब उसने समझाया है कि स्वावलंबी न होकर मनुष्य का ईश्वर के भरोसे बैठा रहना बहुत बड़ी मूर्खता है । ईश्वर को मानने न मानने से विशेष अंतर नहीं पड़ता । मनुष्य को अपनी सहायता आप करनी होगी । जो बुद्धि कहें उसे मानकर प्रकृति के पटल खोलने के लिए तुम तैयार होजाओ, कर्मलीन हो ।

तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं, सृष्टि उसे जो नाशमयी उसका अधिपति ! होगा कोई, जिस तक दुख की न पुकार गई ।

कोई भी हो वह कथा बोले, पागल बन नर निर्भर न करे,  
अपनी दुर्वलता बल सेभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे ।

हाँ, तुम ही हो अपने सहाय ।

जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी नर शरण जाय ?  
यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन,  
तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बन कर्म लीन ।

—इडा

यहाँ कर्म और बुद्धि या ज्ञान लौकिक उन्नति से सम्बन्ध  
रखते हैं । पर रहस्य सर्ग में कर्म और ज्ञान को जो अलग-अलग  
रखा है, वह इसलिए कि वहाँ बुद्धि-चक्र पर चलने वाला ज्ञान  
निश्चित रूप से वैराग्य से संबंधित है । जिस छन्द में 'बुद्धि चक्र'  
शब्द आया है वहीं 'सुख दुख से उदासीनता' की चर्चा भी  
शद्वा ने की है —

प्रियतम ! यह तो ज्ञानक्षेत्र है  
सुख दुख से है उदासीनता,  
यहाँ न्याय निर्मम चलता है  
बुद्धि चक्र, जिसमें न दीनता,

अर्थात् सांसारिक ऐश्वर्य की ओर ले जाने वाली बुद्धि  
प्रवृत्ति मार्ग की है और ज्ञान की ओर ले जाने वाली बुद्धि  
निवृत्ति मार्ग की । ज्ञान-लोक के प्रसङ्ग में ज्ञानियों के संबंध में  
'ये निस्सङ्ग' 'ये निस्पृह' 'अम्बुज वाले सर' 'अछूत रहा जीवन  
रस' आदि सब इसी बात की घोषणा कर रहे हैं । रहस्य सर्ग में  
ज्ञान से तात्पर्य 'पर-ज्ञान' का ही है । नहीं तो फिर इसका क्या  
अर्थ होगा ?

मूल स्वत्व कुछ और बताते,  
इच्छाओं को झुठलाते हैं ।

यह तो सत्य है कि जहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति है वहाँ अद्वा भी । पर दोनों में अंतर है । इच्छा सामान्य (Indefinite) वृत्ति है, अद्वा विशेष (Definite) । इसी से उसे तीनों चिन्हों से परे रखा है । इच्छा शुभ भी हो सकती है । अशुभ भी । यही कारण है कि कवि ने इच्छा-लोक के प्रसंग में उसके पूर्ण स्वरूप को दृष्टि में रखते हुए उसे पुण्य-पाप की जननी, वसंत-पतझर का उद्गम, अमृत-हला हल का मिलन और सुख दुःख का बंधन माना है । पर श्रद्धा का स्वरूप काव्य के एक छोर से दूसरे छोर तक केवल कल्याण-मंडित है । इच्छा चंचल है, पर श्रद्धा-उसे आस्था कहो तो, निष्ठा कहो तो, विश्वास कहो तो—एक अडिग-वृत्ति । विना श्रद्धा के न इच्छा कुछ है, न कर्म कुछ और न ज्ञान । इसी से उसका अस्तित्व पृथक् माना है । वह पृथक् है ।

यह शुक्ल जी की बात हुई पर और एक हैं जिन्हे कामायनी में काव्यत्व ही नहीं दिखाई पड़ता ।

खड़ी घोली से अब तक गणनायोग्य चार प्रबन्ध-काव्य प्रकाशित हुए हैं—कामायनी, साक्षेत, नूरजहाँ, प्रिय-प्रवास । आप चाहे तो हल्दी-घाटी को भी सामिलित कर सकते हैं । कामायनी में कथानक न होने के वरावर है, पर कवि इसके लिए दोपी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि मानवों की जिस आदिसृष्टि की गहन गुहा से वह कथा की मणि को निकाल कर लाया है, जीवन की जटिलता वहाँ थी ही नहीं । मनु का चरित ऐसा नहीं है जो ‘स्वर्य दी काव्य’ हो और जिसे छूकर अस्ती का भी कवि दन जाना सहजन्से भाव्य हो सके । अर्थात् महाकाव्य के लिए उनी बनाई जिन महान् घटनाओं की आवश्यकता होती है उनका एक प्रकार से यहाँ अभाव है । इसमें आदि पुस्त और आदि नारी की कहानी है, अतः विकसित जीवन की उलझनें जैसे

शमायण में राज्य-लोकुपता, सम्कृति-संघर्ष आदि उनके सामने नहीं हैं। कहीं कहीं तो मानसिक वृत्तियाँ भी मूलरूप में आयी हैं। कामायनी केवल तीन घरियों की कथा है। साकेत में कथानक थोड़ा अधिक है, पर कवि को उसके लिये गौरव नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुतों ने उसे गाया है। प्रिय-प्रवास का कथानक भी कामायनी की भौति एक दम छीण है। नूरजहाँ में कथानक पर्याप्त ( rich ) है, पर उसका कलाकार मध्यम श्रेणी का कलाकार है। इन चारों कवियों में कामायनी का कलाकार ही एक ऐसा कलाकार है जिसमें भावुकता, ( Emotion ) कल्पना (Imagination) और विचार ( thought ) का अपूर्व मिलन अत्यन्त उत्कृष्ट रूप ( शैली ) में अत्यन्त उच्च धरातल पर हुआ है। हिंदी के अध्युनिक कवियों में विश्व-कवियों की सी प्रतिभा केवल प्रसाद में थी, या गीत-काव्य के क्षेत्र में फिर महादेवी जी में है। यदि खड़ी बोली का सब कुछ नष्ट होजाय और किसी प्रकार कामायनी का कोई सा केवल एक सर्ग बच जाय तष्ठ भी किसी देश का कोई पारखी यही निर्णय देगा कि भारत में कभी कोई महान-कलाकार वास करता था। आज के अन्य प्रचन्ध-काव्यों से कामायनी की कोई तुलना नहीं है। अतः भावावेश में किसी काव्य-ग्रन्थ की प्रशंसा में जो यह लिखते हैं कि कामायनी किसी पुस्तक विशेष के सामने 'मनोविज्ञान की ट्रीटाइज्ज' सी लगती है, वे 'प्रसाद' की प्रतिभा का उपष्ट शब्दों में अपमान करते हैं।

अद्वा-मनु के आकर्षण से लेकर मिलन तक की गाथा बड़ी आकर्षक है। आकर्षण के मूल में प्रायः सौंदर्य रहता है। प्रलय-काल में मनु के भीतर उपेक्षामय जीवन का जो मधुमय स्रोत वह रहा था वह श्रद्धा के मधुर सौंदर्य की ढलकाऊ भूमि पाते ही चेग से वह उठा। उसे सामीप्य-लाभ के लिये कोई विकट प्रयत्न नहीं करना पड़ा-न राम की तरह धनुष तोड़ना पड़ा, न रत्नसेन

की तरह चोर बनना पड़ा, न सलीम की तरह किसी अफगान की हत्या करनी पड़ी और न एडवर्ड की तरह साम्राज्य ही छोड़ना पड़ा यहाँ तक कि न रात के बारह बजे इत्र में डुबा कर पत्र लिखने पड़े और न आंसुओं से तकिये भिगोने पड़े । पर आगे चलकर ज्योत्स्ना - स्नात मधुयामिनी के अधीर पुलकित एकांत वातावरण में नर के बिकल अशांत बज्जे से आवेग की चिनगारियों का फूटना और नारी का गम्भीरता से 'मत कहो पूछो न कुछ' कहना और उसके पश्चात् के पलों को—सामान्य नर और सामान्य नारी के जीवन के उस मधुर वस्त को—किस असामान्य रङ्गीनी और सधी तूलिका से केवि ने चित्रित किया है । हमारी भावनाओं की सूर्ति खड़ी करना, अरुप को रूप देना, किरना असाध्य काम है । यह हम इसी से समझ सकते हैं कि हम सभी जब भावों में लीन होते हैं तब क्या अपनी विद्वलता और मधुरता का विश्लेषण कर सकते हैं ? इतना हो जान पाते हैं कि मन को कुछ हो गया है, पर क्या हो गया है यह तो नहीं कह पाते । कामायनी के 'काम', 'वासना' और 'लज्जा' सर्ग को पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रतीत होता है जैसे युग-युग की यौवन की मूकता को कवि ने वाणी प्रदान की है । इन पृष्ठों की प्रशंसा में यदि मैं कहूँ कि वृत्तियों का मानवीकरण किया है, मनोवैज्ञानिक पुट है, अलंकारों का सुन्दर निर्बाह हुआ है, व्यंजना से काम लिया है, वर्णनों में चलचित्रों की चंचलता भरी हुई है, तो क्या सन्तोष होता है ? वैसे पूरी कामायनी में अन्तर की रसभरी पंखुरियों पर पंखुरियों खुलती जाती हैं, पर इन तीन सर्गों में तो 'प्रसाद' ने संज्ञा को मुग्ध कर दिया है, उसे लोरी देकर सुला दिया है । इससे अधिक क्या कहे ? यह रस-दान काव्य की अपनी वस्तु है और निष्प्रय-पूर्वक वह 'मनोविज्ञान' की किसी 'ट्रीटाइज्ज़' में नहीं मिलेगा ।

## —प्रकृति-वर्णन—

प्रकृति को लेकर कामायनी में 'प्रसाद' जी की विशेषता है उसके भयंकर विनाशकारी स्वरूप को चित्रित करना। शशि की ऐशमी विभा से भरी जल की जो लहरें 'नौका - विहार' के समय साढ़ी की सिकुड़न - सी प्रतीर होती हैं वे हमें निगल भी सकती हैं, जो अनित्त केवल इस लिये गन्धयुक्त है कि वह किसी की 'भावी-पत्नी' के सुरभित - मृदु - कच्चाल से गन्ध चुरा लाया है, वह घनीभूत होकर इवासों की गति रुद्ध भी कर सकता है, जो विद्युत किसी के अंग की आभा और चञ्चलता का उपमान बनती है और वर्षा की बूँदों को अपनी चमक से सोने की बूँदें बनाती हैं, वह कहीं गिरकर वज्र का रूप भी धारण करती है और 'गरल जलद को खड़ी झड़ो' की सहायक भी होती है। कामायनी के प्रारम्भ में पञ्चभूत के भैरव मिश्रण से जो प्रलय की हाहाकारभय स्थिति उपस्थित हुई, 'प्रसाद' द्वारा प्रकृति के उस दुर्भनीय स्वरूप का चित्रण चमत्कृत करने वाला है—

उधर मरजतीं सिधु लहरियाँ  
कुटिल काल के जालों मी,  
चली आ रही फेन उगलती  
फन फैलाए व्यालों सी ।

इस्य प्रभात, धूसर मलिन संध्या और उयोत्सना - चर्चित रजनी के अनेक चित्र कामायनी के कवि ने अंकित किये हैं। एक और प्रभात के कोमल अनुराग को विखेर कर सृष्टि को कमनीय भी बनाया गया है और दूसरी ओर इड़ा के सौदर्य की पृष्ठभूमि में उसे और भी उज्ज्वलता प्रदान की है। हिमखण्डों पर पड़कर रवि-किरणों असंख्य हिमकरों का सृजन भी करती हैं और इड़ा मनु

के मिलन को देख शून्य में उषा मुसकरा भी देती है। गोधुलि वेला सृष्टि पर एक कहण मत्तिन छाया भी छोड़ जाती है और पश्चिम की लालिमा को अंधकार से दबता देख अहेरी मनु की प्रतीक्षा करती-करती श्रद्धा व्याकुल भी हो उठती है। तारे तम के सुन्दरतम रहस्य भी हैं और व्यथित हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले भी। रजनी वसुन्धरा पर चौदनी भी उड़ेलती है और मनु के मन को मथ भी डालती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का वर्णन केवल प्रकृति-वर्णन के लिये भी है और भावों को प्रभावित करने के लिये भी। चेतना प्रदान करने, वातावरण की सृष्टि करने और सहज रूप में देखने के साथ-साथ उपमानों के रूप में प्रकृति के हश्यों का हृदय खोल कर उपयोग किया गया है।

धिर रहे थे बुँधराले बाल  
अंश अवलंचित मुख के पास,  
नील घन शावक से सुकुमार  
सुधा भरने को विधु के पास।

नील परिधान बीच सुकुमार  
खुल रहा मृदुल अघखुला अंग,  
खिला हो ज्यों बिजली का फूल  
मेघ-बन बीच गुलाबी रंग।

'स्वान' के आरंभ में वियोग, 'सर्ग' काम के आरंभ में वसंत के रूप में औवन और 'लज्जा' के आरंभ में लज्जा आदि के विस्तृत वर्णन प्रकृति के आधार पर ही कहण से कहणतर, रम्य से रम्यतर और मधुर से मधुरतम बने हैं! मन की उदाम वासना को व्यक्त करने के लिये प्रकृति का बहुत ही उपयुक्त आवरण 'प्रसाद' को 'आँसू' और 'कामायनी' दोनों में मिला है। प्रकृति के प्रति शृंगारी हृषिका एक ही उदाहरण देखिए—

फटा हुआ था नील वसन क्या  
ओ योवन की मतवाली ?  
देख अकिञ्चन जगत लूटता  
तेरी छुवि भोली भाली ।

स्वतंत्र स्थलों में हिमालय के वर्णन अधिक हैं । हिमालय  
अधिकतर पात्रों की लीलाभूमि होने के कारण बार-बार कवि के  
दृष्टि-पथ में आया है । पचास प्रकार से उसे घुमा फिराकर कवि  
ने देखा है । एक स्थल पर उसे किसी पीड़ा से कम्पित धरा को  
भयभीत सिकुड़न कहा है । दूसरे स्थल पर समुद्र में मग्न होने  
वाली अचला का अवलंबन-अंचल कह कर कैसे विराट् दृश्य की  
कल्पना की है ।

(१) विश्व कल्पना सा ऊँचा वह  
सुख शीतल संतोष निदान  
और छवती सी अचला का  
अवलंबन मणि रत्न निधान —आशा

(२) क-धरा की यह सिकुड़न भयभीत  
आह कैसी है ? न्या है पीर !  
ख-मधुरिमा में अपनी ही मौन  
एक सोया संदेश महान । —श्रद्धा

(३) रवि कर हिम खंडों पर पङ्क कर  
हिमकर कितने नये बनाता

—रहस्य

हिमगिरि और संध्या दोनों के संयोग का एक संश्लिष्ट चित्र  
देखिए—

संध्या-घनमाला की सुन्दर  
ओढे रंग-विरंगी छींट,

गगन-चुम्बिनी शैल-श्रेणियाँ  
पहने हुए तुषार-किरीट ।

### —सृष्टि-रचना—

प्रसाद ने प्रेम-मूल। सृष्टि की रचना अणुवाद ( Atomic Theory ) के आधार पर मानी है। इससे उन्होंने भावना और विज्ञान को भिला दिया है। कहना चाहिये कि कवि ने वैज्ञानिक के मस्तिष्क से सोचा है या वैज्ञानिक भावुक होगया है।

काम सर्ग में अनद्वा कहता है कि वह और रति इस सृष्टि से भी पुराने हैं। जैसे वसंत के छाते ही लता पुष्प देने योग्य बनती है, उसी प्रकार सूदम प्रकृति ने जब यौवन प्राप्त किया तब उसमें प्रजनन शक्ति आई। एक दिन उसके हृदय में वासना ( रति ) जगी और अनुकूल समय पर सबसे पहिले दो अणुओं का जन्म हुआ। यद्यपि कवि ने स्पष्ट नहीं लिखा है पर 'हम दोनों का अस्तित्व रहा उस आरम्भक आवर्त्तन सा' से यह खबर निकलती है कि सृष्टि के अस्तित्व में आने के लिये रति के साथ ही काम की भी आवश्यकता पड़ती है। स्त्री के हृदय की वासना को 'रति' और पुरुष के हृदय की उद्घाम लालसा को 'काम' कहते हैं। अतः यह मान लेना चाहिये कि जब अव्यक्त प्रकृति का हृदय समागम के लिए ठाकुल हुआ तब पुरुष ( ईश्वर ) के हृदय में भी आकर्षण उत्पन्न हुआ। उन दोनों के एक दूसरे की ओर खिच फर निकट आने से अणु उत्पन्न हुए। फिर जैसे गृहस्थों के कुदुम्ब में बच्चे बढ़ते चले जाते हैं उसी प्रकार शून्य में अणु भरते चले गए। ये अणु एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर मिलने लगे और फिर उनके एकत्र होने से एक दिन स्थूल सृष्टि बनी। धीरे धीरे उस पर बनस्पति, कीड़े, मक्कोड़े, पशु,

पक्षी, स्त्री-पुरुषों का जन्म हुआ । काम और रति के प्रभाव से पहले प्रणय-व्यापार प्रकृति-पुरुष, फिर देवता-अप्सराओं और अब नर-नारियों में चलता रहा है । प्रसाद ने प्रकृति की वस्तुओं में आकर्षण को स्वीकार करते हुए लिखा है—

चुज-लता पढ़ी सरिताओं की  
शैलों के गले सनाथ हुए,  
जलनिधि का अंचल व्यंजन बना  
घरणी का दो दो साथ हुए ।

### —जीवन-दर्शन—

विश्व के महान् मनीषियों में इस बात पर गहरा मतभेद है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? एक और वे दार्शनिक हैं जो सृष्टि को मिथ्या, जीवन को निःसार सौदर्य को मायाजाल बतलाते हैं और संसार से विमुक्त करना ही जिनका लक्ष्य रहता है, दूसरी और वे विचारक हैं जो जगत् को भगवान् की विभूति समझ कर, जीवन को विभु का दान मान कर, सौदर्य को सृष्टि-कर्ता का रहस्य स्वीकार कर प्रकृति के विखरे वैभव का शासक बनने और उसके उपभोग का आदेश देते हैं । ऐसी दशा में निवृत्ति और प्रवृत्ति-मार्ग में से किसे रखीकार करें यह सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए एक पूरी समस्या है, क्योंकि दोनों बगँ के चितकों के तर्क प्रायः एक से ही प्रवल हैं । निष्पक्ष भाव से किसी एक और मुक्ते नहीं बनता ।

महान् कवि महान् विचारक भी होते हैं । यही कारण है कि अपनी आदर्द्भावुकता का परिचय देने के साथ ही वे कलात्मक ढंग से अपने गंभीर विचारों का समावेश भी अपनी कृतियों में अनुकूल प्रसंग लाकर कर देते हैं । इस हृष्टि से

विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करने के लिए भारत के चार महान् कवियों के सम्पूर्ण ग्रन्थों का अध्ययन साहित्य-प्रेमियों को मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। ये साहित्यिक हैं— तुलसी, रबीन्द्रनाथ ठाकुर, जयशंकरप्रसाद और महादेवी वर्मा। दुर्भाग्य की बात है कि समाजवाद के सिद्धान्तों का सशक्त सरस वाणी में प्रतिपादन करने वाला अभी कोई उच्च कोटि का कलाकार भारत में नहीं है जिसका नाम हम इनके साथ जोड़ सकते।

प्रसाद जी ने अनेक स्थलों पर दुखवाद का खंडन किया है। उनके दृष्टिकोण को ठीक से समझने के लिए उनकी 'एकघूंट' नाटिका को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें उनके विचारों का सार यह है कि ब्रह्म के तीन गुण हैं सत्, चित्, आनन्द। सृष्टि की रचना करके वह अपने 'सत्' ( Existance ) का परिचय देता है। हमें चेतनता प्रदान करके वह 'चित्' की प्रतिष्ठा करता है। रहा 'आनन्द'। इसकी उपलब्धि सौंदर्य के माध्यम से होती है। सौंदर्य कहते ही उसे हैं जो आनन्द दे। आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा आनन्दमय है, अतः आनन्द की उपलब्धि के लिए आत्मा का व्याकुल रहना अत्यन्त स्वाभाविक है। आनन्द, बाह्य सौन्दर्य, चाहे वह नारी के शरीर और प्रकृति की वस्तुओं का हो और आंतरिक सौंदर्य, जो उज्ज्वल गुणों में निहित रहता है, दोनों से मिलता है। इसलिए सौंदर्य की ओर आकर्षित होना एक अत्यन्त सहज बात है, आत्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की इच्छा है, कोई दुष्ट भावना नहीं। यहीं तक नहीं, आत्मा का सौंदर्य से जितना विस्तृत परिचय होगा उतना ही उसका विकास होगा। दूसरा तर्क उनका यह है कि यदि जगत् की उत्पत्ति आनन्दमय विभु से हुई है तब इसमें दुःख कहों से आया? यह दुःख मनुष्य की कल्पना से निर्मित है, आरोपित है। उन्हीं के शब्दों में सुनिए—

१-विश्व-चेतना के आकार धारण करने की चेष्टा का नाम 'जीवन' है। जीवन का लक्ष्य 'सौदर्य' है, क्योंकि आनन्दमयी प्रेरणा जो उस चेष्टा या प्रयत्न का मूल रहस्य है, स्वस्थ-अपने आत्म-भाव में निर्विशेष रूप से—रहने पर सफल हो सकती है।

२—मैं उन दार्शनिकों से भत्तमेद रखता हूँ जो यह कहते आए हैं कि ससार दुःखमय है और दुःख के नाश का उपाय सोचना ही पुरुषार्थ है।

—एक घूंट

इन्हीं भावों की प्रतिध्वनि कामायनी में स्थान स्थान पर मिलती है—

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| कर रही लीलामय आनन्द         | ..       |
| महा चिति सजग हुई सीव्यक्त,  | ..       |
| विश्व का उन्मीलन अभिराम     | ..       |
| इसी में सब होते अनुरक्त ।   | —श्रद्धा |
| मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी   | —काम     |
| वह क्या सब छाया उलझन है ?   | —काम     |
| यह लीला जिसकी विकस चली      | ..       |
| वह मूल शक्ति थी प्रेम कला । | —काम     |

आकर्षण होता है यह तो बहुत से अनुमान कर सकते हैं और बहुत से अनुभव भी, पर क्यों होता है, इसका उत्तर सब नहीं दे पाते। ऐसा उत्तर जो हमारे अंतर में विश्वास का संपादन भी करे पीछे 'एक घूंट' में प्रसाद ने दिया है। कामायनी में इस आकर्षण की व्यापकता से मनु का परिचय होता है—

पशु कि हो पाषाण सब मे नृत्य का नव छुद,  
एक श्रालिगन तुलाता सभी को सानद ।

प्रसाद जी कर्म के पक्षपाती हैं, वैराग्य के नहीं-तप नहीं केवल जीक्षन सत्य। उनका कहना है कि जब स्वयं भगवान कर्म

में लीन हैं, जब सृष्टि का एक एक कण अविराम साधना मे निरत है, जब सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र एक क्षण का विश्राम नहीं लेते तब मनुष्य अकर्मण्य होजाय, यह कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? प्रसाद के मनु ने समाधि में लीन, शोक क्रोध से उदासीन, जड़तामय हिमालय को जीवन का उपयुक्त आदर्श नहीं माना, गतिशील और उचित सूर्य को समझा है—

देखे मैंने वे शैल शृंग ।

जो अचल हिमानी से रंजिन, उन्मुक्त, उपेक्षा भरे तुङ्ग ।  
अपने जड़ गौरव के प्रतीक वसुधा का कर अभिमान भंग ।  
अपनी समाधि में रहे सुखी, वह जाती है नदियों अवोध ।  
कुछ स्वेदविंदु उसके लेकर, वह स्थिमित नयन, गत शोक क्रोध ।  
स्थिर मुक्ति, प्रतिष्ठा मै वैसी चाहता नहीं इस जीवन की ।  
मैं तो अवाध गति मरुत सहश हूँ चाह रहा अपने मन की ।  
जो चूम चला जाता अंग जग प्रति पग में कंपन की तरग ।

वह उचलन शृंग गतिमय पतंग ।

यह कवि सहानुभूति, अहिंसा, करुणा, चदारता, दया, ममता और प्रेम का प्रचारक होने पर भी दुर्बलता का उपदेश कहीं नहीं देता, यह ध्यान देने की बात है । उसकी सहिष्णुता, क्षमा आदि वृत्तियाँ शक्तिशालियों की हैं, विवरों की नहीं—

और यह क्या तुम सुनते नहीं  
विधाता का मंगल घरदान  
शक्तिशाली हो विजयी बनो  
विश्व में गूँज रहा जय-गान ।      — श्रद्धा  
यह नीड़ मनोहर कृतियों का  
यह विश्व कर्म रंगस्थल है,  
है परंपरा लग रही यहाँ  
ठहरा जिसमें जितना बज है ।      — काम

यह भ्रम न होना चाहिए कि प्रसाद जी क्योंकि जीवन में प्रेम का समर्थन करते हैं, अतः असंयम का भी। कामायनी एक सत्कृति के विनाश और दूसरी संस्कृति की प्रतिष्ठा का सधि-स्थल है। देवजाति नष्ट ही वासना की अति से हुई। यही कारण है कि श्रद्धा और कामदेव दोनों ने मनु को यह बात दुहरा दुहरा कर समझायी है कि जीवन का शुद्ध विकास वासना और संयम के सामबजस्य से ही हो सकता है। न तपस्वी होने की आवश्यकता है और न विलासी—

देव असफलताओं का धंस  
गच्छ उपररण जुटाकर आज  
पढ़ा है बन मानव संपत्ति  
पूर्ण हो मन का चेतन रज

—श्रद्धा

दोनों का समुचित प्रतिवर्त्तन  
जीवन में शुद्ध विकास हुआ  
प्रेरणा अधिक अब स्पष्ट हुई  
जब विष्वलव में पढ़ हास हुआ

— काम

पूर्ण समता की स्वीकृति ही नर-नारी का एकमात्र सच्चा, धारस्परिक संवेद है। स्त्रियों को भनोविनोद की संकीर्ण दृष्टि से जो प्राय देखा जाता है, उससे हमारी गरदन नीची होनी चाहिए। कामायनी में प्रसाद जी जीवन में नारी के मूल्य पर भी निचार किया है। इड़ा सर्ग में काम मनु को फटकारता हुआ कहता है—

तुम भूल गए पुरुषत्व मोह मे कुछ सच्चा है नारी की,  
समरसता है सेवंघ वर्नी अविकार और अधिकारी की।

पर तुमने तो पाया सदैव उसकी सुन्दर जड़ देह मात्र,  
सौंदर्य जलधि से भर लाये केवल तुम अपना गरल पात्र ।  
तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय-प्रकाश न ग्रहण किया,  
हाँ, जलन वासना को जीवन भ्रम तम मे पहला स्थान दिया ।

सुख दुःख के संबन्ध में कवि का यह निर्णय है कि दुःख से विचलित न होकर उसके भीतर से शक्ति का सम्पादन करना चाहिए और सुख में मर्यादा और दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना चाहिए । संसार परिवर्तनशील है यह सत्य है पर जो पल हमें मिले हैं उन्हें मधुर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए । भविष्य की द्यर्थ चिता से वर्तमान को मलिन बनाना उचित नहीं—

अपना हो या औरों का सुख  
बढ़ा कि वस दुख बना वही,  
कौन बिंदु है रुक जाने का  
यह जैसे कुछ ज्ञात नहीं ।

प्राणी निज भविष्य चिंता में  
वर्तमान का सुख छोड़े,  
दौड़ चला है विखराता सा  
अपने ही पथ रोड़े । — निर्वेद

मेरी दृष्टि से कामायनी एक विराट् सामंजस्य की सनातन गाथा है । उसमे हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य वासना-संयम का सामंजस्य, दुःख-सुख का सामंजस्य, परिवर्तन स्थिरता का सामंजस्य, प्रश्रृति-निवृत्ति का सामंजस्य, शासक-शासित के अधिकारियों का सामंजस्य, नर-नारी के संबंध का सामंजस्य और सब से अधिक भेद और अभेद द्वयता और इकाई का सामंजस्य है । सब कुछ करते हुए, सब कुछ सहते हुए इस चरम भाव को विस्मृत नहीं करना है—

चेतन समुद्र में जीवन  
लहरों सा विखर पड़ा है;  
कुछ छाप व्यक्तिगत, अपना  
निर्मित ग्राकार खड़ा है।

इस ज्योत्स्ना के जलनिघि में  
बुद्ध बुद्ध सा रूप बनाये,  
नक्षत्र दिखायी देते  
अपनी आभा चमकाये।

वैसे अभेद सागर में  
प्राणों का सृष्टि-क्रम है;  
सब में खुल मिल कर रसमय  
रहता यह भाव चरम है।

अपने दुख सुख से पुलकित  
यह मूर्त्ति विश्व सचराचर;  
चित का विराट व्यु, 'मङ्गल'  
यह 'सत्य' सतत चिर 'सुन्दर'।

### --पारमार्थिक सत्ता--

'प्रसाद' ने सृष्टि का शासन करने वाली महाशक्ति को शिव  
के रूप में देखा है और प्रकृति में उनके स्थूल रूप का आभास  
दिया है। दूसरे ढङ्ग पर यह भी कह सहते हैं कि भगवान् शिव  
के सम्बन्ध में हमारी जो धारणाएँ हैं उम्हे प्रकृति में घटाया है।  
मनु के इड़ा पर अत्याचार करने को उच्चत होते ही रुद्र - हुँकार  
सुनाई पड़ती है और अचानक रुद्र-नयन खुल पड़ता है। मनु  
को दर्शन भी नृत्य - निरत नटराज ( महादेव ) के होते हैं। कवि  
ने हिमवत्ल गिरिराज के ऊपर उगते चन्द्र को और उसकी गोद

• मेरे लहरें लेती मानसी को पुरातन-पुरुष (चन्द्रशेखर) और उनकी अर्द्धाङ्गिनी गौरी के रूप मेरे देखा है। इससे बहुत पहिले 'कर्म' सर्ग मेरे पूर्णचंद्रको अगवान् शिव का गरल-पात्र माना है-

नील गरल से भरा हुआ यह  
चंद्र कपाल लिए हो,  
इन्हीं निमीलित ताराओं मे  
कितनी शान्ति पिए हो ।

अचल अनंत नील लहरो पर  
बैठे आसन मारे,  
देव ! कौन तुम भरते तन मे  
श्रमकण-से चे लारे !

### —छायावाद और रहस्यवाद—

'छायावाद' और 'रहस्यवाद' शब्दों को लेकर हिन्दी में अहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। उस वाग्जाल को यहाँ स्पष्ट करने का अवकाश नहीं है। बहुत सरल ढंग से हम कह सकते हैं कि प्रकृति में चैतना की अनुभूति छायावाद है और प्राणी का ब्रह्म के प्रति प्रगण्य-निर्वैदन रहस्यवाद। शब्दों का बाह्य-स्वरूप बहुधा भ्राति उत्पादक होता है, अतः तात्पर्य प्रहण करने के लिए पक्षियों के भाव में ही अवगाहन करना चाहिए। शब्दों से यह प्रकट होने पर भी कि प्रकृति नर अथवा नारी की भाँति स्पंदन-शीला है, जब तक भाव से यह स्पष्ट न होजाय कि वह प्राणी की अनुभूति से बास्तव में सम्पन्न है, तब तक किसी भी उद्धरण मेरायावाद न होगा। उदाहरण के लिए पर्वतों का वर्णन करते अमय प्रायः प्रत्येक कवि 'प्रसाद' की भाँति किसी न किसी ढंग से लिखता है 'गगन-चुंबनी शैल-श्रेणियाँ'। यहाँ पर्वत की ऊँचाई

का भान कराना ही मुख्य उद्देश्य है, शैल-श्रेणियों और गगन का प्रणय-व्यापार नहीं, अतः 'चुंबन' शब्द पढ़ते ही छायावाद बतला देना भावावेश अथवा बुद्धि के आवेश का परिचय देना है। इसी प्रकार प्रलयकालीन प्रकृति की भयंकरता का वर्णन करते समय कवि यदि लिख जाय 'लहरें क्षितिज चूमती उठती' तो थोड़े धैर्य के साथ निर्णय देना चाहिए। परन्तु अन्य प्रसंग में कहीं एकान्त शून्य में लहरों और क्षितिज की इस निर्द्वन्द्व कानाफूसी के काम पर यदि कवि की हृषि पड़ गई तो छायावाद की छाप लग जायगी—

ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे-धीरे  
जिस निर्जन मागर में लहरी, अंवर के कानों में गहरी  
निश्छल प्रम-कथा कहती हो, तज कोलाहल की आवनी रे ।

कामायनी पर आइए। कभी आपने किसी सुनुमारी को उठते देखा है? सुनते हैं उनके उठने में भी एक कला होती है। देखा है किसी को कोमल तन से हिम धबल चादर को धीरे धीरे खसकाते, फिर अलसाते शीतल जल के छीटे मारते, फिर धीरे-धीरे नेत्र खोलते चेतन्य होते और अँगड़ाई लेकर फिर सोजाते? 'प्रसाद' की आँखों में थोड़ी देर को अनन्ती आँखें रखकर मौन हो जाइए। यह प्रकृति वाला आज प्रथम बार कुछ 'संकुचित' सी प्रतीत होती है। न जाने क्यों?

धीरे धीरे हिम-आच्छादन  
हटने लगा धरोतल मे.  
जगी वनस्पतियाँ अलसाई  
मुख धोतीं शीतल जल से ।

नेत्र निमीलन करती मानो  
प्रकृति प्रबृद्ध लगी होने,

जलधि लहरियों की औँगड़ाई  
बार बार जाती सोने ।

सिंधु-सेज पर धरा-वधु श्रव  
तनिक सकुचित बैठी सी,  
प्रलय-निशा की हलचल-धूमिति में  
मान किए सी ऐंठी सी ।

ब्रह्म के प्रति आत्म-निवेदन की भूमि बहुत विस्तृत है  
जिसमें दर्शन, आकर्षण, विरह, अभिसार, छेड़छाड़, मिलन  
आदि की बहुत सी बातें सम्मिलित हैं। इनकी चर्चा महादेवीजी  
के काव्य को लेकर हम अन्यत्र करेंगे। ब्रह्मकी सत्ता के 'आभास,  
का एक उदाहरण कामायनी के आशा सर्ग से लीजिए—

महानील इस परम व्योम में  
अन्तरिक्ष में ज्योतिर्मनि ।  
ग्रह, नक्षत्र और विद्रुत्कण,  
किसका करते से संधान ?

छिप जाते हैं और निकलते,  
आकर्षण में छिपे हुए ।  
तुण वीरुध लहलहे हो स्वे  
किसके रस से सिंचे हुए ।  
हे अनन्त रमणीय ! कौन तुम ?  
यह मैं कैसे कह सकता ।  
कैसे हो ? क्या हो ? इसका तो  
भार विचार न सह सकता ।

**—सत्यं शिवं सुन्दरम्—**

'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' आदर्श-वाक्य तो प्रत्येक कलाकार  
का रहता है, पर इन तथ्यों का उचित समन्वय कामायनी में ही

हुआ है। कामायनी में सृष्टि-व्यापार को बहुत व्यापक दृष्टि से देखा गया है। कलाकार का सत्य न वैज्ञानिक का शुष्क सत्य है और न दार्शनिक का सूक्ष्म सत्य। परिवर्तनशील जगत, नाश-बान जगत्, क्या सत्य है? श्रद्धा उत्तर देनी है जिसे तुम 'परिवर्तन' कहते हो वह 'नित्य नूतनता' है। दुःखमय विश्व क्या 'शिव' हो सकता है? श्रद्धा कहती है-दुःख ईश का घरदान है। दुःख के अंतर में सुख उसी प्रकार निवास करता है जैसे काली रजनी के गर्भ में प्रभात या फिर नीली लहरों में शुतिमयी भणियाँ। और इस सृष्टि की सुन्दरता के प्रति हमारा क्या हृष्टि-कोण होना चाहए? इस सबल्ध में प्रसुख पात्रों की ओषणा छुनिएः—

इङ्गो—यह प्रकृति परम रमणीय अस्तिल ऐश्वर्यभरी शोधकविहीन।

तुम उसका पटल खोलने में परिफर कसकर बन कर्मलील।

सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो आपनी लुमता।

अद्वा—कर एही लीलामय आनद

महा चिति सजग हुई सी व्यक्त

विश्व का उन्मीलन अभिराम

इसी में सब होते अनुरक्त।

मनु—आकर्षण से भरा विश्व यह  
केवल भोग्य हमारा।

### —वर्णन-पद्धति—

चैभव, विलास, सौदर्य, चिरह, मृत्यु, प्रलय, प्रकृति और विभिन्न वृत्तियों के कलात्मक वर्णन के लिये 'प्रसाद' की कितनी प्रशंसा की जाय! भाव और भाव-प्रदर्शन का अपूर्व सामड़जस्थ जो विसी भी महात्म कलाकार की परख है 'प्रसाद' में पूर्ण रूप

से मिलता है। एक शब्द या वाक्यांश में ही कहीं कहीं तो मूर्त्तियाँ खड़ी करदी हैं जैसे इडा को 'चेतनते', चिता को 'अभाव की चपल बालिके', मृत्यु को 'चिरनिद्रा' आशा को 'प्राण-समीर' लज्जा को 'हृदय की परवशता' सत्य को 'मेधा के क्रोड़ा-पञ्चर का पाला हुआ सुआ' और श्रद्धा के रूप को 'ज्योत्स्ना-निर्भर' किस सहज-भाव से कहा है !

'प्रसाद' के नाटकों की किलष्ट उक्तियों, उनमें आए गीतों तथा उनके काठ्य-ग्रन्थों-विशेषकर 'ओसू' और 'कामायनी' को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक भाषा और भावाभिव्यक्ति का सम्बन्ध है वहाँ 'प्रसाद' का अपना एक स्टैंडर्ड था जिससे नाचे वे उत्तरना न चाहते थे । 'प्रसाद' रस-दान से पहिले हमारी पात्रता परखते हैं । अ-पात्र को निर्देयता से बापिस कर देते हैं । जिसने यह लिखा है कि 'कामायनी कालान्तर में एक लोक-प्रिय रचना होगी' उसने सोच कर नहीं लिखा । मेरा अपना विश्वास है कि 'कामायनी' को चाहे और कुछ गौरव प्राप्त हो पर लोक प्रियता का यश उस अर्थ में उसे न मिलेगा जिस अर्थ में तुलसी, सूर, मैथिलीशरण गुप्त और प्रेमचन्द को मिला है । पर लोक-प्रियता ही तो उत्तमता की एकमात्र कसौटी नहीं है । रोटी और हीरे में जो अन्तर है वही अन्तर कुछ कलाकारों और 'प्रसाद' में है । जो रोटी भी है और हीरा भी ऐसी तो एक मात्र रचना हिंदी में 'रामचरित मानस' ही है । 'कामायनी' साहित्यिकों की प्रिय-बस्तु रहेगी । लोक-दृष्टि से परखें तो 'प्रसाद' में 'प्रसाद' गुण की कमी है ।

विचार-गांभीर्य और नवीन कल्पनाओं को प्रस्तुत करने के कारण तो प्रसाद की कविता साहित्य के विद्यार्थियों को दुरुह प्रतीत होती ही है, पर उनसे छिटक भागने का मुख्य कारण है

मूर्त्ति उपमानों के स्थान पर प्रचुर परिमाण में कवि का अमूर्त्ति अप्रस्तुतों को ग्रहण करना जैसे—

- (१) नीरवता सी शिला
- (२) मृत्यु सदा शीतल निराश
- (३) विश्व-कल्पना सा ऊँचा ( हिमालय )
- (४) जड़ता सी शान
- (५) कामायनी पढ़ी थी अपना  
कोमल चर्म बिछा के,  
श्रम मानो विश्राम कर रहा  
मुँह आलस को पाके ।

थोड़ी देर के केशों पर अन्य कवियों की कल्पनायें लीजिए—

- (१) चिकुर —विद्यापति ।
- (२) लहरन भरे सुअङ्ग वैसारे । —जायसी ।
- (३) घन-पटल से केश । —मैथिलीशरण ।
- (४) कटि के नंचे चिकुर जाल में  
उलझ रहा था बाँया हाथ ।  
खेल रहा हो ज्यों लहरों से  
लोल कमल भौरों के साथ । —गुप्त जी ।

इन चारों उदाहरणों में प्रस्तुत भी मूर्त्ति हैं और अप्रस्तुत भी, अत भाव सहज गम्य हैं। जैसे बालों को हम देख पाते हैं, उसी प्रकार अधकार, मेघ, सर्प और भौरि भी हमारी दृष्टि के सामने धूमते रहते हैं। उपमेय और उपमान का 'बर्ण' अथवा 'आकार' साम्य जोड़ने में देर नहीं लगती। पर 'प्रसाद' अलकों को कहीं कहीं 'तर्क जाल' भी कहेगे-विखरी अलकें ज्यों तर्क-जाल-इस 'तर्क-जाल' के साथ यह 'भाव'-साम्य स्थापित करने के लिये कि जैसे तर्क जाल में फँसकर बुद्धि की मुक्ति

कठिन है उसी प्रकार बाल्जाल में फँसकर मन न लौट सकेगा, कुछ पलों की देर लगती है। जिसमे इतना धैर्य नहीं है वह 'प्रसाद' को खखा, दुरुह और न जाने क्या क्या कहता है ?

कामायनी में चित्रों की भरमार है। 'प्रसाद' जी भावनाओं और विचारों को प्रकट करते समय उनकी पृष्ठभूमि में जीवन या प्रकृति के किसी हश्य की कल्पना करते हैं। अत. पाठकों की हजिट प्रस्तुत वर्णन को भेदती हुई जब तक उन हश्यों पर न टिकेगी तब तक न तो वे प्रसाद की बात ही पूर्णरूप से समझ पावेंगे और न कवि के सूक्ष्म काव्य-कौशल और उसकी भावुकता से अवगत होंगे। 'छायावाद' के प्रसंग में पीछे देख चुके हैं कि यदि उस उदाहरण में से किसी को मलांगी युवती के सोकर उठने के हश्य को खीच लें तो उसका आधा सौदर्य नष्ट हो जाय। मनु के हृदय में उदित होने वाली 'आशा' के स्वरूप को देखिए—

यह कितनी स्पृहणीय बन गई  
मधुर जागरण सी छुविमान,  
स्मिति की लहरों सी उठती है  
नाच रही द्यों मधुमय तान। — आशा

जीवन में आशा न हो तो जीवन भार हो जाय, अतः वह अत्यन्त स्पृहणीय है। इतनी सी बात तो और भी कोई कह सकता था। पर आगे चल कर अनुभूति-संबंधी उलझन खड़ी होती है। आशा के उदित होते ही कैसा-कैसा लगा करता है, यह दूसरों को समझाना सरल काम नहीं। कवि कहता है आशा के जगने (उदित होने) में वैसी ही रम्यता है जैसी रम्यता मनो-रम उषाकाल में किसी अनुपम सुन्दरी के सुकुमार पलकों को खोलने के हश्य में। उस हश्य के देखने से जैसा सुख दृष्टा को प्राप्त होता है वैसा ही सुख आशा का अनुभव करने वाले

हृदय को मिलता है। पर आशा उद्दित होकर ही नहीं रह जाती वह उठती, बढ़ती या उमड़ती है। इस स्थिति को प्रत्यक्ष करने के लिए वह दूसरा गोचर दृश्य सामने लाता है—देखो, तुमने कभी किसी के मधुर अधरों पर मंद मुसिकात की लहरियों को धीरे धीरे उठते देखा है। आशा की तरंगे भी भावपूर्ण हृदय में उसी सुकुमारता से क्रीड़ा करती हैं। उस समय जिस गुदगुदी का अनुभव तुम्हारा हृदय करता है वैसे ही आह्वाद का अनुभव आशा के विकसित होने पर होता है। और तब वह स्थिति भी आती है जब आशा समस्त अंतःकरण में घुमड़ने लगती है। उस मधुरता का तो कहना ही क्या ? पर कवि वहाँ भी भूक नहीं है। इंगित करता है—इस स्थिति को गूँजती हुई मीठी तान के शब्द—सुख से छूट कर समझ लो।

यहाँ कई बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात तो यह कि कवि ने एक अमूर्त सनोविकार को परिचित हृश्यों द्वारा समझाया। दूसरे जिस कोमलता, रम्यता और हर्ष की अवस्थिति उस मनोविकार में है वैसी ही कोमलता, रम्यता और प्रसन्नता उपमानों में बनी रहने दी। तीसरी बात यह है कि वर्णन को एक व्यक्तिस्था दी जैसे पहले आशा का 'होना' फिर 'जगना' फिर 'उठना' और फिर 'नृत्य करना' ( अंत करण में आवेश के साथ घुमड़ना )। पर प्रसाद की कला को आपने ठीक से नहीं परखा, यदि उस चित्र पर आपने ध्यान नहीं दिया जो इस वर्णन का प्राण है। यहाँ आशा एक रमणी है। पहली पंक्ति में वह सोती दिखाई गई है, दूसरी में जगती है तीसरी में उठती है और चौथी में सस्ती से भरकर नृत्य करने लगती है। सच घतलाइये, यदि चुप-चुप यह सब कुछ आप को देखने को मिल जाया करे, तो कैसा लगेगा ?

एक और चित्र देखिए। 'प्रसाद' ने एक स्थल पर समीर को 'अणुओं का निश्वास' कहा है। अणु आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, समीर अंतरिक्ष में बहता है। इस स्थापना में अविश्वास की कोई बात नहीं। पर पूरा व्यापार कितना रसपूर्ण है, इस पर कम व्यक्तियों का ध्यान जाता है—

उन नृत्य शिथिल निश्वासों की  
कितनी है मोहमयी माया,  
जिन से समीर छनता छनता  
बनता है प्राणों की छाया। —काम

कल्पना कीजिए किसी सभा में कोई सुन्दरी नर्तकी नृत्य कर रही है। नृत्य करते करते वह थक चली है और शिथिल होकर किसी दश्क के पास रुक गई है। सुवासित निश्वास निस्सृत होकर उस लुब्ध प्रेमी के अंग को स्पर्श करते हैं। कितना सौभाग्यशाली समझता होगा वह अपने को ! कितनी शीतल होती होगी उसकी आत्मा !

समीर के परस से जो हमारे प्राण पुलकित हो उठते हैं उस का कारण भी यह है कि वह किसी ( नृत्य-निरत अणु ) के शीतल सुरभित निश्वासों का सार है !

ज्योत्स्ना-चर्चित यामिनी में मनु के मुख से अपने लिए प्रेम की मधुर विह्वल बातें सुनकर श्रद्धा को एक प्रकार का सुख मिला और वह सोचने लगी कि जो व्यक्ति मेरी अनुरागदृष्टि प्राप्त करने के लिए इतना छटपटा रहा है, उसे आत्मसमर्पण क्यों न कर दूँ ? इतने में 'लब्जा' से उसका परिचय होता है—

वैसे ही माया में लिपटी  
अधरों पर उङ्गली धरे हुये,  
माधव के सरस कुहुवल का  
आँखों में पानी भरे हुए।

‘अधरों पर उङ्गली रखना’ द्वियों की एक मुद्रा है जो बड़ी ज्यारी लगती है। ‘आँखों में सरसता के पानी’ में जो ‘पानी’ शब्द का प्रयोग है उसका न अनुवाद हो सकता है और न अर्थ। इस स्थिता की भावज्ञों द्वारा केवल अनुभूति ही सम्भव है। परन्तु यहाँ वाह्य आकृति-चित्रण से कहीं अधिक गहरा कवि का आशय है। वासना की प्रेगणा से नारी जब पुरुष को अपने शरीर को सौंपना चाहती है तब उसके अन्तर की स्वाभाविक लज्जा उसे एक बार अवश्य टोकती है। और बिना बोले ओढ़ो पर उङ्गली रखकर बर्जन भी किया जाता है। उसी अर्थ में ‘अधरों पर उङ्गली धरे हुए’ आया है। अद्भा जैसे ही शरीर-समर्पण की बात सोचती है, वैसे ही लज्जा एक बार टोकती है-हैं। इसको, यह क्या करने जारी हो तुम ?

इसे कहते हैं सजीव चित्र अंकित करना ! ‘मनोविज्ञान की ट्रीटाइज़’ में क्या ऐसे ही चित्र रहते हैं भला ? इसी प्रसङ्ग का एक चित्र और भी—

किरनों का रज्जु समेट लिया  
जिसका अवलभवन ले चढ़नी,  
रस के निर्भर में धूंस कर मैं  
आनन्द शिखर के प्रति बढ़ती ।

इस छन्द में इस प्रकार का दृश्य निहित है कि एक ऊँचा पर्वत है, उससे भरना फूट रहा है, जिसका जल चारों ओर फैल गया है। इस जल के परे एक युवती खड़ी है। वह पर्वत की चौटी पर पहुँचना चाहती है पर तैरना नहीं जानती। देखती है कि पर्वत के शिखर से लेकर जल में होती हुई उसके चरणों तक एक डोर आई है। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है और आशा करती है अब उसकी साध पूरी होजायगी पर रसी को पकड़ आगे बढ़ने की वह ज्यों ही आकांक्षा करती है कि गिरि-

शिखर पर अधिष्ठित कोई अन्य रमणी मूर्ति चट से उसे डौर को खींच कर उस युवती को निराशा कर देती है। रूपक को हटा कर देखें तो यह पर्वत आतन्द का है, यह निर्भर प्रेम का है, यह डौर साहस की है, वह पथिक युवती श्रद्धा है, और डौर को खींचने वाली रमणी-मूर्ति लज्जा ! पर सोचने की बात यह है कि कितना व्यापक और गहन व्यापार कवि ने एक ही छन्द की रेखा-सीमा मे सेट लिया है ।

‘प्रसाद’ की कविता को समझने के लिए उनके प्रतीकों के अर्थ को ठीक से समझने की बड़ी आवश्यकता है। काम सर्ग के प्रारम्भ के इस भाव-प्रवण विस्तृत वर्णन को पढ़िए—

मधुमय वसंत जीवन बन के  
वह अंतरिक्ष की लहरों मे,  
कब आये थे तुम चुपके से  
रजनी के पिछले पहरो में !

क्या तुम्है देख कर आते थे,  
मतवाली कोयल बोली थी !  
उस नीरवता में ग्रससाई  
कलियों ने आँखें खोली थीं !

जब लीला से तुम सीख रहे  
कोरक कोने में लुक रहना,  
तब शिथिल सुरभि से धरणी मे  
निछुलन न हुई थी ? सच कहना ।

जब लिखते थे तुम सरस हँसी  
अपनी, फूलों के अँचल मे,  
अपना कलकंठ मिलाते थे  
झरनों के कोमल कल मे ।

निश्चित आह ! वह या कितना  
उल्लास, काकली के स्वर में !  
आनन्द प्रतिध्वनि गूँज रही  
जीवन दिगंत के अम्बर में ।

इसके प्रारंभ और अंत में यदि 'जीवन वन' और 'जीवन दिगंत' शब्दों का प्रयोग न होता तो वसंत के वर्णन का भ्रम होता । पर इस एक 'जीवन' शब्द ने पूरा आशय ही बदल दिया । वसंत का वर्णन न होकर यह 'जीवन के मधुमय वसंत' या 'यौवन' का वर्णन हुआ । इस वर्णन में कवि की ओर से हमें वहुत कम सहायता मिलती है । केवल इतना पता चलता है कि 'वन' के लिए वह 'जीवन' शब्द लाया है । आगे चुप है । ऐसी दशा में शेष प्रतीकों या उपमानों का अर्थ हमें अपनी ओर से लगाना पड़ता है । सुविधा के लिए इन छंदों में प्रयुक्त प्राकृतिक प्रतीकों का भाव हम नीचे दे रहे हैं—

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| मधुमय वसंत             | मधुर यौवन                 |
| अंतरिक्ष               | हृदय                      |
| लहरों                  | भावों                     |
| रजनी के                | किशोरावस्था की            |
| पिछले पहर              | समाप्ति                   |
| कोयल                   | मन                        |
| कलियों                 | वृत्तियों                 |
| कोरक ( कली )           | नव युवतियाँ               |
| शिथिल सुरभि            | मरत उच्छ्रवास             |
| धरणी                   | पृथ्वी के प्राणियों       |
| फूलों के अंचल में हँसी | बालाओं के शरीर में लावण्य |
| झरनों की कल-कल         | मन की भावनाओं             |
| काकली के स्वर          | हृदय की मधुर वाणी         |

इस प्रकार के प्रतीकों का अर्थ बहुत कुछ प्रसंग पर निर्भर करता है। अतः कामायनी में जहाँ कहीं इस पद्धति का अनुसरण 'प्रसाद' ने किया हो वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

'प्रसादजी' के मस्तिष्क की एक विशेषता है नारी को कभी कभी पुलिलङ्ग में संबोधन करना। उद्दू में यह अत्यन्त सामान्य प्रवृत्ति है जैसे—

उनके आने से जो  
आजाती है मुँह पर रौनक्—  
वे समझते हैं कि  
बीमार का हाल अच्छा है।

पर हिंदी के कवियों में यह लत 'प्रसाद' को ही थी। 'आँसू' में भी इसका आभास मिलता है। ''कामायनी'' में भी श्रद्धा को मनु पुलिलङ्ग में संबोधन करते हैं। इसका इसके अतिरिक्त और क्या उत्तर हो सकता है कि कभी कभी इस प्रकार छोलना उन्हें संभवतः प्यारा लगता हो। लिङ्ग और वचन के साथ भी वे पूरी स्वतन्त्रता लेते थे। 'कामायनी' में आधे दर्जन से ऊपर ऐसे स्थल हैं जहाँ लिङ्ग, वचन की गड़बड़ी मिलेगी। पता नहीं इस विषय में वे कवि-खातन्त्र्य का प्रयोग करते थे या 'पंत' जी के समान उनकी दृष्टि में भी शब्दों की 'श्री सुकुमारता' आदि विख्य जाती थीं।

'कामायनी' शतान्दियों में कभी उत्पन्न होने वाले एक प्रतिभाशाली कवि की प्रौढ़तम रचना है और चिता आशा, ग्रेम, ईर्ष्या, क्षमा, आनन्द आदि सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक भाव-नामों को समेटने के कारण गन्धबहु की भाँति इसका रस निर्णय नहीं रहेगा।

## लेखक की रचनाएँ—

खड़ी बोली के गौरव-ग्रंथ ।

महादेवी की रहस्य-साधना ।

निराधार ।

अवसाद ।

सोने से पहिले ×

शोफाली ×

प्राप्ति-स्थान

विश्वमर 'मानव' एम० ५०

वनवटा स्ट्रीट

मु रा दा चा ह ।



## महादेवी की रहस्य-साधना

यह प्रथं रहस्यवाद के संबंध में फैलायी गयी सभी आंतियों का निराकरण करता हुया इस क्षेत्र की सर्वोत्कृष्ट कलाकार सुश्री महादेवी वर्मी के साहित्यिक व्यक्तित्व का विश्लेषण और काव्य का विवेचन एक सरस व्यवस्थित शैली में करता है। इसमें उनके काव्य की अ्याख्या के साथ ही प्राचीन काल से लेकर अब तक के रहस्य-वादियों की रहस्य प्रवृत्तियों का परिचय भी करा दिया है। पृष्ठ २०० मूल्य २)

### सम्मतियाँ

इसनी सहज सुवोध शैली में लिखी आलोचनाएँ हिंदी में चार छह ही होंगी। अपनी बात कहते समय आलोचक कहीं जटिल नहीं होजाते, यही उनकी सब से बड़ी विशेषता है। उनमें आलोचक की सूक्ष्म परख ही नहीं, मर्मी की रसानुभूति भी है। —विशाल भारत

इससे न केवल महादेवी के ही समझने में आसानी होगी, वरन् भारतीय रहस्यवाद को परंपरा पर भी पर्याप्त प्रकाश पढ़ेगा।—साहित्य-संदेश  
पुस्तक विश्वविद्यालयों की वच्च परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। —हिन्दुस्तान रिव्यू

महादेवी की रहस्य-साधना में सुन्दर सोचने मनन करने के लिए काफ़ी सामग्री मिली। निराला जी पर अपनी पुस्तक में उसका उपयोग करूँगा। आपने महादेवीजी की बातचीत का बड़ा सुन्दर कर्णन किया है।

—दा० रामविलाम शर्मा

गीत-काव्य, रहस्यवाद और महादेवी जी पर आपने बहुत सी मौलिक वार्ते कही हैं। मेरा तो विचार है कि इन विषयों पर लिखने वाला आप के बनाये हुए आधार को छोड़ कर शा यद ही कुछ नया कह सके।

—हरचंशराय 'वच्चन'

महादेव जी का अध्ययन मार्मिक हुआ है।

—दा० देवराज

# निराधार

कवि के जीवन से संबंधित मुक्त उन्द में ९ मार्मिक कहानियों का अपूर्व संग्रह। निराधार काथ है, संस्परण है कहानी है।

पृष्ठ १२६

सूल्य १।

## —सम्मतियाँ—'

श्री० बिद्वम्भर 'मानव' भावयित्री प्रतिभा सम्पन्न भी हैं और कार्यित्री प्रतिभा सम्पन्न भी। वे समीक्षक भी हैं और कलाकार भी। 'निराधार' उनके सफल कलाकार होने का प्रमाण है। श्री० मानव ने आत्म-कथा की जिस काव्यात्मक पद्धति का श्रवलंब किया है वह हिन्दो साहित्य के लिए नवीन होने के कारण प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। ये कहानियाँ आत्मकथात्मक हैं यतः इनमें श्री० मानव के व्यक्तित्व को भलक सर्वत्र मिलती है। इनके द्वारा उनकी भावुकता, स्पष्टवादिता तथा विशुद्ध-हृदयता स्पष्टतः लक्षित होती है। कहानी कला की दृष्टि से ये कहानियाँ बड़ी सुन्दर हैं।

कहानियाँ प्रायः यथार्थवादी हैं, पर शिष्ट। इनकी भाषा सरल होते हुए भी व्यंजनापूर्ण और सप्रवाह है। विश्वास है नवीन और काव्यात्मक प्रणाली पर लिखी गई। इस आत्मकथा का स्वागत सारा हिंदी-संसार करेगा।

## —माहित्य संदेश—

श्रेष्ठ काव्य के लिए जिस तटस्थता और व्यापक अनुभूति की आवश्यकता होती है वह निराधार की समस्त रचनाओं से पूर्णतया प्रस्फुटित होती है।

मानव भावुक हैं-प्रत्येक कवि अनिवार्यतः भावुक होता है-पर उनकी भावुकता व्याधिजनक नहीं है। सासान्ध प्रेम और विरह की भावनाओं

के चित्रण में उनकी संतुलन शक्ति-समत्व बुद्धि-निराधार की कविताओं में चामत्कारिक ढंग से व्यक्त हुई है। उसका कवि रोता गिर्जागारा नहीं। उसके दृष्टिक्षेण में एक सरस नाशीनिकता और श्रेष्ठ नैतिकता है।

‘निराधार’ का कवि भाषाविद् होने का प्रमाण देता है। शब्दों का वह आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करता। उसकी शैली में स्वाभाविक प्रवाह, शक्ति और प्रसन्नता है।

‘निराधार’ आधुनिक काव्य में मिथ्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए।

—सरस्वती

अतुकांत छंद में अपनी स्मृतियों की कुछ सजल छायाओं को कृति-कोर ने संग्रह में आकार प्रदान किया है। इन्हें कहानियाँ कहूँगी एक कवि द्वारा लिखित। लेखक की अनुभुति इनमें अत्यन्त कोमल, भावना वेहद सुकुमार और इन पर उसका स्पर्श प्रौढ़ है। विचार संयत और गभीर है। भाषा और भावों में तादात्म्य है। पाठ्क रस में छीन हो जाता है।

—विशाल भारत

‘निराधार’ की क्रमणिका में ९ शीर्षक हैं-भाभी, चंपा, मीरा, महामाया, नरगिस, इयामा, सुषमा, मिस वॉयलेट आरती। इन सभी के अंतर्गत कवि संस्मरणों के रूप में कुछ संपर्कों का वर्णन करता है। उसकी कल्पना भावुकता में छब्बी हुई है। ‘मानव’ जी में हम छंदों की सरलता भाषा का सुलझाव, भाव-प्रदर्शन में संयम ये सभी गुण पाते हैं।

आल इंडिया रेडिओ, लखनऊ

‘कलाकार’ के रूप में ‘मानव’ जी का हम हिंदी-काव्य के क्षेत्र में हृदय से स्वागत करते हैं। उनमें शक्ति है, नेज है, धारा है। उनकी कछा परिपक्व है।

—रत्नी

मेरा विचार है यह कृति मेरी भाँति बहुतों को वृत्ति देगी।

—सियाराम शारण गुप्त

